

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई 2014—आषाढ़ 13, शक 1936

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश

	(1)	(2)
7	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड	
8	डॉ. जाफिर हुसैन वार्ड	
9	विनोबा भावे वार्ड	
10	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड	
11	महात्मा गांधी वार्ड	
12	रघुराज वार्ड	
13	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	
14	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	
15	सुभाष वार्ड	

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)
1	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
2	पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
3	राजीव गांधी वार्ड
4	भगत सिंह वार्ड
5	संजय गांधी वार्ड
6	अब्दुल्ला वार्ड

वार्ड की सीमाओं में सम्मिलित क्षेत्र

वार्ड क्रमांक 01—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

उत्तर—कन्ठेदी पटेल के मकान से पूर्व की ओर नजरी लाईन दमोह पटेरा मार्ग पार करते हुए चिरई पानी नहर से चलते हुए किले क्षेत्र में उमराव के मकान तक।

पूर्व—किले क्षेत्र में उमराव के मकान से दक्षिण तरफ चलते हुए किले क्षेत्र में खरगाराम के मकान तक।

**दक्षिण—** किले क्षेत्र में खरगराम के मकान से पश्चिम की ओर नजरी लाईन दमोह पटेरा मार्ग एवं बिलाई मार्ग संगम तक, वहां से बिलाई पी. डब्ल्यू. डी. मार्ग पर चलते हुए हरिजन धर्मशाला बिलाई खेरूआ मार्ग संगम तक.

**पश्चिम—** हरिजन धर्मशाला बिलाई खेरूआ मार्ग संगम से उत्तर की ओर खेरूआ बिलाई मार्ग पर चलते हुए कन्धेदी पटेल के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 02—पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड

**उत्तर—** हरिजन धर्मशाला के पास खेरूआ बिलाई मार्ग एवं पी.डब्ल्यू.डी. बिलाई मार्ग संगम से पी.डब्ल्यू.डी. दमोह पटेरा मार्ग पर पूर्व की ओर चलते हुए तथा पी.डब्ल्यू.डी. दमोह पटेरा मार्ग क्रास करते हुए नजरी लाईन किले क्षेत्र में खरगराम के मकान तक.

**पूर्व—** किला क्षेत्र में खरगराम के मकान के पूर्व की ओर नजरी लाईन पहाड़ी होते हुए लंका के टीले तक.

**दक्षिण—** लंका के टीले से पश्चिम की ओर नजरी लाईन शाला ठकरास मार्ग एवं दमोह पटेरा पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग संगम से होते हुए शाला ठकरास मार्ग पर नारायण की चक्री के पास खैया गली तक, शाला ठकरास मार्ग एवं अहरवाल गली संगम से पश्चिम तरफ चलते हुए अहरवाल गली एवं मुख्य मार्ग संगम ननू अहरवाल के मकान तक.

**पश्चिम—** अहरवाल गली एवं मुख्य मार्ग संगम ननू अहरवाल के मकान से मुख्य मार्ग पर उत्तर की ओर चलते हुए हरिजन धर्मशाला के पास खेरूआ बिलाई पी.डब्ल्यू.डी. बिलाई मार्ग संगम तक.

#### वार्ड क्रमांक 03—राजीव गांधी वार्ड

**उत्तर—** मरई माता गली अहरवाल गली एवं मुख्य मार्ग संगम ईश्वरदास उपाध्याय के मकान से पूर्व की ओर अहरवाल गली में चलते हुए शाला ठकरास मार्ग संगम तक वहां से शाला ठकरास एवं चौरसिया गली संगम से दक्षिण की ओर चौरसिया गली में चलते हुए राम भरोसे चौरसिया के मकान तक खैया गली संगम तक.

**पूर्व—** चौरसिया गली, खैया गली संगम राम भरोसे चौरसिया के मकान से खैया गली में दक्षिण की ओर चलते हुए गायत्री माता मंदिर मार्ग तथा चौरसिया गली संगम द्वारका अग्रवाल के मकान तक.

**दक्षिण—** गायत्री माता मंदिर खैया गली संगम द्वारका अग्रवाल के मकान से गायत्री माता मंदिर मार्ग से पश्चिम की

ओर चलते हुए तालाब गली संगम तक, वहां से दक्षिण की ओर चलते हुए राजाराम चौरसिया के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर हनुमान गली में चलते हुए हनुमान गली एवं मुख्य मार्ग संगम तक.

**पश्चिम—** हनुमान गली एवं मुख्य मार्ग संगम से उत्तर की ओर मुख्य मार्ग पर चलते हुए मरई माता गली, अहरवाल गली तथा मुख्य मार्ग संगम ईश्वरदास उपाध्याय के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 04—भगत सिंह वार्ड

**उत्तर—** चौरसिया गली, खैया गली संगम से खैया गली में पूर्व की ओर चलते हुए शाला ठकरास मार्ग संगम तक वहां से पूर्व की ओर शाला ठकरास मार्ग पर चलते हुए पटेरा दमोह पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग क्रास करके नजरी लाईन लंका के टीले तक.

**पूर्व—** लंका के टीले से पहाड़ के किनारे-किनारे दक्षिण की ओर नजरी लाईन डबरा तक.

**दक्षिण—** डबरा से नजरी लाईन पश्चिम की ओर न.पा. यात्री कर नाका के बाजू से दमोह पटेरा पी.डब्ल्यू.डी. क्रास करते हुए चौदह सेन का मकान लेते हुए सेन गली से उत्तर की ओर चलते हुए गायत्री माता मंदिर मार्ग संगम तक वहां से गायत्री माता मंदिर मार्ग पर पश्चिम की ओर चलते हुए गायत्री माता मंदिर एवं खैया गली संगम भण्डारी के मकान के पास तक.

**पश्चिम—** गायत्री माता मंदिर एवं खैया गली संगम से उत्तर की ओर खैया गली से चलते हुए खैया गली एवं चौरसिया गली संगम तक.

#### वार्ड क्रमांक 05—संजय गांधी वार्ड

**उत्तर—** तालाब गली एवं गायत्री माता मार्ग संगम से पूर्व की ओर गायत्री माता मंदिर मार्ग पर चलते हुए सेन गली संगम भुनू सींग के मकान तक.

**पूर्व—** गायत्री माता मंदिर एवं रोन गली संगम से रोन गली पर दक्षिण की ओर चलते हुए चौदह सेन का मकान को छोड़ते हुए नजरी लाईन न.पा. यात्री कर नाके के पास पी.डब्ल्यू.डी. दमोह पटेरा मार्ग क्रास करते हुए डबरा के पहाड़ होते हुए जंगल चौक की सामने तक.

**दक्षिण—** भौदला के पहाड़ से नजरी लाईन जंगल चौकी मार्ग तथा पी.डब्ल्यू.डी. दमोह पटेरा मार्ग संगम पर पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग क्रास करते हुए एवं जंगल चौकी मार्ग

पर पश्चिम की ओर चलते हुए कन्या शाला मार्ग और जंगल चौकी मार्ग संगम तथा बूढ़ा कचेरे के मकान के पास तक वहां से कन्या शाला मार्ग में उत्तर की ओर चलते हुए जंगल चौकी गली संगम चेतू पटेल के मकान के पास तक। वहां से पश्चिम की ओर बड़ा तालाब मार्ग पर चलते हुए तालाब गली संगम तक।

**पश्चिम**—बड़ा तालाब मार्ग एवं तालाब गली संगम से तालाब गली पर उत्तर की ओर चलते हुए गायत्री माता मंदिर मार्ग तथा तालाब गली संगम तक।

#### वार्ड क्रमांक 06—अब्दुल्ला वार्ड

**उत्तर**—मुख्य मार्ग एवं हनुमान गली संगम हरिहर नेमा के मकान के पास से हनुमान गली पर पूर्व की ओर चलते हुए तालाब गली संगम राजाराम चौरसिया के मकान के पास तक वहां से दक्षिण की ओर तालाब गली चलते हुए बड़ा तालाब मार्ग संगम वहां से बड़ा तालाब मार्ग पर पूर्व की ओर चलते हुए जंगल चौकी गली तथा कन्या शाला मार्ग संगम चेतू पटेल के मकान के पास तक।

**पूर्व**—जंगल चौकी गली बड़ा तालाब मार्ग और कन्या शाला मार्ग संगम चेतू पटेल के मकान के पास से दक्षिण की ओर कन्या शाला मार्ग पर चलते हुए जंगल चौकी मार्ग मस्जिद मार्ग एवं कन्या शाला मार्ग संगम बूढ़ा कचेरे के मकान के पास तक।

**दक्षिण**—कन्या शाला मार्ग जंगल चौकी मार्ग मस्जिद मार्ग संगम बूढ़ा कचेरे के मकान के पास से मस्जिद मार्ग पर पश्चिम की ओर चलते हुए मस्जिद मार्ग एवं मुख्य मार्ग संगम तक।

**पश्चिम**—मस्जिद मार्ग एवं मुख्य मार्ग संगम पर बाबू शाह के मकान के पास से मुख्य मार्ग पर उत्तर की ओर चलते हुए मुख्य मार्ग एवं हनुमान गली संगम हरिहर नेमा के मकान के पास तक।

#### वार्ड क्रमांक 07—मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड

**उत्तर**—मस्जिद मार्ग के पास फैयास खां के मकान से मस्जिद मार्ग पर पूर्व की ओर चलते हुए कन्या शाला मार्ग एवं जंगल चौकी मार्ग संगम तक। वहां के जंगल चौकी मार्ग पर पूर्व की ओर चलते हुए पी.डब्ल्यू.डी. दमोह पटेरा मार्ग क्रास करते हुए नजरी लाईन भौदला पहाड़ तक।

**पूर्व**—भौदला पहाड़ से दक्षिण की ओर पहाड़-पहाड़ चलते हुए नजरी लाईन जमादार तालाब के सामने पहाड़ी तक।

**दक्षिण**—नजरी लाईन जमादार तालाब के सामने पहाड़ से पश्चिम की ओर जमादार तालाब दमोह पटेरा पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग एवं साहू गली संगम साबिर के मकान संगम तक।

**पश्चिम**—दमोह पटेरा पी.डब्ल्यू.डी. रोड को जोड़ने वाली साहू गली वार्ड में उत्तर की तरफ फरीद खां के मकान से होते हुए फैयाज के मकान से मस्जिद रोड तक।

#### वार्ड क्रमांक 08—डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड

**उत्तर**—बाबू सींग के मकान से पूर्व की ओर मदौन से होते हुए फरीद खां के मकान के पास साहू गली संगम तक।

**पूर्व**—साहू गली संगम फरीद खां के मकान के पास से साहू गली में दक्षिण की ओर चलते हुए दमोह पटेरा पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग क्रास करते हुए अस्पताल के पास शकूर खां के मकान के पास तक।

**दक्षिण**—शकूर के मकान से नजरी लाईन पश्चिम की तरफ चलते हुए अस्पताल की बायें छोड़ते हुए बन्दू साहू का मकान लेते हुए दमोह पटेरा पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग क्रास करते हुए मुलू बसोर वाली गली तक।

**पश्चिम**—मुलू बसोर वाली गली से उत्तर की ओर अस्पताल गली संगम तक वहां से अस्पताल गली में उत्तर की ओर चलते हुए मैदान वाली गली संगम तक।

#### वार्ड क्रमांक 09—विनोबा भावे वार्ड

**उत्तर**—मुख्य मार्ग एवं मस्जिद मार्ग संगम से मस्जिद मार्ग पर पूर्व की ओर चलते हुए मैदान वाली गली संगम तक वहां से मैदान वाली गली पर दक्षिण की ओर चलते हुए बाबू सींग के मकान के मैदान के पास तक।

**पूर्व**—बाबू सींग के मकान के पास मैदान से अस्पताल गली में दक्षिण की ओर चलते हुए फिर मुलू बसोर वाली गली में चलते हुए दमोह पटेरा पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग क्रास करते हुए नजरी लाईन अस्पताल के सामने से होते हुए शकूर खां के मकान तक एवं वहां से सीधी नजरी लाईन कब्रिस्तान के पास पहाड़ तक।

**दक्षिण**—कब्रिस्तान के पास पहाड़ से नजरी लाईन पश्चिम की ओर हिण्डोरिया बांदकपुर मार्ग संगम तक। जलील के मकान के पास तक।

**पश्चिम**—जलील के मकान के पास बांदकपुर मार्ग पर उत्तर की ओर चलते हुए दमोह पटेरा पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग तथा मुख्य मार्ग संगम तक वहां से उत्तर की ओर मुख्य मार्ग पर चलते हुए मुख्य मार्ग एवं मस्जिद मार्ग संगम तक।

### वार्ड क्रमांक 10—डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—नजरी लाईन न.पा. सीमा से पूर्व की ओर चलते हुए शंकर पटेल के मकान को छोड़ते हुए बिलाई खेरूआ मार्ग एवं थाना मार्ग संगम तक. वहां से थाना मार्ग पर पूर्व की ओर चलते हुए भीटा गली से होते हुए किशोरी राय के मकान के पास मुख्य मार्ग संगम तक.

**पूर्व**—भीटा गली एवं मुख्य मार्ग संगम से मुख्य मार्ग पर दक्षिण की ओर चलते हुए दमोह पटेरा पी.डब्ल्यू.डी. रोड क्रास करते हुए बांदकपुर मार्ग पर जलील के मकान के पास तक.

**दक्षिण**—बांदकपुर मार्ग एवं जलील के मकान के पास से पश्चिम की नजरी लाईन आशाराम यादव के खेत वाले मकान तक. न.पा. सीमा तक.

**पश्चिम**—आशाराम यादव के खेत वाले मकान न.पा. सीमा से नजरी लाईन उत्तर की ओर शंकर पटेल के पास वाली नजरी लाईन की सीमा तक.

### वार्ड क्रमांक 11—महात्मा गांधी वार्ड

**उत्तर**—बिलाई खेरूआ मार्ग एवं अहिरवाल गली संगम से पूर्व की ओर चलते हुए मैदान को क्रास करते हुए कनू चौरसिया का मकान बायें छोड़ते हुए को बैंक के बायें से मुख्य मार्ग तक.

**पूर्व**—बाजार एवं मुख्य मार्ग संगम से मुख्य मार्ग पर दक्षिण की ओर चलते हुए भीटा गली एवं मुख्य मार्ग संगम गोकल सेन के मकान के पास तक.

**दक्षिण**—भीटा गली एवं मुख्य मार्ग संगम गोकल सेन के मकान के पास से भीटा गली में पश्चिम की ओर चलते हुए थाना मार्ग संगम तक वहां से पश्चिम की ओर थाना मार्ग चलते हुए बिलाई खेरूआ मार्ग संगम तक.

**पश्चिम**—बिलाई खेरूआ मार्ग एवं थाना मार्ग संगम से उत्तर की ओर बिलाई मार्ग पर चलते हुए अहिरवाल गली एवं बिलाई मार्ग संगम तक.

### वार्ड क्रमांक 12—रघुराज वार्ड

**उत्तर**—बिलाई खेरूआ मार्ग एवं मुकरवा मंदिर मार्ग संगम पुरुषोत्तम ताप्रकार के मकान के पास से मुकरवा मंदिर मार्ग पर पूर्व की ओर चलते हुए मुकरवा मंदिर मार्ग मुख्य मार्ग संगम मोदी बाबा के मकान के पास तक.

**पूर्व**—मुख्य मार्ग एवं मुकरवा मार्ग संगम मोदी बाबा के घर के पास से मुख्य मार्ग पर दक्षिण की ओर चलते हुए बाजार एवं मुख्य मार्ग संगम तक (मणी की दुकान के सामने).

**दक्षिण**—बाजार में मुख्य मार्ग संगम से बाजार होते हुए पश्चिम तरफ चलते हुए को. ऑ. बैंक को दाहिने छोड़ते हुए कनू चौरसिया के मकान से अहिरवाल गली में पश्चिम की ओर चलते हुए अहिरवाल गली बिलाई खेरूआ मार्ग संगम प्रभु अहिरवाल के मकान के पास तक.

**पश्चिम**—बिलाई खेरूआ मार्ग तथा अहिरवाल गली संगम प्रभु अहिरवाल के मकान के पास से बिलाई खेरूआ मार्ग पर उत्तर की ओर चलते हुए ननी सैर क्रास करते हुए मुकरवा मंदिर मार्ग बिलाई खेरूआ मार्ग संगम परषोत्तम ताप्रकार के मकान के पास तक.

### वार्ड क्रमांक 13—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

**उत्तर**—न.पा. सीमा से नजरी लाईन पूर्व की ओर मुकरवा मंदिर गली से होते हुए बिलाई खेरूआ मार्ग संगम तक. सुरेश नेमा के मकान के पास तक.

**पूर्व**—बिलाई खेरूआ मार्ग मुकरवा मंदिर मार्ग संगम सुरेश नेमा के घर के पास से बिलाई खेरूआ मार्ग पर दक्षिण की ओर चलते हुए थाना मार्ग संगम तक.

**दक्षिण**—बिलाई खेरूआ मार्ग एवं थाना मार्ग संगम से नजरी लाईन पश्चिम की ओर शंकर पटेल का मकान लेते हुए न.पा. सीमा तक.

**पश्चिम**—न.पा. सीमा से उत्तर की ओर नजरी लाईन महादेव का मकान लेते हुए ननी सैर को क्रास करते हुए शिवराम सोनी का मकान लेते हुए मुकरवा मंदिर मार्ग तक.

### वार्ड क्रमांक 14—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

**उत्तर**—मरई माता मार्ग एवं बिलाई खेरूआ मार्ग संगम से बिलाई खेरूआ मार्ग पर पूर्व की ओर चलते हुए मुख्य मार्ग एवं बिलाई खेरूआ मार्ग संगम तक.

**पूर्व**—बिलाई खेरूआ मार्ग एवं मुख्य मार्ग संगम से दक्षिण की ओर मुख्य मार्ग पर चलते हुए मुकरवा मंदिर मार्ग संगम तक.

**दक्षिण**—मुख्य मार्ग एवं मुकरवा मंदिर मार्ग संगम से पश्चिम की ओर मुकरवा मंदिर मार्ग पर चलते हुए बिलाई खेरूआ मार्ग एवं मरई माता मार्ग संगम परषोत्तम ताप्रकार के मकान के पास.

**पश्चिम**—मुकरवा मंदिर मार्ग एवं बिलाई खेरूआ परषोत्तम ताप्रकार के मकान के पास से बिलाई मोड होते हुए उत्तर की ओर चलते हुए मरई माता एवं बिलाई पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग संगम तक.

### वार्ड क्रमांक 15—सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

**उत्तर**—न. पा. सीमा (हिण्डोरिया एवं खैरूआ ग्राम) से पूर्व की ओर चलते हुए नजरी लाई बिलाई खैरूआ मार्ग एवं वार्ड क्रं. 1/2 की सीमा तक (कन्धेदी पटेल के मकान के पास).

**पूर्व**—कन्धेदी पटेल के मकान के पास खैरूआ बिलाई मार्ग पर दक्षिण की ओर चलते हुए बिलाई मार्ग एवं खैरूआ बिलाई मार्ग संगम तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुए बड़ी सैर क्रास करते हुए मुकरवा मंदिर मार्ग एवं बिलाई खैरूआ मार्ग संगम परषोत्तम ताप्रकार के मकान के पास तक.

**दक्षिण**—मुकरवा मंदिर मार्ग एवं बिलाई खैरूआ मार्ग संगम से पश्चिम की ओर मुकरवा मंदिर मार्ग पर चलते हुए गोली पटेल के मकान न.पा. सीमा तक.

**पश्चिम**—न.पा. सीमा से गोली पटेल के मकान के पास उत्तर की ओर नजरी लाईन हिण्डोरिया खैरूआ ग्राम संगम तक.

**स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर**

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश**

शिवपुरी, दिनांक 23 जून 2014

क्र. 594.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह-3-2004, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, आर. के. जैन, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, नव गठित नगर परिषद् बैराड़, जिला शिवपुरी में वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता हूँ:—

**अनुसूची**

**वार्ड की सीमाओं में सम्मिलित क्षेत्र का विवरण**

### वार्ड क्रमांक 01—माँ बैराज वार्ड

**उत्तर**—बाला जी मंदिर गेट से अर्थाई बाली गली सम्मिलित करते हुए प्रभु पुनू रावत के मकान तक.

**पूर्व**—रघुवीर कुशवाह की दुकान से रामवती शिवचरण के मकान तक.

**दक्षिण**—बाबू/बालमुकुन्द के मकान से दिनेश ओझा के मकान तक.

**पश्चिम**—दिनेश ओझा के मकान से बालाजी मंदिर गेट तक.

### वार्ड क्रमांक 02—राम जानकी वार्ड

**उत्तर**—शिवराज जगनू के मकान से सुनार गली को सम्मिलित करते हुए प्रा.वि. तक.

**पूर्व**—प्रा.वि. से अग्रवाल धर्मशाला तक.

**दक्षिण**—महेश खटीक के मकान से लालाराम प्रजापति के मकान तक.

**पश्चिम**—लालाराम प्रजापति के मकान से ढीमर मोहल्ला को सम्मिलित करते हुए दाताराम के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 03—कृषि मण्डी वार्ड

**उत्तर**—मण्डी प्रांगण से पुराना थाना वाला रास्ता को सम्मिलित करते हुए ऊषा देवी के मकान तक.

**पूर्व**—मोहना पोहरी रोड से पंचायत भवन तक.

**दक्षिण**—पंचायत भवन गेट से सुरेश/ किशोरी के मकान तक.

**पश्चिम**—हरिओम/ दिनेश के मकान से मण्डी गेट तक.

### वार्ड क्रमांक 04—माँ भद्रेश वार्ड

**उत्तर**—बालूराम के मकान से राजेश/ रामप्रकाश के मकान तक.

**पूर्व**—राकेश के मकान से माता रोड को सम्मिलित करते हुए चैतू कुशवाह के मकान तक.

**दक्षिण**—माता मंदिर से होते हुए स्वरूपी/ कल्लू के मकान तक.

**पश्चिम**—पोहरी-मोहना रोड से बालू के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 05—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—बिहारी कुशवाह के मकान से हनुमान जी मंदिर तक.

**पूर्व**—टोरिया रोड से हरिजन मोहल्ला.

**दक्षिण**—चर्तुर सिंह के मकान से बिहारी के मकान तक.

**पश्चिम**—हरिजन मोहल्ला से माता के मंदिर तक.

### वार्ड क्रमांक 06—बीज भण्डार वार्ड

**उत्तर**—महेश गुलाब के मकान से मदन/रत्नलाल के मकान तक.

**पूर्व**—मदन/रत्नलाल के मकान से हायर सेकेण्ड्री स्कूल तक.

**दक्षिण**—हायर सेकेण्ड्री स्कूल से प्रेमलाल जी के मकान तक.

**पश्चिम**—प्रेमलाल जी के मकान से महेश/ गुलाब रत्न के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 07—मॉ शेरावाली माता वार्ड**

उत्तर—सिद्धो रावत के मकान से गुड़ी धोबन के मकान तक.

पूर्व—गुड़ी धोबन के मकान से पुलिस थाना.

दक्षिण—पुलिस थाना से कैलाश नारायण का मकान.

पश्चिम—कैलाश नारायण के मकान से सिद्धो रावत के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 08—टैगोर वार्ड**

उत्तर—नन्दकिशोर नामदेव के मकान से रामचरण का मकान.

पूर्व—विमल गांव के मकान से विद्या बाथम के मकान तक.

दक्षिण—विद्या बाथम के मकान से नन्दकिशोर नामदेव के मकान तक.

पश्चिम—बैराड गांव की रोड शुक्ला लॉज तक.

**वार्ड क्रमांक 09—मुखर्जी वार्ड**

उत्तर—राजो के मकान से मेवा सेठ की मील वाली गली होते हुए रमेशचंद बंसल के मकान तक.

पूर्व—रमेशचंद बंसल के मकान से तहसील कार्यालय.

दक्षिण—तहसील कार्यालय.

पश्चिम—तहसील कार्यालय से गीता बाथम के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 10—पटेल वार्ड**

उत्तर—हनुमान जी के मंदिर से पूरनलाल के मकान वाली गली को सम्मिलित करते हुए सुरेश का मकान.

पूर्व—सुरेश के मकान से कल्ला के मकान तक.

दक्षिण—कल्ला के मकान से गीता बघेल के मकान तक.

पश्चिम—गीता हरीसिंह बघेल के मकान से हनुमान मंदिर तक.

**वार्ड क्रमांक 11—विवेकानन्द वार्ड**

उत्तर—मोहन/ कमरलाल सेन का मकान.

पूर्व—मांगीलाल का मकान.

दक्षिण—मिश्रीलाल का मकान.

पश्चिम—लालाराम सेन का मकान.

**वार्ड क्रमांक 12—सुभाष वार्ड**

उत्तर—प्रेमी शाक्य के मकान से शाखा फील्ड.

पूर्व—शिवदयाल धाकड़ का मकान.

दक्षिण—लक्ष्मीनारायण ओझा के मकान से जीवनलाल ओढ के मकान तक.

पश्चिम—जीवनलाल ओढ के मकान से प्रेमीलाल शाक्य के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 13—भगतसिंह वार्ड**

उत्तर—राजाराम राठौर का मकान.

पूर्व—मोहन ओझा का मकान.

दक्षिण—अखैसिंह परिहार का मकान.

पश्चिम—बद्री ओझा का मकान.

**वार्ड क्रमांक 14—ठाकुरबाबा वार्ड**

उत्तर—मीना का मकान.

पूर्व—पोहरी-मोहना रोड.

दक्षिण—शांति के मकान से आनन्दी के मकान तक.

पश्चिम—रामनिवास धाकड़ के मकान से कल्ला बाथम के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 15—सिद्ध बाबा वार्ड**

उत्तर—अमरोदा शुक्ल संपूर्ण ग्राम

पूर्व—गोदोली संपूर्ण ग्राम

दक्षिण—कंचन/ नक्टू के मकान से बरेलाल हरप्रसाद के मकान तक.

पश्चिम—पोहरी मोहना रोड तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. जैन, कलेक्टर.

**शुद्धिपत्र**

शिवपुरी, दिनांक 24 जून 2014

क्र. डूडा-2014-606, 607.—नगर परिषद कोलारस, जिला शिवपुरी के वार्ड परिसीमन की अधिसूचना क्र. डूडा-2014-467, दिनांक 8 मई 2014 का प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र” भाग दो में दिनांक 30 मई 2014 के पृष्ठ क्रमांक 1679 में वार्ड क्रमांक-4 में संजय गांधी वार्ड प्रकाशित हो गया है, जिसे संशोधन कर वार्ड क्रमांक 4 गांधी वार्ड पढ़ा जाये।

नगर परिषद पिछोर, जिला शिवपुरी के वार्ड परिसीमन की अधिसूचना क्र. डूडा-2014-467, दिनांक 8 मई 2014 का प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र” भाग दो में दिनांक 30 मई 2014 के पृष्ठ क्रमांक 1675 में वार्ड क्रमांक-3 में बजरंग वार्ड में पूर्व की सीमा में रामनिवास गुप्ता के मकान से नासिर शाह के मकान तक प्रकाशित हो गया है जिसे संशोधन कर वार्ड क्रमांक 3 बजरंग वार्ड में पूर्व की सीमा को रामनिवास गुप्ता के मकान से हरप्रसाद के मकान तक पढ़ा जाये।

आर. के. जैन, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश

दमोह दिनांक 04 जून 2014

क्रमांक 239—ब.लि—1—2014—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के अधिसूचना क्रमांक 4—520—अठारह—3—2004 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं कलेक्टर जिला दमोह, नगर पालिका परिषद् तेंदुखेड़ा, जिला दमोह में वार्डों के परिसीमन हेतु नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता हूँः—

### अनुसूची

वार्ड नं.	वार्ड का नाम
1.	इंदिरा गांधी वार्ड
2.	महात्मा गांधी वार्ड
3.	चंद्रशेखर वार्ड
4.	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5.	महाराणा प्रताव वार्ड
6.	सुभाष चंद वार्ड
7.	शिवाजी वार्ड
8.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
9.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
10.	श्रीराम वार्ड
11.	पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
12.	राजीव गांधी वार्ड
13.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
14.	सरदार भगत सिंह वार्ड
15.	महावीर वार्ड

### वार्ड क्रमांक 1 — इंदिरा गांधी वार्ड

- उत्तर — दमोह जबलपुर (चुंगी नाका) पी. डब्ल्यू. डी. के पूर्व की ओर चलते हुए नारायण केवट के मकान के पास तक संगम रोड तक।
- पूर्व — नारायण केवट के मकान के पास संगम रोड से दक्षिण तरफ—केवट मुहल्ला की मध्य गली से चलते हुए रुपचंद मेडिकल स्टोर के पास तारादेही मार्ग, संगम रोड तक।
- दक्षिण — तारादेही मार्ग संगम दमोह पी. डब्ल्यू. डी. रोड पश्चिम की ओर चलते हुए मोड़ तक।
- पश्चिम — दमोह जबलपुर पी. डब्ल्यू. डी. रोड मोड़ से उत्तर की ओर चलते हुए चुंगी नाका तक।

### वार्ड क्रमांक 2 — महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर — शालिगराम के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए जैन मंदिर के सामने बाजार रोड के संगम तक।
- पूर्व — मुख्य बाजार रोड संगम से दक्षिण की ओर चलते हुए पी. डब्ल्यू. डी. रोड संगम तक।
- दक्षिण — दमोह जबलपुर पी. डब्ल्यू. डी. संगम से पश्चिम की ओर चलते हुए तारादेही मार्ग के संगम तक।
- पश्चिम — तारादेही मार्ग से संगम से उत्तर की ओर केवट मुहल्ला की मध्य गली से शालिगराम के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 3 – चन्द्रशेखर वार्ड

- उत्तर** – गनेश प्रसाद यादव के मकान से पूर्व की ओर नगर पालिका सीमा से चलते हुए अशोक यादव के मकान तक।
- पूर्व** – अशोक यादव के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए खरुबा कुआं की गली से होकर सब्जी बाजार की गली दक्षिण की ओर मुख्य बाजार के रोड संगम तक।
- दक्षिण** – मुख्य बाजार के रोड संगम से पश्चिम की ओर मुन्ना बमोरिया की दुकान से पुलिस लाईन होते हुए कोमल केवट के मकान तथा कोठी के मकान (कुआं के पास) तक।
- पश्चिम** – कोठी के मकान से पश्चिम की ओर चुंगी नाका पी. डब्ल्यू. डी. रोड से होते हुए उत्तर की ओर गनेश यादव के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 4 – डॉ. अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर** – नरबद यादव के मकान से उत्तर की ओर नगर पालिका सीमा होते हुए खेरमाई तक।
- पूर्व** – खेरमाई की गली से दक्षिण की ओर हरिराम के मकान से मुड़कर पूर्व की ओर शिवप्रसाद खटीक के मकान के पास त्रिगड़ा तक।
- दक्षिण** – शिवप्रसाद खटीक के मकान के पास त्रिगड़ा से पश्चिम की ओर गली से होते हुए सब्जी मंडी बाजार से मुड़कर दुर्गा प्रसाद साहू के मकान तक।
- पश्चिम** – दुर्गा प्रसाद साहू के मकान से खरुवा कुआं की गली से होते हुए उत्तर की ओर चलते हुए नर्मदा प्रसाद के मकान (त्रिगड़ा) तक।

### वार्ड क्रमांक 5 – सुभाष वार्ड

- उत्तर** – बाबाजी की कुटी से पूर्व की ओर नगर पालिका सीमा होते हुये जामुनखेड़ा मार्ग पार कर नाला तक।
- पूर्व** – जामुनखेड़ा मार्ग पार के नाला से दक्षिण की ओर नगरपालिका सीमा होते हुए केशरी साहू के मकान तक।
- दक्षिण** – केशरी साहू के मकान से पश्चिम की ओर मंडियाघाट की गली से मुड़कर साहू मोहल्ला की गली से चलते हुए नीमावाई के मकान के पास (त्रिगड़ा) तक।
- पश्चिम** – नीमावाई के मकान (त्रिगड़ा) से उत्तर की ओर चलते हुए खेरमाई की गली तथा बाबाजी की कुटी तक।

### वार्ड क्रमांक 6 – महाराणा प्रताप वार्ड

- उत्तर** – गुलशेर के मकान से पूर्व की ओर मंडियाघाट की गली से चलते हुए बजरंगवली की मंडिया की ओर नगर पालिका सीमा तक।
- पूर्व** – बजरंग वली मंडिया से दक्षिण की ओर चलते हुए नगर पालिका सीमा के सलीमा खाँ के मकान तक।
- दक्षिण** – सलीमा खाँ के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए हरलाल बी. एम. दुकान 01 के मकान तक।
- पश्चिम** – हरलाल (बी. एम. दुकान 1) के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए जामुनखेड़ा रोड तथा मदनलाल नामदेव के मकान से गुलशेर के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 7 – शिवाजी वार्ड

- उत्तर** — श्री बजरंग चबूतरा (सब्जी मंडी) से पूर्व की ओर चलते हुए श्री शिव मंदिर के त्रिगड़ा तक।
- पूर्व** — श्री शिव मंदिर त्रिगड़ा से दक्षिण की ओर जामुनखेड़ा मार्ग से होते हुए मूलचंद पाल के मकान से मुड़कर पूर्व की ओर लखन पटेरिया के मकान से दक्षिण की ओर प्यारेलाल पाल के मकान के पास पी. डब्ल्यू. डी. रोड तक।
- दक्षिण** — प्यारेलाल के मकान से दमोह जबलपुर मार्ग से पश्चिम की ओर चलते हुए धन्नालाल सिंघई के मकान के पास संगम रोड तक।
- पश्चिम** — धन्नालाल सिंघई के मकान उत्तर की ओर बाजार के मुख्यमार्ग से चलते हुए श्री बजरंग चबूतरा (सब्जी मंडी) तक।

### वार्ड क्रमांक 8 – लालबहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर** — नगर पालिका की दुकान (प्रहलाद सोनी) से दमोह जबलपुर पी. डब्ल्यू. डी. मार्ग से पूर्व की ओर होते हुए महेन्द्र यादव के मकान नगर पालिका सीमा होते हुए नदी तक।
- पूर्व** — नगरपालिका सीमा नदी से दक्षिण की ओर होते हुए पुल तक।
- दक्षिण** — जबलपुर रोड पुल से विद्या नगर कालोनी के पीछे नगर पालिका सीमा होते हुए पश्चिम की ओर मीना शर्मा के मकान तक।
- पश्चिम** — मीना शर्मा के मकान से उत्तर की ओर रजत जयंती मार्ग होते हुए नगरपालिका की दुकान (प्रहलाद सोनी) पी. डब्ल्यू. डी. संगम रोड तक।

### वार्ड क्रमांक 9 – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

- उत्तर** — लक्ष्मी प्रसाद के मकान तक लटाई साहू के मकान से होते हुये पूर्व की ओर नगरपालिका सीमा (चीरघर) तक।
- पूर्व** — चीलघर से दक्षिण की ओर नगर पालिका सीमा होते हुए शासकीय गोदाम तक।
- दक्षिण** — शासकीय गोदाम से पश्चिम की ओर मेडिकल तक।
- पश्चिम** — मेडिकल से चमूलाल तथा हल्कू के मकान से उत्तर की ओर होते हुये लक्ष्मी प्रसाद के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 10 – श्रीराम वार्ड

- उत्तर** — दमोह जबलपुर मार्ग पर शासकीय अस्पताल से पूर्व की ओर चलते हुए रजत जयंती मार्ग संगम तक।
- पूर्व** — रजत जयंती मार्ग से दक्षिण की ओर चलते हुए प्रेमचंद जैन तथा रामदयाल केवट के मकान तक।
- दक्षिण** — रामदयाल के मकान से पश्चिम की ओर बैनी प्रसाद के मकान तक।
- पश्चिम** — बैनी प्रसाद के मकान से उत्तर की ओर लटकन केवट के मकान से होते हुए शासकीय अस्पताल तक।

### वार्ड क्रमांक 11 – पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड

- उत्तर** — तारादेही (वन विभाग) संगम मार्ग से दमोह जबलपुर होते हुए पूर्व की ओर फिल्टर वाली गली तक।
- पूर्व** — पी. डब्ल्यू. डी. रोड से फिल्टर वाली गली से दक्षिण की ओर मदन नामदेव के मकान से चलते हुए तिलक की गोदाम तक।

- दक्षिण** — तिलक की गोदाम से पश्चिम की ओर पी. डब्ल्यू. डी. रोड पर कालूराम साहू के मकान तक।
- पश्चिम** — कालूराम के मकान से उत्तर की ओर पी. डब्ल्यू. डी. रोड से चलते हुए दमोह जबलपुर संगम मार्ग तक।

### वार्ड क्रमांक 12 – राजीव गांधी वार्ड

- उत्तर** — इंटेक बेल से पूर्व की ओर नगरपालिका सीमा से चलते हुए पी. डब्ल्यू. डी. रोड के पुल तक।
- पूर्व** — दमोह जबलपुर पी. डब्ल्यू. डी. रोड के पुल से दक्षिण की ओर दमोह जबलपुर रोड पर चलते हुए तारादेही (त्रिगढ़ा) संगम मार्ग तक से तारादेही पी. डब्ल्यू. डी. रोड पर चलते हुए कालूराम साहू के मकान तक।
- दक्षिण** — कालूराम साहू के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए नगरपालिका सीमा (नदी) तक।
- पश्चिम** — नगरपालिका सीमा से उत्तर की ओर नगरपालिका सीमा पर चलते हुए इंटक बैल तक।

### वार्ड क्रमांक 13 – स्वामी विवेकानन्द वार्ड

- उत्तर** — तिलक की गोदाम से पूर्व की ओर प्राथमिक शाला होते हुए हल्काई के मकान तक।
- पूर्व** — हल्काई के मकान से दक्षिण की ओर औंकार साहू के मकान वा रेंजा के पास तक।
- दक्षिण** — औंकार साहू के मकान से बस्ती की मध्य गली से पश्चिम की ओर गेंदलाल के मकान तक।
- पश्चिम** — गेंदलाल के मकान से उत्तर की ओर तिलक की गोदाम तक।

### वार्ड क्रमांक 14 – सरदार भगत सिंह वार्ड

- उत्तर** — गोकलप्रसाद के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए इन्द्रनाथ के मकान तक।
- पूर्व** — इन्द्रनाथ के मकान से दक्षिण की ओर होते हुए नगरपालिका सीमा तक।
- दक्षिण** — नगरपालिका सीमा से पश्चिम की ओर चलते हुए श्याम सुन्दर के मकान तक।
- पश्चिम** — श्यामलाल के मकान से कमोद के मकान होते हुए गोकल प्रसाद के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 15 – महावीर वार्ड

- उत्तर** — जगदीश साहू के मकान से तारादेही पी. डब्ल्यू. डी. रोड से दक्षिण की ओर चलते हुए बस्ती की मध्य गली से पूर्व की ओर जमनाप्रसाद के मकान तक।
- पूर्व** — जमना प्रसाद के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए मुन्नीलाल के मकान से चलते हुए नगरपालिका सीमा तक।
- दक्षिण** — नगर पालिका सीमा से पश्चिम की ओर नगर पालिका सीमा पर चलते हुए नगर पालिका सीमा तक।
- पश्चिम** — नगर पालिका सीमा से उत्तर की ओर चलते हुए पी. डब्ल्यू. डी. रोड पर जगदीश साहू के मकान तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर,

Damoh, Dated 4<sup>th</sup> June 2014

No.- 239-S.C.-1-2014- IN exercise of the power conferred by Sub Section (1) of Section of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961) the state Government determine the extent of wards of Nagar Parishad Tendukheda Distt. Damoh as par Schedule given below :-

#### SCHEDULE

<b>Ward No.</b>	<b>Name of the Ward</b>
1.	Indira Gandhi Ward
2.	Mahatma Gandhi Ward
3.	Chandra Shekhar Ward
4.	Dr. Ambedkar Ward
5.	Maharana Pratap Ward
6.	Shubhash Chandra Ward
7.	Shivaji Ward
8.	Lal Bahadur Shastri Ward
9.	Dr. Rajendra Prasad Ward
10.	Shriram Ward
11.	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
12.	Rajeev Gandhi Ward
13.	Swami Vivekanand Ward
14.	Sardar Bhagar Singh Ward
15.	Mahaveer Ward

#### **Ward No. 1 – Indira Gandhi Ward**

- North** – From the Damoh Jabalpur Octroi Post, the P.W.D. Road leading towards the East near the house of Narayan kewat upto the approach road.
- East** – From the approach road near the house of Narayan kewat going towards the south by the lane in between the kewat Mohalla upto the Taradehi Cross road near Ashish Medical Stores.
- South** – From the Taradehi P.W.D. Road Cross going towards the west upto the bend.
- West** – From Damoh - Jabalpur P.W.D. road bend going towards the north upto the octroi post.

#### **Ward No. 2 – Mahatma Gandhi Ward**

- North** – From Shaligram's house going towards the cast in front of Jain Temple upto the junction of the main Bazar Road.
- East** – From the junction of the main Bazar Road going towards the south upto the P.W.D. junction.
- South** – From Damoh - Jabalpur P.W.D. Road junction going towards, the west upto the Taradehi Road junction.
- West** – From the Taradehi Road junction towards the north through the lane in between, the kewat Mohalla upto Shaligram's house.

### **Ward No. 3 – Chandra Shekhar Ward**

- North** – From Ganesh Prasad's house going towards the east by the cast by the Municipality boundary upto the house of Ashok Yadav.
- East** – From the house of Ashok Yadav going towards the south through Kharua well lane towards the vegetable market south lane upto the main market junction.
- South** – From the main market junction via Munna Bamoria's shop and police line going towards the west upto the house of komal kewat and kothi-house (near the well).
- West** – From Kothi house going towards the west through Octroi - post P.W.D. Road and turning towards the north upto the house of Ganesh Prasad Yadav.

### **Ward No. 4 – Ambedkar Ward**

- North** – From the house of Narbada Yadav going towards the north upto Khermai.
- East** – From the lane of Khermai going toward the south and turning near Hari Ram's house towards the east upto the junction near the house of Shiv Prasad Khatik.
- South** – From the junction near the house of Shiv Prasad Khatik though the lane going towards the west and turning towards the vegetable market upto the house of Durga Prasad Sahu.
- West** – From the house of Durga Prasad Sahu through the Kharua - well lane going towards the north upto the house of Narbad Yadav (lane junction).

### **Ward No. 5 – Subhash Ward**

- North** – From the cottage of Babaji Going along the Municipality boundary towards the east on crossing the Jamunkheda Road upto the rivulet.
- East** – From the rivuler on crossing the Jamunkheda Road going towards the south along the Municipality boundary upto the house of Keshari Sahu.
- South** – From the house of Keshari Sahu going towards the west and turning on the lane of Mediaghata and again going along the lane of Sahu Mohalla upto the house of Neema Bai (near three way junction).
- West** – From the house of Neema Bai (near three way junction) going lane and the cottage of Babaji.

### **Ward No. 6 – Maharana Pratap Ward**

- North** – From the house of Gulsher going towards the east along the Mediaghata lane towards Bajrangbali small temple upto the Municipality boundary.
- East** – From Bajaranbali small temple going towards the south along the Municipality boundary upto the house of saleem khan.
- South** – From the house of Saleem Khan going towards the west upto the house of Harlal (B.M. shop No.1)
- West** – From the house of Harlal (B.M. shop No.1) going towards the north upto the Jamanukheda Road and from the house of Madan Namdeo upto the house of Gulsher Khan.

### **Ward No. 7 – Shivaji Ward**

- North** – From the Bajrangbali Platform (vegetable market) going towards the east upto the way junction of the shiva temple.
- East** – From the Shiva Temple junction going towards the south along the Jamunkheda road and turning from the house of Mool Chand Pal towards the east from Lakhan Pateriya house upto the house of Pyarelal, Pal P.W.D. Road.

**South** – From the house of Pyarelal going along the Damoh – Jabalpur P.W.D. road towards the west upto the house of Dhanna Lal Singhai near the road junction.

**West** – From house of Dhanna Lal Singhai going towards the north along the main road of the Bazar, upto the Bajrangbali platform (vegetable market).

#### **Ward No. 8 – Lal Bahadur Shastri Ward**

**North** – From the Municipality shop occupied by Prahlad Soni (metal utensils) going towards (Damoh - Jabalpur) upto the house Mahendra Yadav and along the Municipality boundary to the river.

**East** – From the Municipality boundary and river towards the south upto the bridge.

**South** – From the bridge of the Jabalpur Road behind Vidya nagar Colony along the Muicipality boundary going towards the west upto the house of Meena Sharma.

**West** – From the house of Meena Sharma going towards the north along the Silver Jubilee Road upto the Municipality shop, occupied the Prahalad Soni (metal utensils shop) and P.W.D. junction Road.

#### **Ward No. 9 – Dr. Rajendra Prasad Ward**

**North** – From Laxmi Prasad's house going towards the east via Latori Sahu's upto the boundary of the Municipality (Post Mortem House).

**East** – From the Post Mortem house going towards the south along the Municipality boundary upto the Govt. ware house.

**South** – From the Govt. ware house going towards the west upto the medical hostel.

**West** – From the Medical hostel via Chan Lal's house and Haiku's house going towards the north upto Laxmi Prasad's house.

#### **Ward No. 10 – Shriram Ward**

**North** – On the Damoh - Jablapur Road Govt. Hospitals going towards the east upto the Rajat Jayant marg Junction.

**East** – From the Jayanti Marg junction going toward the south upto the house of Prem Chand Jain and Ram Dayal Kewat.

**South** – From Ram Dayal's houses going towards the west upto the house of Beni Prasad.

**West** – From the house of Beni Prasad going towards the north via the house of Latkhan Kewat upto the Govt. Hospital.

#### **Ward No. 11 – Pt. Jawahar Lal Ward**

**North** – From Teradehi (Forest - Deptt.) Raod Junction going toward the east doing along the Damoh Jabalpur Road upto the lane going towards the filter of Water works.

**East** – From the P.W.D. Road going along the water filter lane towards the south via the house of Madan Namdeo upto the godown of Tilak.

**South** – From the godown of Tilak going towards the west upto the house Kaluram sahu on the P. W.d. road.

**West** – From the house of Kaluram Sahu going towards the north along the P.W.D. road upto the junction of Damoh - Jabalpur Road.

**Ward No. 12 – Rajeev Gandhi Ward**

- North** – From Intake well going towards the east along the Municipality boundary upto the bridge of the P.W.D. road.
- East** – From the bridge of Damoh Jabalpur P.W.D. road going towards the South along the Damoh - Jabalpur road junction and going along the Taradehi P.W.D. road upto the house of Kaluram Sahu.
- South** – From the house of Kaluram Sahu going towards the west upto the Municipality boundary (upto the river).
- West** – From the Municipality boundary going towards the north up to the Intake well.

**Ward No. 13 – Swami Vivekanand Ward**

- North** – From the godown of Tilak going toward the east via Primary School upto the house of Halkain.
- East** – From the house of Halkain going towards the south upto the house of Onkar Sahu (near bunyan tree).
- South** – From the house of Onkar Sahu going towards the west along the middle lane upto the house of Gandelal.
- West** – From the house of Gendalal going towards the north upto the godwon of Tilak.

**Ward No. 14 – Sardar Bhagat Singh Ward**

- North** – From the house of Gokul Prasad going towards the east upto the house of Indra Nath.
- East** – From the house of Indra Nath going towards the south upto the Municipality boundary.
- South** – From Municipality boundary going towards the west upto the house of Shamlal.
- West** – From the house of Shamlal via the house of Kamod upto the house of Gokul Prasad.

**Ward No. 15 – Mahaveer Ward**

- North** – From the house of Jagdish Sahu going towards the south along the Taradevi P.W.D. road via the Middle lane and going towards the east upto the house of Jamuna Prasad.
- East** – From the house of Jamuna Prasad going toward the south via the house of Munnilal upto the Municipality boundary.
- South** – From the Municipality boundary going towards the west along the Municipality boundary upto the Municipality boundary.
- West** – From the Municipality boundary going towards the north upto the house of Jagdish Sahu on the P.W.D.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SWATANTRA KUMAR SINGH, Collector.

## काथालय, संभागीय आयुक्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 2 जुलाई 2014

### इन्दौर नगरपालिक निगम वार्ड परिसीमन-2014

**क्रमांक 820** वार्ड परिसीमन नगर पालिक निगम इन्दौर 2014 – मध्यप्रदेश शासन एवं प्रशासन एवं विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3 – 518 अठारह – 3 2004 दिनांक 24 फरवरी 2004 ह्वारा प्रदत्त शब्दियों को प्रयोग में लाते हुए भी संजय दुबे आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर एतद द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन 1956) की धारा 10 (1) के अधीन नगर पालिक निगम इन्दौर के वार्ड का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता है—

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित क्षेत्र	चतुर्सीमा			पश्चिम
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	
1	2	3	4	4	4	पश्चिम
1	सिरपुर	<p>विजयश्री नगर, मारुती पेलेस, गणेश नगर श्री खेड़गांवि हुमान मन्दिर के आगे, गोर्खनन्दन पेलेस मरिजद के पास, गांधी पेलेस श्री खेड़ा पति हुमान मंदिर के पास, समाट नगर, सिरपुर धार रोड, जगनाथपुरी सिरपुर कांकड के पास खेड़गांवि हुमान, बजरंग नगर सिरपुर कांकड, राणा कालोनी ए, अम्मार नगर (सम्पूर्ण), राणा कालोनी, डायमांड पेलेस, फेन्स कालोनी, सहयोग नगर, सागर पेलेस कालोनी, आशियाना पेलेस नई कालोनी धार रोड, केशव नगर, युवालय धार, संयोगनगर, गीता नगर में अग्निहोत्री पटोल पम्प के पास धार रोड, कृष्णपुरी हरिहर नगर, विशाल कालोनी सिरपुर तालाब के सामने धार रोड, कृष्णपुरी हरिहर नगर, विशाल होटल के पीछे गीता नगर एकस्टेशन धार रोड, पटोल पम्प के सामने, हकीम बाग के समाने पटोल पंप धार रोड एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।</p>	<p>एप्योर्ट बाउण्ड्रीवाल, नगीन नगर, वर्धमान व्यास नगर वी एफ एप्लेस, धार रोड, चंदन नगर चौराहा, रिंग रोड, स्कीम नं. 71 तक</p> <p>स्कीम नं. 71 सेक्टर डी, ग्वाला कालोनी सिरपुर तालाब पाल बाउण्ड्रीवाल तक</p>	धार रोड से बैंक गांव, कोरेलिया बर्ड गांव, एचपेर्ट बाउण्ड्रीवाल तक		
2	चंदन नगर					
3	कालानी नगर					

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित 'च		चतुर्सीमा		परिचय
		1	2	3	4	
		उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	
4	सुखदेव नगर	व्यंकटेश नार मेन, पटेल नार, साधना नार, साधना नार एक्स., मनपसद कालोनी, युक्तकृष्ण कालोनी, साहू नार, पंचदटी नार, द्वारकाबीश नार, सुखदेव विहार, सुखदेव नगर, शिक्षक नार, अंजनी नार, श्रीकृष्ण नार एक्स. रोड पुलिस क्वाटर, कान्यकुब्ज नगर, दिवा धाम, स्तनबाण, अमिकुपी, आमकुंज कालोनी, कृष्णबाण एक्स.रोड, अखण्ड नगर, आरधना नार, हरिजन कालोनी, गंगा नार, परिहार कालोनी, हुरांज एवं चतुर्सीमा में समाहित समरत आवादी क्षेत्र।	अमिकुपी, सुविधी युक्तकृष्ण कालोनी, नार से पल्टन नगर एवं पुलिस क्वाटर, विजासन कालोनी, तिरुपति नगर, धर्मराज कालोनी, कालोनी नगर और से थे एस एफ परिया तक	दुसरी पल्टन पुलिस ये रोड, विजासन कालोनी, आई पी रोड, पुलिस लाईन तक	एक्स.रोड कालोनी	
5	राजनगर	जय भवानी नगर, राजनगर, रामनगर, वर्धमान नार, रामनन्द नार, चंदन नगर सेक्टर - ई, रण कालोनी, प्रकृत टारीके के पास, दामोदर नगर, व्यास रामनन्द नगर, गण कालोनी, इकमचद कालोनी केशव धर्मशाला के पास एवं चतुर्सीमा में समाहित समरत आवादी क्षेत्र।	कालोनी नार, भोलेनाथ पट्टी नाला हरिमन नगर, पंचमूर्ति नगर से नाला धार रोड तक	इन्द्रनगर झोपड पट्टी नाला हरिमन नगर, पंचमूर्ति नगर से नाला धार रोड तक	धार रोड	आमवाली गती, (चंदन नार) कालोनी नगर
6	मल्हरांगज	रामचन्द्र नगर सम्पूर्ण, तिरुपति नगर, हुकमचन्द्र कालोनी विचायल नार, रामनगर, गणेशगंज, सीताराम पार्क, समूर्ण वेयर हाउस, प्रजापत पुरा कुहार मोहल्ला, तेली बाखल, कडवीन, (बग्निचे वाला) एम.जी.रोड मकान नं. 3391 तक, मल्हरांगज, धर्मराज कालोनी, तिरुपति नगर, झोपड पट्टी, सांखत कालोनी, विजासन कालोनी, भोलेनाथ कालोनी, इन्द्रनगर झोपड पट्टी, पंचकुड़ीया शशान घाट के पास, रामचन्द्र नगर एक्स., नयापुरा के पास, शुपला नार, रामायण नगर, नयापुरा इट्टमट्टा, लोहर पट्टी मनरोड मकान नं. 1 से 60 एवं चतुर्सीमा में समाहित समरत आवादी क्षेत्र।	गी आई पी रोड, पिलिया खाल, बड़ी गणपति महिर से जिसी बस स्टेंड एम.जी.रोड, मल्हरांगज पुलिस थाने तक	यशवंत गज साउथ, लोहर पट्टी	नार्थराज मोहल्ला, महेश नार, नार, गिरकर नगर से महादेव नगर तक	
7	जनता कालोनी	पिलिया खाल, गौरव नार, छत्रपति नगर, महावीर नगर, अग्रसेन नगर, जनता कालोनी, दुसरी पल्टन, वायरलेस पुलिस क्वाटर, जिसी मेन रोड म.त. 64 से 24 / 1 तक, अर्जुन पल्टन पुलिस लाईन, अर्जुन पल्टन, शंकरगंज मेन रोड, किला मेदान रोड आफिसर बगला से गोकुल गंज, कुडिल पुरा, शंकरगंज, दुधाधारी वरीया, (राधा गज जुना रिसाला) नीलकंठ कालोनी, राधा नगर एवं कडावीन (लाल नदिरे) चतुर्सीमा के अंतर्गत समरत क्षेत्र व आवास।	सांविधा नार, अनाज कालोनी, दुसरी पल्टन, वायरलेस पुलिस क्वाटर, जिसी मेन रोड म.त. 64 से 24 / 1 तक, अर्जुन पल्टन पुलिस लाईन, अर्जुन पल्टन, शंकरगंज मेन रोड, किला मेदान रोड आफिसर बगला से गोकुल गंज, कुडिल पुरा, शंकरगंज, दुधाधारी वरीया, (राधा गज जुना रिसाला) नीलकंठ कालोनी, राधा नगर एवं कडावीन (लाल नदिरे) चतुर्सीमा के अंतर्गत समरत क्षेत्र व आवास।	भिश्मी मोहल्ला, शास्त्री कालोनी, सिक्कदाबाद कालोनी, मल्हर पल्टन, से एम. विचायल नगर तक जी.रोड तक	कडावीन गती नं. 1, सीताराम पार्क से पुलिस व्याटर साहू, मल्हर पल्टन, से एम. विचायल नगर तक	पुलिस पेट्रोल पम से पुलिस व्याटर साहू, नगर पल्टर नगर तक

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित त्र	चतुर्सीमा			
			1	2	3	4
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
8	जूना रिसाला	मल्हारगंज भेन रोड, (मध्यन होटल से यामाशह मादिर तक) ताढ़ोली बाखल, गोपाल विलास मल्हारगंज, टोरी कालनर, मल्हार पल्टन, शाति नगर, छोथी पल्टन, अर्जनून पल्टन, अहिल्या पल्टन, बड़वाली चौकी, जूना टी.एच. कलाथ मार्केट पिता, खड़गी बाजार मल्हारगंज से कडाबीन तक	शकरगंज, अर्जनून पल्टन, अहिल्या पल्टन, बड़वाली चौकी, जूना टी.एच. कलाथ मार्केट पिता, खड़गी बाजार मल्हारगंज से कडाबीन तक	गोरा कुण्ड चौराहा, एम. कडाबीन	गोरा कुण्ड चौराहा, एम. कडाबीन	
9	दुन्दापान	शेषदी कालोनी, साउथ गाडवाल्ही, सम्पूर्ण ब्रह्मवा कालोनी, कुम्हरखाड़ी सम्पूर्ण, दुग्धनगर मरीमाता चौराहे के पास, खुयंवाही कालोनी, नार्थ गाडवाल्ही, राहीनगर, खासगी का बागीचा, दुच्चावन कालोनी, महेश्वर पुलेस लाईन, पेनजान कालोनी, लट्टू बाग, मेहता नगर, कमला नेहरुनगर, शहीद हेमू कालोनी, गोरती नगर, लक्ष्मणपुर, गुरु गोविंदसिंह नगर, एंव चतुरसीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	मां अहिल्या नगर, गोविंद कालोनी, खासगी का बागीचा, दुच्चावन कालोनी, फ्रीजंज से मरीमाता चौराहा सदर बाजार नाला	जयहिंद नगर, बागांगा, मुक्तीधाम, फ्रीजंज से मरीमाता चौराहा सदर बाजार नाला	दुच्चावनी का बागीचा, किला मेदान से रामबती नगर तक	दुच्चावनी नगर, बी. इस.एन.एल. आफिस/लक्ष्मीपुरी, से सगम नगर तक
10	बागनगंगा	सत्यमाईघान, बालिमकी नगर, सम्पूर्ण महेश यादव नगर, सम्पूर्ण बाणगांगा, सुमाष नगर, फ्रीजंज छोटी कुम्हरखाड़ी, पेटल का भट्टा, जयहिंद नगर एंव चतुरसीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	महारणा प्रताप नगर, लेप्रोसी हास्पिटल, लक्ष्मीबाई नगर, रेल्वे लाईन	नाला, पोलोगाड़, इण्डर्सीयल एरिया	मरीमाता स्कैयर नाला, इण्डर्सीयल एरिया	दुच्चावन कालोनी, गोविंद कालोनी से शीतल नगर, दुर्गा नगर, महारणा प्रताप नगर,
11	भागीरथपुरा	रफेली भागीरथपुरा, कम्पनिटी हॉल के पीछे भागीरथपुरा, मेन भागीरथपुरा, भागीरथपुरा फर्शी वाली गली, रेडवाल कालोनी एंव यादव कालोनी, बिगिया मोहल्ला, नई बस्ती भागीरथपुरा, चिराड मोहल्ला, बावडी की बाल, मा.व., लक्ष्मीबाई नगर, मोहल्ला नगर, लक्ष्मीबाई नगर रेल्वे स्टेशन एंव चतुरसीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	नाला इण्डर्सीयल एरिया	नाला भागीरथपुरा	नाला शुक्रला नगर	लक्ष्मीबाई नगर, रेल्वे लाईन
12	गोविंद कालोनी	गणेशबाग सम्पूर्ण, गोविंद नगर, सम्पूर्ण न्यू गोविंद नगर, महाराणा प्रताप नगर, न्यू शीतल नगर, सम्पूर्ण यादवनन्द नगर, राधाकृष्ण नगर, कमलनगर, दुर्गानगर, विश्वाल गोविंद कालोनी नगर, दुर्गानगर नई बस्ती, गंगा बाग, श्रद्धा धाम एंव चतुरसीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	दशथ बाग, प्रिस नगर, महेश यादव नगर, वालीकी नगर, मेंटल हास्पिटल तक	दशथ बाग, प्रिस नगर, महेश यादव नगर, वालीकी नगर, मेंटल हास्पिटल तक	दश्वान कालोनी, पन्जांन कालोनी, लट्टू स्कैम नं. 51 एवं स्कैम नं. 155 वाग	मां अहिल्या नगर, पन्जांन कालोनी, लट्टू स्कैम नं. 51 एवं स्कैम नं. 155 मातेश्वरी नगर

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित इ	चतुर्सीमा	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4				
13	संगम नगर	अवन्तिका नगर, स्कॉम न.51, संगम नगर, मौं अम्बिका नगर, मौं अहिल्या नगर, लक्ष्मी पुरी, रामबली नगर, अर्द्धनाथ नगर, हम्माल कालोनी, भन रेड बांगड़वा रोड, लक्ष्मीनाराज्यपाल पट्टी अनाज मंडी कीचड़ पट्टी, वैष्णव विहार, कालेरी नगर, शुभम पेलेस, शुभम नगर एंव चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	राखी नगर, स्कॉम नं. 155, दुर्गा नगर	लटुर बाग, लक्ष्मणपुरा, बी.एस.एफ क्वार्टर, सावरिया नगर याटर, पुलिस लाइन से रुकमणी नगर तक किला भेदन तक	फायर बिग्रेड पुलिस लक्ष्मणपुरा, बी.एस.एफ क्वार्टर, सावरिया नगर गरीब नवाज कालोनी,	सुखिया नगर, महावीर नगर, शुभम पेलेस, गरीब नवाज कालोनी,	
14	अशोक नगर	अशोक नगर, अम्बिका पुरी एंव एकस्टेशन, सुविधी नगर, रुक्खमणी नगर, कालोनी नगर, कृषि नगर (श्री लक्ष्मी नगर) सांकेत धाम, सुखदेव नगर एवं, लोकनाथक नगर, सावरिया नगर, पहरन नगर, ओम विहार, पद्मशिल नगर झोपड़ पट्टी एयरपोर्ट के समने, व्यास नगर एंव चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	विजासन माता मंदिर, शवित नगर, बाषु मुराई मोहल्ला, दैज्ञ वासने, व्यास नगर एंव चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	सुखि नगर, हमाल कालोनी, कावेरी नगर, अनाज मण्डी कालोनी मनोजशी नगर से महावीर नगर तक	पुलिस क्वार्टर, साहु नगर, अखण्ड नगर, वैकटेश नगर से बी एस एफ एरिया, मारुती पेलेस, गांधी पेलेस लक्ष्मी नगर	एयरपोर्ट	
15	विजासन,	बडा बांगड़वा गांव, गांधी नगर, बोहरा कालोनी, टिगरिया बादशाह गांव, वैष्णव कालोनी, चौरसिया नगर, शवित नगर, पेटल नगर विजासन माता मंदिर, आशा पेलेस, लक्ष्मी नगर, पमहस नगर, मनू श्री नगर, विद्या पेलेस, बाषु मुराई मोहल्ला, एंव चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	पाला छेड़ी गांव, से भौमरासला गांव की तीमा नवपत गांव, बजरंग नगर, गंगा नगर, नरिमन रिटी, रुप नगर	इण्डस्ट्रीयल एरिया, शेष नगर, लक्ष्मी नगर, पवशिल नगर, एयरपोर्ट, नेन्नद गांव नगर	बुडानिया गांव की सीमा, जम्बूली गांव की सीमा		
16	नंदबांग	नन्द बाग, राखी नगर, जयराम नगर, सांकेतरी नगर, नन्दन नगर, एक्सा नगर सुरेन्द्र नगर, यादव पेलेस, श्रेयश नगर, रुप नगर, लेक पेलेस, कैदार नगर, वरद्वना नगर, शांति नगर, श्रीराम नगर, दुर्गा नगर, वैकटेश विहार, छोटा बांगड़वा ग्राम, स्कॉम नं. 155, समुद्रित नगर, महावीर नगर, विकास नगर, गंगा धाम, विशाल पेलेस एंव चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	टिगरिया बादशाह गांव, की सीमा	इशान पेलेस, जयराज रुम नं. 51 अंबिका नगर, से श्रीनाथ स्ट्रीट राधा कृष्ण कालोनी, आरथना नगर, अशोक नगर	इशान पेलेस कालोनी, नगर, दशरथ बाग, राधा कृष्ण कालोनी, बडा बांगड़वा गांव		
17	कुशवाह नगर	समर्प कुशवाह नगर, कुशवाह नगर मेनरोड से जादीश नगर तक, न्यू प्रिसनगर, प्रिसनगर, सुन्दर नगर, ऋषि नगर, रोशनबाग, पृष्ठनार, अंजनीनगर, जगदीश नगर, जगन्नाथ नगर, रामगंग, लू रामगंग, राजाधानी, कमता केशर नगर, दशरथ बाग एंव चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	दुर्गा नगर, से मेटल हास्पिटल,	महाराणा प्रताप नगर, राधाकृष्ण कालोनी स्टफ्स नं. 155	मतेश्वरी नगर, नंदबाग, गंगा नगर होते हुए टिगरिया बादशाह गांव की सीमा		

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित ३	चतुर्भीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4			
18	सत्र कबीर	शिव नार, गोविन्द नगर खारचा, बजपगपुरा, सुगंधा नगर, अवंतिका नगर, विपक्ट नगर, बदीधाम, भवानी नगर व कांकड़, शाति नगर, पागलखाना, नई बरसी, मानसिक चिकित्सालय के आसपास का क्षेत्र, गंगावई की बस्ती मारुती नगर, भोलेनाथ कॉलोनी, इशायास कॉलोनी, बालाजी विहार, बरदासी ग्राम, भोरसतला ग्राम, सौंवर रोड औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर ५ एवं ६, टिंगारिया बादशाह क्षेत्र एवं चतुर्भीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	भांया ग्राम की सीमा करोलबाग बाहरी हिस्सा, भांया गांव, कुमेंझी, इस्टर्नियल एरिया—, ई सेक्टर, मार्डन घोरह, सिंधी नगर, गणेशधाम, दुर्गा नगर, मुखर्जी नगर	सारसरी कुछ आश्रम, राजाधाना सुदर्शन, विजयगर्मी नगर,	दिक्किरिया बादशाह गांव, पालाखेडी गांव	
19	विश्वकर्मा	गणेश धाम, मुखर्जी नगर, भगतसिंह नगर, रामदत्त का भट्टाटा, बाणगंगा थाने के सामने भांया ग्राम वाली गली, सौंवर रोड औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर सी. व एफ, आदर्श गणपति नगर, सौई सुमन नगर, नरवल गांव एवं कांकड़, दुर्गा नगर, कुमेंझी ग्राम व कांकड़ करोलबाग, सिंधि-सिंहि नगर, गणा नगर एवं चतुर्भीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	भानगढ़, एम.आर.10 ब्रिज, टेल टेक्स, रेल्वे लाइन, सुखलिया, खातीपुरा ब्रीज से नाला, लक्ष्मीबाई नगर से महेश यादव नगर	महेश यादव नगर, महाराणा प्रताप नगर, सुखलिया, खातीपुरा ब्रीज से नाला, लक्ष्मीबाई नगर से महेश यादव नगर	बाणगंगा, मानसिक चिकित्सालय रेल्वे ब्रिज, शिव नगर, भवानी नगर, इचोरामा जम्न दलरूम, से कुमेंझी तक	
20	गोरी नगर	गोरी नगर, न्यूगोरी नगर, भोलेनाथ धाम, रुप नगर, केशव नगर, आदिनाथ नगर, चूटे टेक्स नाका, एम. खातीपुरा, खातीपुरा गांव, खातीपुरा हरिजन बस्ती, सुखलिया ग्राम देवती नगर, आर.10 ब्रिज, से खातीपुरा कॉलोनी, मोरी नगर, प्रिन्स सिटी, आद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-५, पना नगर, मान्यलक्ष्मी नगर, रेल्वे झुग्गी झोपड़ी आदि एवं चतुर्भीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	भाय लक्ष्मी नगर, अभिनन्दन नगर, किंपार्क, गोरी शंकर नगर से राधिका सोसायटी	शारदा विधा मादि, इंडस्ट्रीयल एरिया, ई-१ एण्ड ई-२ से गणेश धाम	गणेश धाम से इंडस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर सी, से एम.आर.10 टोल टेक्स नाका।	
21	श्याम नगर	श्याम नगर, श्याम नगर एनेस्स, श्याम नगर एकस्टेशन सहित तम्बू श्याम नगर, भाय लक्ष्मी नगर, जनकपुरी, गयरी नगर, चूटे गायरी नगर, दीणा नगर एम.सेक्टर म.न. १२ से ७१ तक अभिनन्दन नगर, न. १ से २३५ तक वीणा नगर एम.वी.सेक्टर म.न. १२ से ७१ तक अभिनन्दन नगर, राधिका सोसायटी, सागर विहार कॉलोनी, चूटे हीरा नगर, सुन्दर नगर एकस्टेशन, मण्डल नगर, कशीपुरी, ट्रिटमेन्ट प्लान्ट वाला रोड नगर निगम बवाटर, गुलमोहर ग्रीन, तिरुमाला प्राइड, वासुरीवाला, शालीमार स्वयं, कत्पता नगर, सिंधी नगर कैलाश पुरी, अल्कापुरी किंस पांक, गोरीशंकर नगर आदि एवं चतुर्भीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	कुमेंझी गांव व भानगढ़ चूटे गांव की सीमा निरजनपुर नई बस्ती, इलेक्ट्रॉनिक कागजलेवस, चूटे गुप्त नैरथ चौराह, भवानी नगर, हीरा नगर, वीणा नगर, आदर्श मौलिक नगर, आई.टी.आई.	गोरी नगर, प्रिंस सिटी, कुमेंझी ग्राम		

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित		चतुर्भुजीमा			
		3	4	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	प.दीनदयाल उपाध्याय नगर सेक्टर ए.एच म.नं. 1 से 23 तक ए पम. नं. 1 से 76 चन्द्रगुप्त मौर्य चौराहा, तक ए एल म.नं. 1 से 31 तक सेक्टर ए.म. नं. 1 से 484 तक ए एम-2 शॉप कम एम.आर.10 रोड बपट रेसिडेंसल म. नं. 1 से 50 तक डी.एच. म.नं. 1 से 31 तक बी.एस.म.नं. 1 से 120 तक चौराहा पुलिया तक ए.एम. म.नं. 77 से 150 तक ए एम-2 म.नं. 200 से 310 तक आदर्श नौलिक नगर म.नं. 1 से 45 तक सी.एच.डी.म.नं. 19 से 54 तक सी.एल.म.नं. 1 से 200 तक डी.एम. म.नं. 1 से 344 तक सी.एम.म.नं. 1 से 60 तक सी.एच.म.नं. 1 से 51 तक, सी.सेक्टर ल्याट म.नं. 602 से 799 तक रविदास नगर, लखनऊ विहार, सबरी नगरी, हीरा नगर मेन रोड वीणा नगर, ए.ए.आर. 10 रोड सुखिलिया चौराहे से चन्द्रगुप्त मौर्य चौराहे तक, सुखिलिया चौराहे से मारुती नगर चौराहे तक मेन रोड, सुन्दर नगर, भेन, वीणा नगर सेक्टर-ए, बी, सी आदि एंव चतुर्भुजीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	फार्नन लेण्ड मार्क	फार्नन लेण्ड मार्क	डॉ. कालोनी, मारुती नगर, अम्बे नगर, प्राइम सिटी, एम.आर.-9 से चन्द्रगुप्त मौर्य चौराहा तक	डॉ. कालोनी, मारुती नगर से जनकपुरी होते हुए श्याम नगर	याम नगर से जनकपुरी होते हुए श्याम नगर
22	उपाध्याय	पं. दीन दयाल उपाध्याय	परदेशीपुरा सम्पूर्ण, अर्जुनसिंह गोहर नगर, लालगढ़ी, गणेश नगर, यत्कर्क कालोनी, गौरीनगर, श्याम नगर, घनतकसी अपार्टमेंट, रेडिओड कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, समाज कल्याण आय.टी.आप. खातिपुरा परिसर, यत्कर्क कालोनी एक्सटेंशन, भगवती नगर, यशोदा नगर, पुष्टा गोरी नगर, (तिरह) कोली मोहल्ला, आदर्श विजासन नगर एंव चतुर्भुजीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	आय.टी.आय., खातिपुरा (तिरह) आय.टी.आर. खातिपुरा एम.आर. 09 तिरह से इ.एस.आई. हास्पीटल चौराहे तक	आय.टी.आय., खातिपुरा (तिरह) आय.टी.आर. खातिपुरा एम.आर. 09 तिरह से इ.एस.भट्टा, भागीरथ पुरा पुलिया तक	तीन पुलिया से परदेशी चौराह, सुमाष नगर चौराह, कुलकर्णी आय.टी.आर. 09 तिरह से इ.एस.भट्टा, भागीरथ पुरा पुलिया तक	भागीरथ पुरा ब्रिज से नाले होते हुए न्यू गोरी नगर तक
23	स्व. राजेश जोशी	सर्वहारा नगर, सम्पूर्ण सुमाष नगर, स्वरेशी निल गेट से सुमाष नगर तक मेन रोड परदेशीपुरा थाने के ब्याटर, डमरपुरा, सुमाष नगर, स्वरेशी कॉम्प्लेक्स श्यामचरण शुक्रल नगर, सम्पूर्ण कुलकर्णी का भट्टा, शीलनाथ चौराह, परदेशी पुरा कैम्प, लक्ष्मण माली का खेत, कोटावाली की चाल, बैरा समाज बत्ती, नदामली का चौराह तीन पुलिया। बत्ती, नरायण माली का खेत अहियार समाज बत्ती, जाटव समाज समाज बत्ती, सहित इकमंचद मिल के आसपास का क्षेत्र व राजकुमार गिल सब्जी मैंडी आदि एंव चतुर्भुजीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	भागीरथपुरा ब्रिज, भागीरथपुरा मेन रोड ए.पी.ई.बी. रेल्वे अंडर ब्रिज नाले होते हुए इन्दौर स्टील।	तीन पुलिया, भागीरथपुरा ब्रिज, भागीरथपुरा मेन रोड से जीवन की फेल, मालवा मील मुरतीधाम तिरह से हुकुमचंद रेल्वे लाइन तक	शुवला नगर नाला से कुलकर्णी भट्टा, नाला से भागीरथ पुरा पुलिया तक		
24	संत बालीजी नाथ महाराज	सर्वहारा नगर, सम्पूर्ण सुमाष नगर, शकर कुम्हर का बगीचा, पेनजान कॉलोनी, रिवरविल भागीरथपुरा ब्रिज, नगर, स्वरेशी निल गेट से सुमाष नगर तक मेन रोड परदेशीपुरा थाने के ब्याटर, डमरपुरा, सुमाष नगर, गोकुलदास कॉम्प्लेक्स श्यामचरण शुक्रल नगर, सम्पूर्ण कुलकर्णी का भट्टा, शीलनाथ चौराह, परदेशी पुरा कैम्प, लक्ष्मण माली का खेत, कोटावाली की चाल, बैरा समाज बत्ती, नदामली का चौराह तीन पुलिया। बत्ती, नरायण माली का खेत अहियार समाज बत्ती, जाटव समाज बत्ती, सहित इकमंचद मिल के आसपास का क्षेत्र व राजकुमार गिल सब्जी मैंडी आदि एंव चतुर्भुजीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	भंडरी रेल्वे लाइन से शुवला नगर नाला से कुलकर्णी भट्टा, नाला से भागीरथ पुरा पुलिया तक	भंडरी रेल्वे लाइन से शुवला नगर नाला से कुलकर्णी भट्टा, नाला से भागीरथ पुरा पुलिया तक			

वार्ड वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित	चतुर्सीमा			
		उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4		
25 नंदा नगर	नंदा नगर रोड नं. 1-2-3-4 व 7-8 सहित रोड नंबर 13 से 26 तक नंदानगर तीन नंदा नगर रोड नं. 9 पुलिया एम.आई.जी.क्वाटर ,जनता क्वाटर ,अयोध्या नारी, पुलिया जालवा, मालवा गिल, सेट जासफ चर्च। पतरे की चाल, पकड़ी चाल, सम्पूर्ण मालवा मिल कम्पाउण्ड मेन रोड सर्वहारा नगर से पाटनीपुरा चौराहा तक एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	नंदा नगर रोड नं. 9 सेट जोसफ चर्च, पाटनीपुरा चौराहे से एम.आटल द्वारा, सरकारी चाल, मालवामील पुलिया नाले होते हुए जीवन तक	सेट जोसफ चर्च, पाटनीपुरा चौराहे से नाले होते हुए जीवन की चाल	मालवामील पुलिया नाले होते हुए जीवन की चाल, काजी पाटनी पुरा चौराहा । सर्वहारा कालोनी, सुपर्नी देवी कालोनी से नंदानगर रोड नं. 9 तक	
26 जीण मारा	नेहरु नगर रोड नं. 1 से 10 तक बहुमंजिल सहित, मेन रोड मालवा मिल से पाटनीपुरा पाटनीपुरा चौराहे से एम.आटल द्वारा, सरकारी चाल, अमीर हलयान की चाल, नरसंगा की चाल, भैरववाला की गली, गफूर खों की आई.जी.थाना अटल चाल, मुमताज सेट की गली, नंदानगर बिलिया का बीना, बेकरी बाली गली, हाकिम की द्वार तक। चाल, मुकादम की चाल, लंफन की चाल, लालपुर, मांगीलाल की चाल, मोतिलाल की चाल, फुलसिंग जमादार की चाल, कन्हैयालाल की चाल, आदि एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	नेहरु नगर रोड नं. 1 से 10 तक बहुमंजिल सहित, मेन रोड मालवा मिल से पाटनीपुरा पाटनीपुरा चौराहे से एम.आटल द्वारा, सरकारी चाल, अमीर हलयान की चाल, नरसंगा की चाल, भैरववाला का बीना, बेकरी बाली गली, हाकिम की द्वार तक। चाल, मुमताज सेट की गली, नंदानगर बिलिया का बीना, लालपुर, मांगीलाल की चाल, मोतिलाल की चाल, फुलसिंग जमादार की चाल, कन्हैयालाल की चाल, आदि एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	रुपेश यादव नगर, रुपेश यादव नगर, नगर सेट जोसफ चर्च, रुपेश यादव नगर	रुपेश यादव नगर, रुपेश यादव की चाल, काजी पाटनी पुरा चौराहा । रुपेश यादव नगर	मालवामील पुलिया से जीवन की चाल, सर्वहारा कालोनी, सुपर्नी देवी कालोनी से नंदानगर रोड नं. 9 तक
27 पशुपति नाथ	बजरंग नगर सम्पूर्ण, जूनियर बजरंग नगर, डी.एम.क्वाटर, नंदानगर रोड नंबर- 5-6 एवं 9-10-11-12 सहित रोड नंबर-27 से 31 तक सत्यम विहार, सुयश विहार, तिरहाट सुदर नार, डॉक्टर कॉलोनी, पंचायीप भवन, तीन मंजिला हॉस्पिटल के क्वार्टर व आसपास का क्षेत्र, आदर्श मौलिक नगर, पं. कालरसदेव नगर, मालकी नगर, अम्बे नगर, प्राइम सिटी एवं प्राइम सिटी दीनदयल नगर, होटल एनेक्स, स्टाफ कालोनी एवं चतुर्सीमा की परिसीमा के अंतर्गत समस्त क्षेत्र एवं आवास फार्म्हन लेण्ड मार्क।	बजरंग नगर सम्पूर्ण, जूनियर बजरंग नगर, डी.एम.क्वाटर, नंदानगर रोड नंबर- 5-6 एवं 9-10-11-12 सहित रोड नंबर-27 से 31 तक सत्यम विहार, सुयश विहार, तिरहाट सुदर नार, डॉक्टर कॉलोनी, पंचायीप भवन, तीन मंजिला हॉस्पिटल के क्वार्टर व आसपास का क्षेत्र, आदर्श मौलिक नगर, पं. कालरसदेव नगर, मालकी नगर, अम्बे नगर, प्राइम सिटी एवं प्राइम सिटी दीनदयल नगर, होटल एनेक्स, स्टाफ कालोनी एवं चतुर्सीमा की परिसीमा के अंतर्गत समस्त क्षेत्र एवं आवास फार्म्हन लेण्ड मार्क।	खाटीपुरा (आई.टी.आई.) फार्म्हन लेण्ड भाँक के रोड नं. 9 नंदा नगर पीछे नाले से मेघदूत नार, अंजली नगर, आस्था सिनेमा से सेट जोसफ चर्च रोड नं. 9 तक।	खाटीपुरा (आई.टी.आई.) फार्म्हन लेण्ड भाँक के रोड नं. 9 नंदा नगर से दलक्ष कालोनी, वृद्धा आश्रम, आस्था सिनेमा से दलक्ष कालोनी, वृद्धा आश्रम, खाटीपुरा आई.टी.आई. तिरहाट।	नंदा नगर रोड नं. 9 से दलक्ष कालोनी, वृद्धा आश्रम, खाटीपुरा आई.टी.आई. तिरहाट।
28 मां तुलाजा भवानी	मध्ददूत नगर, नेत्रा कॉलोनी, छोटी भमोरी, संजय गांधी नगर, शिव शवित नगर, बड़ी भमोरी ( दुबे ) भमोरी प्लाजा, राम नगर, अंजली नगर, केंत्राश का भट्टा, न्यू अंजली चौराह एम.आर.10 नगर, मालवीय समाज बरसी, रामनगर नई आवादी,त्रिलोक काम्पटटा, नवजीवन खवासी संघ, मेघदूत गार्डन, मेघदूत शमशन घाट के आसपास का सम्पूर्ण क्षेत्र होटल फॉर्म्हन लोणडार्क आदि, इल.आई.जी. सेवटर-के मकान नं. 1 से 112 तक एवं आवास आदि एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	मध्ददूत नगर, नेत्रा कॉलोनी, छोटी भमोरी, संजय गांधी नगर, शिव शवित नगर, बड़ी भमोरी ( दुबे ) भमोरी प्लाजा, राम नगर, अंजली नगर, केंत्राश का भट्टा, न्यू अंजली चौराह एम.आर.10 नगर, मालवीय समाज बरसी, रामनगर नई आवादी,त्रिलोक काम्पटटा, नवजीवन खवासी संघ, मेघदूत गार्डन, मेघदूत शमशन घाट के आसपास का सम्पूर्ण क्षेत्र होटल फॉर्म्हन लोणडार्क आदि, इल.आई.जी. सेवटर-के मकान नं. 1 से 112 तक एवं आवास आदि एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	सायाजी चौराहे से सायाजी मध्ददूत नगर, असारी कालोनी, कन्नू पटेल मनमंदीर, आदर्श मेकेनिक नगर, संजय कालोनी, वृद्धा आश्रम, गांधी नगर एम.आर.9 पुलिया नादिया नगर से बापट चौराह।	सायाजी चौराहे से सायाजी मध्ददूत नगर, असारी कालोनी, कन्नू पटेल मनमंदीर, आदर्श मेकेनिक नगर, संजय कालोनी, वृद्धा आश्रम, गांधी नगर एम.आर.9 पुलिया नादिया नगर से बापट चौराह।	नंदा नगर रोड नं. 7 से दलक्ष कालोनी, वृद्धा आश्रम, खाटीपुरा आई.टी.आश्रम, निवास सेठी सबध नगर तिरहाट से अंतिम निवास नगर तिरहाट।
29 ढां रथामप्रसाद मुखर्जी	विजय नगर , स्कॉम नं. 54 के स्पूर्ण सेक्टर स्कॉम नं. 74 के स्पूर्ण सेक्टर स्कॉम नं. 74 तक एवं वार्ड अंबर-54 आदर्श मेकेनिक नगर, एक्सटेंशन, स्कॉम नं 54 पी.यू.-3, ऐन मेन रोड से ए.वी.रोड तिरहाट से विजयनगर नगर तिरहाट अंतिम निवास, सत्यमुकु बिल्डिंग, शर्मा नमकीन के आसपास का ए.वी.रोड वर्संत विहार नगर, निवास होटल तक ए.वी.रोड वर्संत विहार नगर तिरहाट।	विजय नगर , स्कॉम नं. 54 के स्पूर्ण सेक्टर स्कॉम नं. 74 तक एवं वार्ड अंबर-54 आदर्श मेकेनिक नगर, एक्सटेंशन, स्कॉम नं 54 पी.यू.-3, ऐन मेन रोड से ए.वी.रोड तिरहाट से विजयनगर नगर तिरहाट अंतिम निवास, सत्यमुकु बिल्डिंग, शर्मा नमकीन के आसपास का ए.वी.रोड वर्संत विहार नगर, निवास होटल तक ए.वी.रोड वर्संत विहार नगर तिरहाट।	विजय नगर, हाउसिंग एच.आप.जी.क्वाटर वार्ड अंबर-54 आदर्श मेकेनिक नगर, एक्सटेंशन, सत्यमुकु बिल्डिंग, शर्मा नमकीन के आसपास का ए.वी.रोड वर्संत विहार नगर, निवास होटल तक ए.वी.रोड वर्संत विहार नगर तिरहाट।	विजय नगर, हाउसिंग एच.आप.जी.क्वाटर वार्ड अंबर-54 आदर्श मेकेनिक नगर, एक्सटेंशन, सत्यमुकु बिल्डिंग, शर्मा नमकीन के आसपास का ए.वी.रोड वर्संत विहार नगर, निवास होटल तक ए.वी.रोड वर्संत विहार नगर तिरहाट।	

वार्ड	वार्ड का नाम	चतुर्सीमा			
		उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4		
30	संत रविदास यन्दू नगर के पास का क्षेत्र एवं चतुर्सीमा में समाहित समाजों की विवरण	बाफनी नारा, मालवीय नगर रोड नंबर-2, अनुराग नगर भारक प्रेस के पीछे प्रेस सी 21 माल ए.वी.रोड कॉम्प्लेक्स परिसर, औम गुरुदेव कॉम्प्लेक्स, शातिदीप कॉलोनी, सम्पूर्ण कृष्णबाग, गुल से आदर्श मौलिक नगर रिंग रोड एम.आर. नगर, गुल नगर एक्सटेंशन, श्वाशी कॉलोनी, सुन्दर नगर, चूटू मालवीय नगर, बफनी से मां अधिका नगर से स्वर्ण बाग नगर, महेशबाग कॉलोनी, रविजगति नगर, अधिका नगर, अनिल नगर, सोलंकी नगर, रिंग रोड यन्दू नगर के पास होटल अमरविलास, स्टेट बैंक परिसर, श्रीमाया रेसिलेसी के आस-पास का क्षेत्र एवं चतुर्सीमा में समाहित समाजों की विवरण।	देलीसिटी टॉकिंज, कालिंदी पार्क नई सड़क खजाना काकड पुलिया से लाईफ लाइन अस्ताल ए.वी. रोड	देलीसिटी टॉकिंज, कालिंदी पार्क नई सड़क खजाना काकड पुलिया से लाईफ लाइन अस्ताल ए.वी. रोड	ए.वी.रोड एल आई जी गुरुद्वारा एम.आर. 9 चौराहा से सी 21 मैल तक
31	महाराजा छत्रसाल	भाष्यकी कॉलोनी, शीतल नगर ए सेक्टर शीतल थी सेक्टर सुमन नगर गंगादेवी नगर, निरंजनपुरा चौराहा से मां अधिका नगर, मांगल सिटी, स्कॉम नं. 54 पी.यू.-4 वी.सी.एम.हाईट्स, शेखर प्लैनेट, लालुडिया मोरी तिरहा प्रिन्सेस लाजा, रायल प्लैटिनम, बसंत विहार कॉलोनी, शाति निकेतन, बापडी नगर, रिंग रोड राजबाग, स्कॉम नं. 114 पार्ट-2, स्कॉम नं. 94 सेक्टर डब्लू. ५. डब्लू. वी. डब्लू. ई. सेक्टर ई.वी. अनुराग नगर, शालीमार टाउनशिप के पीछे शालीमार टाउनशिप के पीछे सम्पूर्ण बागु गांधी नगर, गुलाब बाग, आदर्श मेधूत नगर, चू शीतल नगर, चित्रानगर, पटेल नगर, पुनम पैलेस कॉलोनी, वी.एस.एन.एल.व्हाटर, स्कॉम नंबर-54 पी.यू.-4 मॉल, मल्हार मैण मॉल, मालवीय नगर रोड नंबर-1 व 3 श्रीम नगर, कल्याकामधेनु नगर, आदि एवं चतुर्सीमा की परिस्थिमा के अंतर्गत समस्त क्षेत्र एवं सम्पूर्ण आवास।	लालुडिया तिरहा, रिंग रोड अधिका रोड रेडिस्ट चौराहा कालोनी, अनिल नगर, लालुडिया नगर ए.वी.रोड विजयनार चौराहा से निरंजनपुर चौराहा सी 21 तिरहातक	लालुडिया तिरहा, रिंग रोड अधिका रोड रेडिस्ट चौराहा कालोनी, अनिल नगर, लालुडिया नगर ए.वी.रोड विजयनार चौराहा से निरंजनपुर चौराहा सी 21 तिरहातक	ए.वी.रोड सी 21 के सामने रसोमा चौराहा, वेलोसिटी सिनेमा तक मालवीय नगर ए.वी.रोड विजयनार चौराहा से निरंजनपुर चौराहा
32	उत्तर विहारी वाजपेयी	स्कॉम नं. 78 स्टाईज नं. 2-4 एवं 5-6 के समस्त सेक्टर अटल विहारी खेल संकुल एम.आर.11 सिक्का परिसर, नमदा व्हाटर, 78 पार्ट-2 होटल टंदवन, सी.एच.एल.हॉस्पिटल नक्षत्र कंपेशन स्कूल चौराहा, स्कॉम नं. ए.वी.रोड, बंसत सेक्टर के आसपास का इलाका, स्कॉम नं. 113 रुचनवाग व ईश्वर नगर एवं चतुर्सीमा 78 पार्ट 1 से ए.वी.रोड। विहार कालोनी। समाहित समस्त आबादी की विवरण।	शालीमार टॉडन शीप, स्कॉम नं. 74 सी. ए.वी.रोड, बंसत गाईन तिरहा।	शालीमार टॉडन शीप, स्कॉम नं. 74 सी. ए.वी.रोड, बंसत गाईन तिरहा।	एम.आर.11 नक्षत्र लिशहा से सिक्का स्कूल 78 चौराहा

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित हैं			चतुर्सीमा			
		1	2	3	4	उत्तर	पूर्व	दक्षिण
33	सुखिलिया	कबीटखेड़ी, लहीया कोलोनी, सूर्या पैलेस, शिवानी नगर, पराग नगर, मौं शारदा नगर, भानगढ़ नाला, रकीम नं. 136 होते हुए रकीम नं. 21 तक, ए.एच.म.नं. 1 से 54 तक, ए.एच.म.नं. 1 से 21 तक, ए.एच.डी.म.नं. 1 से 52 तक ए.एच.स्काइड म.नं. 1 से 199 तक, सी.एम.सेक्यूरिटी म.नं. 1 से 654 तक सी.जे.आर.एम.म.नं. 1 से 125 तक सी.एम. म.नं. 61 से 250 तक सी.एच.52 से 101 तक सी.सेक्यूरिटी म.नं. 485 से 601 सी.एल. 1 से 100 तक । सी.सी.एच. नगर जय अम्बे नगर एवं चतुर्सीमा में समाहित समरत आबादी क्षेत्र।				कबीट खेड़ी, रकीम नं. 136 होते हुए रकीम नं. 21 तक, ए.एच.म.नं. 1 से 54 तक, ए.एच.डी.म.नं. 1 से 21 तक, ए.एच.स्काइड म.नं. 54 चौराहा के पूर्व तिरहा एफ एच सेक्टर	बापट चौराह ए.ए.आर. 10 रोड चन्द्रगढ़ मौर्य चौराहा	चन्द्रगढ़ मौर्य चौराह ट्रीटमेंट लाइनगढ़ ।
34	शहीद मणतासिंह	निरजनपुर व आसपास का क्षेत्र रकीम नं. 114 पार्ट-1 समूर्ध राजीव आवास योजना रकीम नं. 78 रकीज नं. 1 व 3 के सम्पूर्ण सेक्टर रकीम नं. 78 लोह मंडी, एम.आर. 11 रोड रो-हाउस ( पिक सिटी ) रकीम नं. 136, किरिचन वाटर, आदि एवं चतुर्सीमा में निरजनपुर चौराहा ए.वी.रोड समरत समरत आबादी क्षेत्र।				ए.वी.रोड निरजनपुर चौराह से शालीमार सर्वांगी का स्फुल, रकीम नं. 113 लाहिया कालोनी, मुरीधीया	अंग्रेज रकीम नं. 78 से भानगढ़ ग्राम नाला रकीम नं. 11 रोड निरजनपुर चौराह से शालीमार टाउनशीप रोड	
35	लशुड़िया मोरी	ग्राम लशुड़िया मोरी, ग्राम तलावली चौंदा, राहुल गांधी नगर, निरजनपुर नई बरसी, निरजनपुर नाले से तलावली चौंदा को राहुल गांधी नगर से लगा हुआ क्षेत्र बजरगा नगर काकड, समरत बस्तियां व नगर एवं कोलोनी, मधुबन का दाबा, निरजनपुर चौराहा से तलावली चौंदा तक देयास ताका मन रोड, शकर खेड़ी, भानगढ़ आदि एवं चतुर्सीमा की परिसीमा के अंतर्गत समरत क्षेत्र एवं समूर्ध आवास ।				अंडिया, मायाखेड़ी निषानिया, श्रीराम नगर से ए.वी.रोड निरजनपुर चौराहा से ए.ए.आर. 11 कैलोड हाला भांया होते हुए निरजनपुर नाला से भांया गेव की सीमा	निषानिया, श्रीराम नगर से ए.वी.रोड निरजनपुर रेल्वे पटरी होते हुए कैलोड हाला भांया होते हुए निरजनपुर रोड से रेल्वे क्रासिंग तक	
36	निषानिया	ग्राम मायाखेड़ी, ग्राम अरणिड़ी, ग्राम निषानिया ग्राम पिपल्याकुमार, लशुड़िया मोरी गांव का शेष भाग आदि एवं चतुर्सीमा में समाहित समरत आबादी क्षेत्र।				सिल्वर पार्क, बल्याखेड़ी, ओमेक्स सिटी	वापायास, टकीम नं. 134 साँई कृषा महालझी नगर	निरजनपुर पिपल्याकुमार, रकीम नं. 94, लशुड़िया लिरहा से निरजनपुर पू.बी.रोड लशुड़िया मोरी तलावली चांदा

चार्ड	चार्ड का नाम	वार्ड में समाहित ।'			चतुर्थीमा	
		1	2	3		
37	सांई कृष्ण	<p>स्कीम नं. 94, वक़्तुण्ड नगर, मुमताज नगर, सजीवनी नगर, आनंदी नगर, सावित्रि लघुडिया लिंगहा, नगर पार्ट 1, रामकृष्ण बाग, रामकृष्ण बाग भी, यशोदा नगर, रामकृष्ण बाग 2, पटेल रिप्लियाकूमार गांव, नगर, स्कीम नं. 94 वलासिक पूर्णिमा, शान्ति कुंज, स्वर्ण आनंद नगर, तपेश्वरी बाग निपानिया गांव सीमा कालोनी, कृष्णाविहार कालोनी, स्कीम नं. 94 राधिका पेटेस कालोनी, येम लक्ष्मी नगर, कृष्ण बाग भी, सेवटर, न्यू विवा नगर, सांई कृष्ण कालोनी, स्वर्ण बाग कालोनी, संजोगपुरी, महालक्ष्मी नगर, गणेश नगर वीणा नगर, मानसरोवर नगर, चिकित्सक नगर मेन एवं बस्ती स्कीम नं. 94 बाम्बे हॉस्पिटल के सामने च्याय नगर एक्स. पुरी, सुमित नगर, आनंद कालोनी एवं चतुर्थीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।</p>	<p>उत्तर</p> <p>स्कीम नं. 134 बाबा धीरज कालोनी, मनस्व नगर से धीरज नगर तक</p> <p>स्कीम नं. 134 बाबा धीरज कालोनी, मनस्व नगर से धीरज नगर तक</p>	<p>पूर्व</p> <p>स्कीम नं. 134 बाबा धीरज कालोनी, मनस्व नगर से धीरज नगर तक</p> <p>पूर्व</p>	<p>दक्षिण</p> <p>स्कीम नं. 134 बाबा धीरज कालोनी, मनस्व नगर से धीरज नगर तक</p> <p>दक्षिण</p>	<p>पश्चिम</p> <p>स्कीम नं. 134 बाबा धीरज कालोनी, मनस्व नगर से धीरज नगर तक</p> <p>पश्चिम</p>
38	हाजी कालोनी	<p>चुहाना पार्क, अशफ़ि नगर, गांधी ग्राम, राजीव नगर, पुलिस क्वार्टर, ताज नगर, ताज नगर, सेवटर ए व भी, सदर बाजार, माती कालोनी, जल्ला कालोनी, हाजी कालोनी, निपानिया ग्राम सीमा लक्ष्मीबाग, नाहर शाह नगर, मन सब नगर, आनार बाग, बाबा मनस्व नगर, शाही बाग, बंगाली कालोनी, सुपर पेटेस, बडला, बडला घाटी, याजीव नगर बडला, विजयनगर, देलत बाग, एवं चतुर्थीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।</p>	<p>कर्नाडिया ग्राम सीमा से बायपास तक</p> <p>कर्नाडिया ग्राम सीमा से बायपास तक</p>	<p>कर्नाडिया ग्राम सीमा से बायपास तक</p> <p>कर्नाडिया ग्राम सीमा से बायपास तक</p>	<p>खजराना गणेश की ओर से रोशन नगर, हरिजन मेन रोड से अहिल्या कालोनी, खजराना गणेश मंदिर तक</p> <p>खजराना गणेश मंदिर तक</p>	<p>खजराना गणेश मंदिर तक</p> <p>खजराना गणेश मंदिर तक</p>
39	नाहर शाहवाली	<p>जलकारिया कालोनी, सायरा नगर हवीब कालोनी, डाकतार कालोनी, तलीम नगर, गोहर अशरकी नगर, दोसिया नगर, रायत पेटेस रजा कालोनी, सिल्वर कालोनी, रियाज उल 134, से बायपास, खजरना पेटेस, न्यू शारफ़त नगर, न्यू मेजेस्टिक नगर, पारसी कंपाउण्ड, खुदा बक्स पेटेस, खजरना पेटेस, खिजराबाद भी, सेवटर, इलियास कालोनी, मेजेस्टिक नगर, अली कालोनी, अमन नगर, अहमद नगर, कादर कालोनी, हारून कालोनी, शालीमार पेटेस, न्यू हिंडा नगर, दिलीप नगर, संचार नगर दाउदी नगर, मोमिन पुरा, शाहजहां कालोनी, इशाक कालोनी, रोशन नगर, रोशन नगर ए, बी एवं सी सेक्टर, दीलत बाग, शेरशाह मुरी नगर एवं चतुर्थीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।</p>	<p>उत्तर</p> <p>उत्तर</p> <p>उत्तर</p>	<p>पूर्व</p> <p>पूर्व</p> <p>पूर्व</p>	<p>दक्षिण</p> <p>दक्षिण</p> <p>दक्षिण</p>	<p>पश्चिम</p> <p>पश्चिम</p> <p>पश्चिम</p>

वर्ड वर्ड का नाम		वर्ड में समाहित १		चतुर्सीमा		
1	2	3	4	उत्तर	पूर्व	
40	खजराना गणेश	चुन्दर बाग, मायापुरी, मायापुरी सेक्टर बी एवं भी, शिवबाग बड़ी, रामकृष्ण बाग , देवकी पटेल नगर, च्याय नगर, हाजी पटेल नगर, च्याय नगर, गोयल विहार बाबा मनसन नगर, हाजी कालोनी, राजीव नगर, झला कालोनी, गणेश मंदिर, गणेशपुरी, कालोनी, पटेल मोहल्ला, खजराना मैन रोड तथा बाई और, खजराना मैन रोड, सावधिया नगर पाट-भी, बलाई मोहल्ला, रिविदास नगर, पक्का नगर, शकर नगर, विश्वनाथ धाम, शिव बाग, धीरज नगर, छोटी शिवबाग, सरस्वती नगर कृष्णबाग सेक्टर-बी, गोया तालाब रोड, सोहराब कालोनी, बाबा की बाग, चहरयार कालोनी एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	बाबा मनसन नगर, गोयल विहार एवेन्यू, गोयल कालोनी, खजराना चौराहा, अमन नगर, संजोगपुरी अंदरी नगर, मुकुलाज बाग कालोनी, एम आर ९ से पटेल नगर तक	गोयल विहार एवेन्यू, गणेश नगर, दिल्ली कालोनी, खजराना चौराहा तक नगर, मित्र बंधु नगर तक	खजराना चौराहा, अमन नगर,	
41	कैलाशपुरी	देवपुरी, सुरज नगर, मंगलमृत नगर, रोनिया पेलेस कालोनी, चेतन नगर ए., बी, सहजन अर्जन चौराह, कैलाशपुरी कोलानी, मित्रबद्ध नार, पलाश पेलेस, आलोकनगर, आशीष नगर, सचार गणेशपुरी, गोयल विहार, कनाडिया रोड से नगर, गोयल नगर एक्स., माधव नगर, शावना कम्पाउण्ड, गणराज नगर, गणनायक अमन कालोनी से नगर, उत्कर्ष स्टेट, शेखर नगर एनवलेथ, आशानगर, सोमनाथ, ग्रीतिनगर, श्रीराम नगर अमनद नगर कनाडिया रोड, रकीम नं. ९४ बी एस एन एल क्वा. व मयूर अस्ताल सर्विस रोड, रोड तक समाट नगर, डायमंड कालोनी, डायमंड पेलेस, वैभव नगर, मैन एस., महादेव तोताला नगर, कंधरी नगर, बंगली कालोनी, सुशाल कालोनी, रिच्डि चिदि नार, सुमित नगर, गोयल विहार एवेन्यू, लक्ष्य विहार, शेखर एन-कलेच, शुभ लाभ एवेन्यू एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	अहमद नगर, कैलाडिया रोड से नगर, शकर नार, जीनियस पार्क एरिया, पालीबाल धर्मशाला, गणेश धाम नंदिर बंगली चौराहा से होते हुए खजराना चौराहा तक	गणेश धाम	गणेश धाम	रिंग रोड, वेदना नगर, शकरी नार, जीनियस पार्क एरिया, पालीबाल धर्मशाला, गणेश धाम नंदिर बंगली चौराहा से होते हुए खजराना चौराहा तक
42	स्वामी विवेकानंद	मनभावन नगर, हर्ष नगर, मुकाती नगर, ज्ञान पार्क, टेलीफोन नगर, सांझी छत बडवानी प्लाजा, साकेत आंदी नगर रिंग बिल्डिंग, शुभलाम बिल्डिंग, सिल्वर एवेन्यू, सिल्वर विग रविन्द्र नगर, साकेत नगर, झोन, रेफिल टॉपर होते रोड से खजराना चौराहा, रेफिल टॉपर होते नगर, संविद नगर, चालोनी, पालीबाल नार, कल्या लोक कालोनी, हुए बेकुड धाम से खजराना मैनरोड होते हुए बंगली चौराहे तक स्वामी मनीषपुरी, मनीष एक्सटेंशन, शिल नगर, रकीम नं. ३५ वलासीक पालीबाल, मुलानी खजराना मैनरोड होते हुए अनुराग नार, कालोनी, मैनर कालोनी, उत्कर्ष विहार, कलासिक पुरिमा स्टेट, संजीवनी नगर, रिजेसी हुए अनुराग नार, संजोग पुरी रिंग रोड प्रियदर्शनी, कनाडिया मैन रोड एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	आंदी नगर रिंग बंगली चौराहा से बडवानी चौराहा तक गोयल विहार एवेन्यू, सिल्वर विग रोड होते नगर, संविद नगर, तिलक नगर मैन रोड बंगली चौराहे तक			

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित 'न			चतुर्सीमा	
		1	2	3		
43	श्री नगर	चूरू पतासिया, अनूप नगर, शकुन विला अपार्टमेंट, महक अपार्टमेंट, चांदनी अपार्टमेंट, पांचु की चाल, नाला, ए चूरू पतासिया कम्पनी हॉट, लक्ष्मी भेमाशिवत हास्पिटल लोखेडे पुल, सर्वोदय नसिंग थी. रोड, ओल्ड होम, सन साईट अपार्ट, गोरख अपार्टमेंट, कंचन अपार्ट, अनूप नगर ओल्ड, खजरानी पतासिया, एल आई जी कांकड, कीर्ति पैलेस, श्रीनगर मेन व एप्स, बैंकुंठधान, वीमा नार, रेटे बैंक कालोनी, स्केपर, गुरुद्वारा पुल से चद्धलोक, होते हुए साकेत नगर चौराहे तक श्रीनगर कांकड, कालिंदी पार्क, रवि नगर, पी.सी. कालोनी, ओल्ड पतासिया शनडे कंप. कालिंदी पार्क रानडे क. एप्स. मनोरमांग पुल से ओल्ड पतासिया, जाय बिल्बस कालोनी, यमाहा शोरूम, ए.बी. रोड, सांधी कालोनी, गुरुकृष्ण रेस्टरेंट खजराना रोड, सांधी कालोनी एव चतुर्सीमा में समाहित समरत आवादी क्षेत्र।	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	परिचम
44	एच आई जी	फलू, पटेल की चाल, सोमानाथ की नई चाल, छोटी खजरानी, नया बरसा, मालवा आदर्श मेकेनिक नगर, परिसर ए बी रोड, शहनाइ रेस्टोरेंटों ब्लाक बी व डी, साई संपदा अपार्टमेंट, सातकार पाकिजा ए.बी.रोड, रेस्टोरेंटों, अक्षयदीप कालोनी, शालीमार मालवा परिसर, प्रकाशचान्द देसी नगर, न्यू नादिया नगर व नादिया नगर, अंसार कालोनी, महावेश्वर मदिर सेक्टर आई, एल आई जी सेक्टर आई-एल, एम.आई.जी. जी. सेक्टर, एल.आई.जी. जी. थाना एव जी जी सेक्टर, कालोनी, शापिंग काम्पलेक्स गृह निर्माण अफिस के नीचे से शापिंग काम्पलेक्स के पीछे की दुकानों तक, पाटनी पुरा चौराहा से अनुप याकिज तक, चन्द नगर, हरि कालोनी, जगजीवनराम नगर समूह, एव चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	उत्तर	पी.बी.रोड, जी-21 भाल से गुद्दरा पुलिया तक	गुद्दरा पुलिया नाले से होते हुए एम.आई.जी. सेक्टर एफ. एल.आई. जी. मेन रोड क्रिशिन एमिनेन्ट स्फूल से पाटनी पुरा चौराहा तक	पाटनीपुरा चौराहा, संजय गांधी नगर, झोपड पट्टी एसिया आदर्श मेकेनिक नगर
45	डंभीमराव अंबेडकर	अबेडकर नगर, एम.आई.जी. एल.आई.जी. मेन रोड के पीछे, एल.आई.जी. मेन रोड से न्यू होरीजन स्फूल रोड से एल.आई.जी. पलासिया, लक्ष्मी चौराहा होते हुए से नाला होते हुए सागर अपार्टमेंट तक समनाथ की चाल तक	गुद्दरा पुलिया ए.बी.रोड तक	गोदू की चाल, शिव रायगढ़ी नगर, नेहरू व्यायाम शाला, नेहरू, नगर, से एम.आई.जी. थाने तक		
46	सोमानाथ	पचम की फेल, रुस्तम का बरीचा, गोटु की चाल, अमरस्टेकरी, विकास नगर, सोमनाथ नेहरू नगर, रुपेश यादव नगर, लाला का बरीचा, लाला का बरीचा, लाला का बरीचा अबेडकर नगर तक	लक्ष्मी मेमोरियल हास्पिटल चूर्ण, जंजीरवाला गामा की फेल होते हुए मालवा मील स्केयर	जंजीर वाला चौराहा, रेशनसिंह भण्डरी मार्ग, तक नाले तक		

वार्ड वार्ड का नाम		वार्ड में समाहित चूर्ण		चूर्णसीमा	
1	2	3	4	उत्तर	पूर्व
47	सरदार वर्लामसाई	उत्तरांत निवास रोड, बिल्डर्स कालोनी, अहिल्या भाटा कालोनी , जी एस आई टी एस, इक्कुनगढ़ मीलस, उत्तरांमड कालोनी, पार्क रोड, अगविहार कालोनी रोड, धेनू मूर्ती, वल्लभ नगर, दुर्घे का शिवाजी नगर, चौराहा, चूर्ण देवास रोड, मालवीय भौत चौराहा, रेसकोर्स रोड, रेशनसिंह मंडरी मार्ग मालवानील स्कैचर, से गोमा की फेल शेष मन. 221 से 577, हरिजन कॉलोनी, जंजीर वाला रुस्तम का बगीचा चौराहा, 56 इकान अभिलाषा अपार्टमेंट चैन सिंह का बगीचा, बी बिल्डर्स कालोनी, नेहरुपार्क, शिवायर पार्क बिल्डिंग, तुलसी टॉवर डीएम. टॉवर एंव चृतुःसीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	गोटू की चाल, पवन गोटू की चाल, पवन गोटू की फेल, मधुरी मार्ग, जंजीर वाला स्कैचर से चूर्ण पलासिया तक	पलासिया स्कैचर, एवी. रोड, सारथु तुकोगञ्ज पलासिया स्कैचर अपार्स रिगल स्कैचर एवी. रोड, हाई कोट, मन.जी.रोड, रिगल स्कैचर एवी. रोड शास्त्री ब्रिज	पाली हाल, चूर्ण सियांगज, नयापुरा, सेट्टल जेल, स्नेहलतांगज तक हुकुमचंद मील तक
48	गीता भवन	बड़ी यालटोली, सेवा सरदार नगर, गीता नगर, लालसप्तनाग, ग्रेटर तिरुपति, एवी.रोड गीता नगर पदमावती कालोनी इरसंचार कालोनी डिक कुंज, नवरत्न बाग, मनोरमा गंज गली नं. 1 से 6 सम्पूर्ण, कैलाश पार्क, दीपशिखा अपार्टमेंट, राजगढ कोठी, मिश्र विहार, देवी ओल्ड पलासिया, इदिया नगर, वनमंडल कार्यालय परिसर, शिवमंगल नगर, अलंकर पाईट, सुयश हॉस्पिटल, गौहर कम्पाऊड, शान्ती नगर, टेलीफोन कालोनी, पी. डब्ल्यू. करार्ट, बख्तावर राम नगर एक व ई सेक्टर, पलासिया बख्तावर राम नगर ई और एक सेक्टर, शाना परिसर ब्लाक नं. 2 आल्ड पलासिया मूलथान अपार्ट, बड़वानी लाजा, ओल्ड पलासिया ग्रेटर कैलाश हास्पिटल वाली गली, दीपशिखा अपार्टमेंट, एंव चृतुःसीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	सांकेत नगर झोन, रवीन्द्र नगर तिलक नगर मेन, बख्तावर रामनगर, से श्रीनगर, चौराहे से श्रीनगर, नगर मेन, बख्तावर रामनगर, से रिवाजी वाटिका एवी. रोड, तक परिचारिका नगर नाले तक	एग्रीबल्चर स्टाप नगर, बी.एस.एन.एल. अफिस भवन रक्षय, हरिजन कालोनी, ए.वी. रोड गीतार चौराहे तके	
49	तिलकनगर	राजकी वाटिका, प्रयत्न वाटिका, तिलक नगर मेन व एक्सटेंशन, गोयत नगर, शक्ति विनोबा नगर तारे से नगर, वंदनानगर सम्पूर्ण, श्रीनाथ कालोनी, सविद नगर सम्पूर्ण, श्रीनाथ कालोनी, तिलक नगर मेन रोड साईनाथ कालोनी सेक्टर वी व सी, बख्तावर रामनगर वी. सी. सेक्टर, वंदना नगर मेन, पत्रकार कालोनी, सांई विहार कालोनी वर्षनंदंग अपार्टमेंट, कृष्णविहार कालोनी, वंदना नगर वी व सी कालाडिया, गुलमोहर सेक्टर, तिलक नगर मेन, मुनील नगर, गोयत नगर, विनोबा नगर, बंगाली रक्षय, नगर मेन. 465 से 626 विनोबा नगर मेन रोड मं. न. 1 से 90 तक तिलक नगर शिरोड मुक्तिधाम वाली रोड एंव चृतुःसीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	वंगाली नगर स्कैचर से महादेव तोतला नगर, गणेश धाम तक रिंग रोड	परिचारिका नगर नाले रोड, गिरधर नगर, परिचारिका नगर नाले नगर, कालोनी, सेवासदन नगर, तिलक नगर मेन से विनोबा नगर तक	

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित चृ		चृ:सीमा			
		3	4	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2						
50	ब्रजेश्वरी	निम्न नगर, ब्रजेश्वरी रेट, गणेश धाम, ब्रजेश्वरी में व एकसंटेशन, श्री मंगल रेट, शुभ एकसंटेशन से, पाठीदार लाम देली, बाबू योजना स्कीम नं. 140, पिपल्याहाना सम्पूर्ण, ऐच्यू, नगर, बिजली कालोनी होते हुए नगर, आशीष नगर, श्रीकाते पेलेस, शिव मंगल नगर, शिव शक्ति नगर, सर्वसिविधा कानाडिया रोड संचार नगर, लक्ष्मीहार कालोनी, शेखर इन्कलेव, संचार नगर, मोर्या हिल्स गार्डन, मोर्या नगर तक । हिल्स से लगा हुआ अलोक नगर, वैभवनगर वी व सी सेक्टर एकसंटेशन, न्यू आशीष नगर तपन इन्कलेव, दीलात विहार, आशीष विहार, रमबाई नगर, सुखांगति नगर, महादेव धाम, गिरधर नगर, परिचारिका नगर, नंदगाव, शालीमार पाल्स, ज्ञानेश्वर पार्क, निधिवन कालोनी, पलास भेलेस, पारस्थाम इन्कलेव, श्रम एनवेव, विमल श्री ब्रजेश्वरी, राजकालोनी एवं चृ:सीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	कनाडिया रोड, बायपास, बिचोली होते हुए आशीष नगर से गीता नगर होते हुए स्पर्धावाहिका रिजेस्ट्री सिंग रोड मर्दाना, तक मर्दाना, नगर तक ।	अमरावत कालोनी से गीता नगर होते हुए आशीष नगर से गीता नगर होते हुए स्पर्धावाहिका रिजेस्ट्री सिंग रोड मर्दाना, तक मर्दाना, नगर तक ।	एग्रीकल्चर स्टॉफ नगर से गीता नगर होते हुए आशीष नगर से गीता नगर होते हुए स्पर्धावाहिका रिजेस्ट्री सिंग रोड मर्दाना, तक मर्दाना, नगर तक ।		
51	भगवती नगर			शिवनगर, आलोक नगर, आलम नगर, चावती पार्क, राम नगर, दिवाट नगर, उदयग रेंप्टल एजेंसी, शालीमार नगर, शिवदेवन नगर, शाहिन नगर, धनलक्ष्मी उघोग नगर, झुग्गी सम्पूर्ण, कृष्णपुरी पाल्स, संजना पार्क, कालोनी, अभिलाषा नगर, एकता नगर, कमल नगर, मौ भावती नगर, अभिषक नगर, कृष्ण नगर, नेमावर रोड, बाबूल नगर, चारद्वपुरी एवं चृ:सीमा में समाहित समर्त आबादी क्षेत्र।	बिचोली भद्रना गांव, बिचोली बायपास, देवपुराडिया गांव,	उधोग नगर, पालदा गांव, नेमावर रोड से गीता नगर श्रीराम नगर	नेमावर रोड, पवनपुरी से होते हुए खाली मोहल्ला, इदिरा नगर, मस्तेखेड़ी पुलिया, शाहील नगर, मधूर नगर, से इदरिश नगर तक
52	मूसाखेड़ी			मूसाखेड़ी सम्पूर्ण, अलकापुरी सम्पूर्ण, यादव नगर, प्रेमनार काकड रिगरोड पानी टकी के पास मूसाखेड़ी खाली मोहल्ला, अजय बाग कालोनी, फिरदोस नगर, नार्थ मूसाखेड़ी, चारवाल मोहल्ला, खारवाल मोहल्ला, रवि नगर, युलाव बाग, बाबू लाल भील पट्टन, मूसाखेड़ी नगर, श्रीराम नगर, एवं चतुरसीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	एम.पी.ई.बी.ग्राइ, पी.ए.वी. श्रीराम नगर, से इ.ए.पिया, तुलसी नगर, भगवती नगर, भील पट्टन, मूसाखेड़ी रिंग रोड चारवाल से होते हुए मधूर नगर	नेमावर रोड, उधोग नगर, रिंग रोड, पवन पुरी कालोनी, भगवती नगर ताले से गीता नगर होते हुए पवन पुरी नगर तक	

बाई	बाई का नाम	वाई में समाहित 'त्र			चतुर्थीमा	
		1	2	3		
53	डा. मौलाना आजाद नगर	आजाद नगर गोल चौराहा, आजाद नगर गोल चौराहा लोक निर्माण अहित्यापुरी, रेडियो विभाग बिल्डिंग, पुराना आजाद नगर, इंदिरा चौक, आजाद नगर नई बस्टी, आजाद कालोनी, सेन्ट्रल जेल, नगर मुसाखेडी मार्ग समशान घाट तक, हुसेनी चौक, गणेश चौक, गवली मोहल्ला, वाटर पम्प वाली लाईन, काली पुलिया आजाद नगर, गोप कालोनी, आजाद नगर हुसेनी महिनद रोड, नई नगर, मर्टेना नगर, चुम्पी नगर, मीना पेटेश, अमन नगर, शबकन मन्द नगर, गुलशन नगर, गीता नगर गह निर्माण संस्थान शमशान घाट मुख्य मार्ग एवं चतुर्थीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
54	रेस्सिडेंसी	न्यू एफता नगर रिंग रोड, शांति नगर, अमन नगर, पिंक स्ट्रीट, भीत कालोनी, भील शिवाजी वाटिका ए.वी. पलटन कालोनी, मुसाखेडी टेम्पो रेप्पन्ड, इदरिस नगर, रेस्सिडेंसी आयकर आफिस कर्स्टन रोड से एग्रीवलचर एयसाईज ल्यार्टर जेल परिसर, डेली कालोन, कृषि नगर, पी.टी.एस परिसर, वाटर्सर रस्टाप नार, ओल्ड शासकीय 80 क्वाटर, १ की रोड चिडिया घर, दूर सचार परिसर, हरिओम प्रायानगर, सूर्य सुखदान, अक्षर धाम, न्युर नगर, तुलसी नगर, समूप रेस्सिडेंसी, मध्य नगर, नर्मदा होते हुए बजेश्वरी प्रोजेक्ट कालोनी, मुसाखेडी टेम्पो स्टेप्पड, १.वी. रोड वेक ऑफ इंडिया से शिवाजी एक्सटेंशन से यात्रा वाटिका तक, समूप साटम पार्क कालोनी, पुलिस पेट्रल पम्प, नेतरम का बगीचा, रिंजेन्सी तक जगदीय पुरी चतुर्थीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	रेंगल रिंजेन्सी से अग्रवाल कॉलोनी होते नगर, राम नगर, मुसाखेडी रिंग रोड से अल्कापुरी, यादव नार, सोसायटी हुए पवनपुत्र सोसायटी से होते हुए मुख्यधान से होते हुए आजाद नगर चौराहा कम्पाउण्ड, शिवाजी वाटिका चौराहा तक से इच्छा सर्कल तक	शाहीन नगर, विश्वास आजाद नार, इंदिरा गांधी चौराहा, पासरी मोहल्ला, जावरा		
55	साउथ तुकोगंज	साउथ तुकोगंज, जावरा कम्पाउण्ड, मधुरा वाला स्वीट्स, झाडुआ टावर, देवी अहित्या विवि. परिसर, धार कोठी, गीता भवन चौराहा एम द्वाय, हॉस्पिटल परिसर, आर.एन.टी. सार्प, सहारत कालोनी, आई.जी. बंसाला, १.वी.रोड वाईट चर्च होम गार्ड आफिस, छोटी गवल टोली, बान्दा कम्पाउण्ड, रेले स्टेशन पुलिस थाने से रिंजिवेन आफिस तक, रेले छात्रावास एवं ल्यार्टर व पेट्रोलियम, मुराई मोहल्ला, नक्सिया रोड, देजर आइलेण्ड, नावल हॉस्पिटल, छावनी, किंवे कम्पाउण्ड, कल्याण विश्वाति गृह, रानी सराय गीन पार्क, नेहरु प्रतिमा, एवं चतुर्थीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	शास्त्री अंडर ब्रीज रेल्वे लाईन से एम.जी.रोड लाईन से गीता भवन मेलिकल होस्टल होते हुए शिवाजी वाटिका से गीता भवन चौराहा होते हुए चौराहा होते हुए चौराहे से गीता नगर, परिचालिका नगर से छावनी नक्सिया रोड डेली कालेज तक टोली सरवर्ट बस स्टेप्प रेले डिज तक			

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित बृंज		चतुर्सीमा		
		3	4	उत्तर	पूर्व	
56	स्वेहलतागंज	जीवन की फेल , फिरोज गांधी नार, बंशी प्रेस की चाल चिकमंगलूर चौराहा से साई भवन महिदा, शिवाजी नार, नयापुर, स्वेहलतागंज, उषा फाटक, काढी मोहल्ला, एव चतुर्सीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	कुलकर्णी भट्टा तिराहे से शिवाजी नार से शिवाजी नार चौराहे से शिवाजी नार से मालवा मुक्तीधाम पुल से नाले होते हुए, मालवा मैल पुलिया तक	मालवा मैल चौराहे से शिवाजी नार चौराहे से शिवाजी नार चौराहे से शिवाजी नार तिराहा से रक्कीम 91 से राजकुमार तालाब होते हुए रेल पटरी तक राजकुमार शीज से न्यू सियांगंज तक	न्यू सियांगंज से उद्दू स्कूल होते हुए सिख मेवाती मोहल्ला होते हुए जेल रोड तक होते हुए रेल पटरी तक राजकुमार शीज से कुलकर्णी भट्टा तिराहा	जेल रोड गंजी कम्पाऊण्ड चिमनबांग चौराहा से अहिल्या श्रम ब्रिज से नाले होने अंडर ब्रिज रेल्वे के भंडारी ब्रिज से कुलकर्णी भट्टा
57	अहिल्याबाई	देवी	नार निगम रोड, नगर निगम बॉल्टर, सुतार गर्ली, गंजी कम्पाऊण्ड, जेल रोड सम्पूर्ण, एम जी रोड, अग्रवाल स्टोर, से गणेश क्रैप मार्ट, देवी अहिल्या मार्ग, सबनीश मार्ग, शांतिपथ, दी आर पीलाईन नारायण बाग, पंतवेद्य कालोनी, गणेश कालोनी, रामबाग, जती कालोनी, तिलक पथ मेन रोड, वधमान टावर, नेताजी सुभार्ष मार्ग, चोथी पल्टन पुलिस लाइन नाले तक, भोई मोहल्ला, धीरगली, चकमालूर चौराहे से इमली बाजार चौराहे तक, निराला हनुमान मंदिर, पिठुज मण्डल कालोनी, रेल कालोनी, जुना तुकोगंज, हेमील्टन रोड, पोलो ग्राउण्ड विद्युत माइल कालोनी, अहिल्याश्रम, सिख मोहल्ला, रेले कालोनी, होटल कोहीनूर, सिख मोहल्ला, न्यू सियांगंज, मेवाती मोहल्ला अल्का दाकीज, इमली बाजार, एम जी रोड, फड़नीस काम्पलेक्स, गांधी हाल, एव चतुर्सीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	छोटी कुहार खाड़ी नाले होते हुए रेल्वे ट्रैक लक्ष्मीबाई नार तक जेल रोड से अहिल्या श्रम ब्रिज नाले तक जेल रोड से अग्निवा प्रेस, विमनबांग चौराहा से जेलरोड मेवाती मोहल्ला, सिख मोहल्ला तिराहे से उद्दू स्कूल चूू सियांगंज वी आय फी रोड से शार्ती अंडर ब्रिज फायर ब्रिगेड ब्याटर्स तक	शार्ती अंडर ब्रिज एम जी रोड कोहीरी मार्केट से नार्थ कमाटीपुरा, एम प्र० एफ. होते हुए पोलोग्राउण्ड चौराहा से टी.एस.आई. हॉस्पिटल मरीमता चौराहा से मुक्तिधाम नाला होते हुए बादल का भट्टा से छोटी कुमार खाड़ी तक	

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित बाजार				चतुर्सीमा
		1	2	3	4	
58	इमली बाजार	एम.ए.एफ. पुलिस लाईन, गफूर खां की बजारिया, बड़वाली चौकी, शिव विलास पैलेस, सुमाष मार्ग मेन रोड, साउथ कमाठीपुरा, नार्थ कमाठीपुरा, बदशीबाग, बदशीबाग एकसंदर्भान, सिचाई कालीनी, बाजार योक, कुंवर मण्डली, खजुरी बाजार योक, योकनी कोटी, जूना मार्ग, गरीब नवाज वाली ईदगाह सदर बाजार के पास नाले किनारे शिथी मोहल्ला, मराठी मोहल्ला, अहिला पल्टन, नार्थ बजारिया, हरीम जी का बगीचा, सदर बाजार पूर्व, सदर बाजार, सदर बाजार मेन रोड, सदर बाजार मेन रोड परिचम तरफ, इकबाल कालोनी, एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	ब्रह्मबाग पुलिया से बरीमाला होते हुए पोलोग्राउण्ड चौराहे पोलोग्राउण्ड चौराहे से नारायण बाग पोलोग्राउण्ड चौराहे तक तिराहे से तिलकपथ रोड से नार्थ कमाठी रोड से नार्थ कमाठी रोड तिराहा, मार्टिंग चौक, इमली बाजार से राजबाला	राजबाला इमामबाड़ा होते हुए सरफा नानारी दुकान से खजरी बाजार रोड होते हुए गोरकुंड जूना पीठ रोड तक	खजुरी बाजार रोड से बड़वाली चौकी, जूना पीठ होते हुए रिसाला दुधधारी का बगीचा, साउथ गाडरा खेडी, ब्रह्मबाग पुलिया नाले से मरीमाला तक	पश्चिम
59	हरसिंही	प्रिस यशवंत रोड, कानूनगो बाखल, रेशम बाला लेन व कायाउण्ड, पंडरीनाथ पथ, आडा बाजार, लक्ष्मी गली, साल्की बाखल व ताजी कुंवर, नदलालपुरा, जवाहर मार्ग शनि मंदिर के पीछे, नंदलाल मेन रोड, सब्जी मार्गी, वीर सांचेकर मार्केट, एम.जी.रोड व राजबाला चौक, रामलक्षण बाजार, निहालपुरा, गोतमपुरा, राजेश नगर, हरसिंही मंदिर के पास, नार्थ हर सिंही बगीचे के पास पानी की टक्की पुलिस चौकी के पास, मोती तबेला, कोयला बाखल मुनार की बगीचा, हरिजन छात्रावास, बारखेली, मिल्लत नगर, शेखर नगर एवं नई बस्ती, कलेक्टर कार्यालय मेन रोड एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	खजुरी बाजार से एम.जी.रोड होते हुए जूने रोड होते हुए रोड चौराहे से खारीपुरा रोड चौराहे तक से संजय सेतु से जवाहर मार्ग ब्रिज से नदलालपुरा सब्जी मंडी चौराहा से नदलालपुरा मेन रोड से चान्द्रमाला पुल तक आलापुरा बाल निकेतन होते हुए जैन स्पीट्स मार्गी तबला तक	एम.जी.रोड जैल रोड कलेक्टर गर्जी कल्याणगढ़ से जै.जी.सी. जययरम पुर पुलिया तिराहा तक	जै.जी.सी. तिराहे से जययरम पुर पुलिया तिराहा से नाले होते हुए छत्रीबाग पुलिया से माइनपुरा जवाहर मार्ग पिल्टी बाजार से चौराहा से माइनपुरा जवाहर मार्ग पिल्टी बाजार से राजबाला	पश्चिम
60	रानीपुरा	जवाहर मार्ग, कोटी समाज की धर्मशाला से सियाज पुलिस चौकी, सियाजंज, वैयर हाउस रोड, महेश जोशी नगर, रानीपुरा मेन रोड, मेहतानी मार्केट, जगनीवनसराम नई बागड, सियांगंज मेन रोड रेल्वे लाइन तक छोगलाल उत्ताद मार्ग एवं सत रविदास मार्ग, खारीपुरा मेन रोड, नार्थ तोड़ सम्पूर्ण, राउथ तोड़ सम्पूर्ण, दौलतगंज सम्पूर्ण, यमालाग सम्पूर्ण, कबुलखाना, एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	शारीरी अंडर ब्रीज रेल्वे ट्रेक से शारीरी ब्रीज रेल्वे लाइन तक जूनी इन्दौर मुक्ती द्वारा होते हुए, महल कबीरी चन्द्रमाला अंडर हरसिंही बाजार ब्रिज तक	हरसिंही अंडर ब्रीज रेल्वे ट्रेक से पटेल ब्रीज से बड़ा मुक्तीधाम से बड़ा रिसाला होते हुए, महल कबीरी इन्दौर मुक्ती द्वारा होते हुए प्रेमसुख ब्रिज से सजय सेतु से खालीपुरा दौराना से एम.जी.रोड जैलरोड चौराहा से चौराही पुरा दौराना से एम.जी.रोड जैलरोड चौराहा तक	पश्चिम	

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित ज़े	चतुर्भुजी				
			3	4	उत्तर	पूर्व	दक्षिण
1	2						
61	तात्या सरखटे	जबरन कालोनी सम्पूर्ण, पणगनीस पाणा, जूनी इन्दौर थाना पुलिस क्वार्टर, आलापुर, बायातल कालोनी, गोधा कालोनी, तात्या सरखटे, भाट मोहल्ला, भीमगंगी गली, चन्द्रभाग मेन रोड पश्चिम साईड कमला रोड, मरिमाता का बगीचा, कलूखांचा का बगीचा, प्रकाश का बगीचा, खण्डगोविंद का बगीचा, बलई मोहल्ला/कटकटपुरा सम्पूर्ण एवं मेन रोड, मोमिनपुरा, एवं चतुर्भुजी में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	मोती तबेला से चन्द्रभाग, राजीवजार फटक से जूनी इन्दौर ब्रिज तक कसिंग तक	गाडी अड्डा, रेल्वे फटक से जूनी इन्दौर ब्रिज से मोती तबेला	जूनी इन्दौर ब्रिज से माणिक बांग औरहे से मोती तबेला जैन मिठाई तिरहे तक	गोती तबेला	
62	रावड़ी बाजार	रावड़ी बाजार, जगजीवनराम मोहल्ला, कुमावतपुरा, गाडी अड्डा, ब्रह्मचारी बगीचा, हिरिजन मोहल्ला, शोपड पट्टी एवं रेले पट्टी के पास, मुराई मोहल्ला, हथीपाल मेन रोड, माली पुरा, व्यास फला सम्पूर्ण, शिनिगली मेन रोड, चन्द्रभाग मेन रोड, कलाली महल कचहरी, गोणश मार्ग, हार्डिंग कम्पाउण्ड, श्रद्धानन्द मार्ग मेन रोड, कलाली मोहल्ला, तुनियापुरा, लोहामण्डी मुख्य मार्ग, अनाज मार्ग, पचवशील नगर, पठान मोहल्ला, नरसिंह टेकरी जगजीवन राम मोहल्ला, केसर बाई का बगीचा एवं चतुर्भुजी में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	चन्द्रभाग ब्रिज से बड़ा रावड़े होते हुए जूनी इन्दौर मुकरीधाम रेल्वे अड्डर ब्रिज से नक्सीया रोड श्रद्धानन्द मार्ग से छावनी चौराहा	छावनी चौराहा से जगन्नाथ पुलिया से कलाली मोहल्ला इन्दौर ब्रिज से नक्सीया इत्या खूब से पटेल नगर तक	छावनी चौराहा से सिर्फी कालोनी, साधू वासवानी नगर, न्यू लोहामण्डी रेल्वे लाइन, कटकटपुरा, रावड़ी बाजार पुलिया थाना से बलाई मोहल्ला	चन्द्रभाग बिज	
63	नवलखा	जानकी नगर, स्नेह नगर, न्यू पटेल नगर, छावनी से अग्रसेन मुख्य मार्ग के पास शंकरबाग ब्रिज, केशरशर्ह बगीचा, अग्रवत नगर, ए.बी.रोड इन्दौर प्रतिमा के पास बंगली वल्ब से छावनी जगनाथ ब्रिज के पास, अग्रसेन चौराहा मुख्य मार्ग, पारसी मोहल्ला, बजाज शोरुम संगीता, नवलखा बस स्टेंड से विशाल टावर तक, गुल मोहर काम-लेवर्स, विकास टावर, रामकृष्ण टावर, हर्षदीप टावर, विसर्जन अश्रम, बंगली वल्ब, इन्दौरा प्रतिमा ए.बी.रोड, जगन्नाथ ब्रिज, शुक्रल कम्पउण्ड यादव कम्पाउण्ड, प्रकाश हाफी वल्ब क्षेत्र, सिरेमल बफना होरस्टल ए बी रोड, प्रेसिजन टावर, श्यामाचरण शुक्रल नगर, एवं चतुर्भुजी में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	कलाली मोहल्ला नाले से छावनी जगनाथ स्कूल पुलिया, छावनी स्कूल चौराहे से जी पी ओ चौराहा तक	जी पी ओ चौराहे से स्कूलीय संस्कृत शिक्षा वल्ब, रेसिडेंसी वल्ब से आजाद नगर चौराहा तक	संवाद नगर पुलिया से नवलखा बी एस हाईट, होल्कर कालोनी सर्वेदय नगर होते हुए विद्या नगर होते हुए संपना संगीता रोड तक	संपना संगीता रोड से नवलखा बी एस हाईट, होल्कर कालोनी, सर्वेदय नगर होते हुए विद्या नगर होते हुए कलाली मोहल्ला नाले तक ।	

वार्ड वार्ड का नाम		वार्ड में समाहित १		चतुर्सीमा	
1	2	3	4	उत्तर	पूर्व
				दौंवर चौराहा विधा नगर, जानकी नगर होते हुए नयलखा चौराहा से संवाद नगर पुतिया तक	संवाद नगर पुलिया नाले से तीन इमली पुलिया नाले तक तीन इमली से तिं रोड पवनपुरी तिराहे की सीमा ।
64	चितावद	नदनवन कालोनी, खण्डेलवाल नगर, संवाद नगर, प्रकाश नगर, शिवकृपा कालोनी, साजन नगर, नेमावर रोड, शुल्का कम्पाउण्ड, यादव कम्पाउण्ड, मिलत कम्पाउण्ड, जवाहर दाल मील, कौशल्या पुरी, जगन्थगाल, अनंद नगर, आनंद एकसटेशन, मंगलमूर्ति नगर, गजाधर नगर, गुलमोहर का बगीचा, शिवमोती नगर, बी जे विहार, राधा स्वामी नगर, चितावद, त्रिपुरी कालोनी भवरकुआ चौराहे से आसाराम बापू चौराहे तक, आटस एण्ड कामर्स कालोनी, त्रिवेणी नगर नई बस्टी, तीन इमली चौराहे से आशाराम बापू चौराहे तक, अभिन्य नगर, चितावद कांकड़, नमदा नगर, लालबहादुर शास्त्री नगर, पंवार नगर, पवनपुरी, अकस्तरखण कालोनी, गुलमोहर का बगीचा, विष्वविद्यालय प्रांगण, अंकुर आवास गृह निर्माण एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	दौंवर चौराहा विधा नगर, जानकी नगर होते हुए नयलखा चौराहा से संवाद नगर पुतिया तक	नेमावर रोड से चितावद खण्डवा रोड आई इ कांकड़ होते हुए खण्डवा टी से भंवरकुआ होते होते हुए नयलखा टी कोलेज हुए विद्यानगर तक तक एवं पलदा गाँव होते हुए नेमावर रोड तक	
65	संत कवरराम	खातीवाला टेंक, खातीवाला टेंक एम-आर, साधु वासवानी नगर हरिजन कालोनी, न्यू लोडा मण्डी, बापू नगर, देव श्री टाकिन के पास जगहिन्द नगर, जगति नगर, तिमु नगर, बैराठी कालोनी बीके सिस्थी कालोनी सम्पूर्ण, दीर सावरकर नगर सम्पूर्ण, जीवनदीप कालोनी, स्कैम नं. 31, जोशी कालोनी, पुलिस कार्टर जूनी इन्ड्रा धाना, साधु बंसत कालोनी, प्रोफेसर कालोनी के ऊपरे एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	हरिजन कालोनी, गाड़ी अड़ा	पचशील नगर, पटेल नगर, सपना सभाता मेनरोड	सपना सभाता सिनमा, टॉवर चौपहा युवासित नगर, एस.वी.आई. वैक. वी.एस.एन.एल कालोनी से माणिक बान ब्रिज । हरिजन कालोनी गाड़ी अड़ा।
66	शहीद हेमू कालानी	प्रताप नगर, गोपाल बाग, बारामद्दा राजाबाग, गुरुनानक कालोनी, करबला मेदान, घोषीघाट, मालवा कन्था कैम्पस हेमसन कालोनी, वासुदेव नगर, लालबग मेन रोड, लाङ्डकाना नगर, प्रेम नगर सेक्टर ५.बी.सी., पलसीकर कालोनी, दुबे कालोनी, साधु नगर, जयश्री सिडिकेट कालोनी, आदर्श नगर, जयेहरी कालोनी, माणिकबग पुल के नीचे स्कैम नं. 71, व्यक्तेश मार्केट, रुपराम नगर, त्रिवेणी कालोनी, राजमहल कालोनी, माडल विलेस कालोनी, ऐलेस कालोनी, औरेज कन्ट्री, आदर्श नगर लालबग लाईन,	लाल बाग ऐलेस आर. टी. ओ. रोड तिराहे से हेमुकलानी तिराहा से जूनी इन्ड्रा ब्रिज तक ऐलेस माणिक बाग रेले पटरी तक	सोनकर समाज लाल बाग बद्री बाग नाले से से बद्रीबाग नाले तक होते हुए, राजमहल कालोनी पुलिया से इन्ड्रा ब्रिज रेले पटरी से माणिक बाग रेले पटरी तक	

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित		चतुर्सीमा			
		3	4	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
67	महाराजा होलकर	छत्रीधार, प्रेमकुमारी हारपीठ, चौंदमारी कथाउण्ड, प्रेमकुमारी हॉस्पिटल परिसर सत्यम कुडाय धाट, छत्री बाग, शिवम सुन्दरम् अपाटमेन्ट, कंजर मोहल्ला, छत्रीपुरा थाना, महानूका, छत्रीबाग पुलिस लाईन, राजद्वारा मार्ग, जोशी मोहल्ला, बाराभाई, सेठी नगर, लोधा कालोनी, राजस्व ग्रान, छत्रीपुरा, राजगूत समाज बाबीया, जयपत्रमुख कालोनी, काटू कालोनी, जमना नगर, जवाहर नगर, जमना नार झोपड पट्टी, अर्जुन पुरा मल्टी स्टोरी एवं झोपड पट्टी, सम्पूर्ण बाल्दा कालोनी एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	पुलिया	जी.डी.सी. कर्बल ब्रिज सरसवी नदी, जयपत्रमुख, पुलिया से जी.डी.सी. तिरहा तक	गणगोर धाट, होते हुए महू नाका चौराहा	जी.डी.सी. कर्बल ब्रिज होते हुए महू नाका चौराहा	बद्दी बाग नाले से होते हुए, राजमहल कालोनी पुलिया से आरटी.ओ.रोड, लालधार तिरहे तक
68	बर्खई बाजार	माहनपुरा, बर्खई बाजार, जवाहर मार्ग मेन रोड, आगर होटल, जुदापुरा, मुकेरीपुरा, पिंजरा बाख्तल, कड़वधाट, इसाक फहलायन की चाल, रोशनपुरा, मच्छी बाजार, नयापीठ, सिलावटपुरा, टाट्पट्टी बाख्तल, कागदीपुरा, सम्पूर्ण रविवासपुरा, कागदीपुरा मार्ग, मेन रोड, कंडेल दुकान याली, लायमंड स्टेशनरी से हकीमी लालश तक एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	लक्षण बाजार, बर्खई बाजार चौराहा योगजखाना चौक, पीपली बाजर जवाहर मार्ग	सांठा बाजार, बर्खई बाजार चौराहा योगजखाना चौक, पीपली बाजर जवाहर मार्ग	लक्षण बाजार, मर्ढी बाग नाले से होते हुए, छत्री बाग नाले से गणगोर धाट से राजस्व ग्राम तक	राजस्व ग्राम, बिधानी मेन रोड, बाजार चौराहा योगजखाना चौक, पीपली बाजर जवाहर मार्ग	बिधानी मेन रोड, जंगमपुरा तिरहा लोधी पुरा, नरसिंह बाजर चौराहा, जपार मार्ग
69	जवाहर मार्ग	लोहार पट्टी मेन रोड, मालांज भ्रातसिंह मार्ग, ओरेल राजमोहल्ला, लोधीपुरा, जगमपुरा, बिधानी धार रोड, इतवारिया बाजार, नृसिंह बाजार, इकमचंद मार्ग, नलिया बाख्तल, दलाथ मार्कट, सितलमाता बाजार, शक्कर बाजार, मोरसली गली, पिपली बाजार, बालाज खाना, साठा बाजार, मारोटिया बाजार, बोहरा बाख्तल, धानगली बजार थाना, छोटा रसपा, महावीर मार्ग, मोलाना आजाद मार्ग, साऊध राजमोहल्ला, गुलाबपार्क कालोनी, महेश नगर, भक्त प्रहलाद नगर, चू. महेश नगर, गिरधर नगर, मोलाना आजाद मार्ग, यद्यमान नगर, लालगंज जवाहर मार्ग, सामजवाद नगर तथा पुष्कर रोड, वर्धमान नगर, लालधार भरु भारत पेट्रोल पम्, एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	आंतिम चौराहा, केलाश खुजुरी बाजार मेन रोड, गोरकुण्ड चौराहा,	राजवाडा, कानूनी बाख्तल, सें जवाहर मार्ग, पिपली बाजार, मोहन पुरा, बांधा बाजार, मुकेरीपुरा, सिलावट पुरा, दाटपट्टी बाख्तल, बालादार कालोनी,	महू नाका चौराहा राजवाडा, लोहास्टर्टी, राजमोहल्ला चौराहा हरिजन कालोनी, गिरधर नगर से पंचकुईया मुकिताम रोड तक	महू नाका चौराहा से एम.आ.जी. लाईन्स, लवरिया भेफ, राजमोहल्ला चौराहा हरिजन कालोनी, गिरधर नगर से पंचकुईया मुकिताम रोड तक	

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित				चतुर्सीमा	
		3	4	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2						
70	लोकनाथक नगर	राजमोहल्ला, हरिजन कालोनी, गुलाब बाई का बरीचा, सुल्काखेड़ी, आदर्श इदिरा नगर मेन रोड, चादमारी इट भट्टा, गणबाई जोशी नगर, लोकनाथक नगर समूह, पंचमूर्ति नगर, हरिओम नगर, जलाशम नार, श्रीकृष्ण कालोनी, श्रीहरि सासायटी, लावरिया भेरु घार रोड से अपना पैलेस उत्तरी भाग, खालसा रुक्ल कालेज परिसर समूह पिछे कोने महेश नगर गुलाब पार्क, लाईन्स वैज्ञानिक कॉलेज तक, माली मोहल्ला समूह, माली मोहल्ला झोपड़ पट्टी, लावरिया भेरु जी एन टी मार्केट, धार रोड किमती गार्डन से गड़रिया मोहल्ला, गिरधर नगर, रामकृष्ण बाग, टिच्चर मार्केट, धार रोड एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	रामानंद नगर, इंद्रिया लावरिया भेरु चौराहा, समाजवादी इन्द्र नगर, चादमारी बस्ती स्कूल, वलाय मर्केट, एम.ओ.जी. हास्पिटल, एम.ओ.जी. नं. 71 होते हुए धार लाईन्स वैज्ञानिक कॉलेज	लावरिया भेरु चौराहा, समाजवादी इन्द्र नगर, चादमारी बस्ती स्कूल, वलाय मर्केट, एम.ओ.जी. नं. 71 होते हुए धार रोड तक।	गंगा कॉलोनी, रामानंद नगर		
71	द्रविड नगर	द्रविड, नगर, द्रविड नगर पुलिस लाईन, विचकमा नार, बैंक कालोनी, उषानार मेन, उषानगर एक्सटेंशन, समाजवादी इविरा नगर समूह, चत्तिरक नार, एम.ओ.जी. लाईन, इन्द्रौर नेव विकिल्टाल, वलाय मर्केट हास्पिटल, गणवाल बस स्टैण्ड, चांदमारी कम्पाउण्ड, एम.ओ.जी. लाईन, नाकोड़ा पैलेस, श्रीनाथ टॉवर, मुमायपतन केंद्र परिसर, केंद्र आसपास हाऊसिंग बोर्ड के सभी अपार्टमेंट एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	कर्सरूर सिनेमा, लावरिया एम.पी.ई.बी. ऑफिस भेरु चौराहा से होते हुए से सराफा रुक्ल, महावर नगर एम.पी.ई.बी. ऑफिस कर्सरूर सिनेमा, लावरिया एम.पी.ई.बी. ऑफिस भेरु अनन्धूरा पानी की टंकी तक	सुदमा नगर मेन रोड सुदमा नगर पोस्ट ऑफिस, शासकीय अंत्रिदेवी स्कूल, विश्वाम बाग, रक्षीम नं. 71, मिल्क कालोनी, टिच्चर मार्केट, माली मोहल्ला होते हुए धार			
72	लोकनाथ नगर	महावर नगर, ऐच्यू नगर, निधि विहार चारह बंगले, श्री रामनार मॉडल टाउन कालोनी, सविदानद नगर, इन्द्रनगर, मधुबन कालोनी, मून पैलेस कालोनी, विनय नगर, पार्वतनाथ नगर, यादव नगर, कुंजवन कालोनी एवं बसंत विहार कालोनी, लोकनाथ नगर एक्स, नेमिनगर मेन, नेमिनगर एक्स, केसरबाग रोड, सिद्ध कालोनी, दशहरा भैदान निचली बर्ती, अंतकर पैलेस, सिल्वर पैलेस, जोहरी पैलेस, एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	मधु नाका चौराहा, लाल बाग आर टी और रोड बाग आर टी और रोड तिराहा तक	गायत्री नगर रेल्वे फाटक से आर टी और आर टी और रोड बास क्रांतिकृपतली गेट कालोनी तिराहा से अनन्धूरा पानी तिराहा एवं अयुवदीक कालोनी, रेल्वे पटरी होते हुए गायत्री मदिर रेल्वे क्रासिंग तक	अनन्धूरा रोड, यूनिक हास्पिटल उषा नगर एक्सटेंशन, उषा नगर महू नाका चौराहा		
73	लक्षणसिंह चौहान	खातीवाला टेंक बी.एस.एन.एल.कालोनी एवं सैफी नगर वाले भवन, जयसवाल की चाल, नूरी नगर, गुलजार कालोनी, चू सैफी नगर एवं फड़नीस कालोनी, विजय पैलेस (नगर), नंदवन कालोनी, नूरी कालोनी, गुलजार कालोनी, चू सैफी नगर, बुकवाण बुकवाण कालोनी, अशोका कालोनी, पूर्णदास का बरीचा, स्कूल नं. 102, श्याम नगर, सैफी नगर मेन एवं सैफी नगर झोपड़ पट्टी, घनश्यामदास नगर, लाल बहादुर शास्त्री नगर, फखरी मजिल, कुबुली मजिल, मोहम्मदी मजिल, बदीबाग, एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	खातीवाला टेंक रोड, चौइथराम ब्रीज से नाले द्रास्पार्ट एन.एल. व्याटर रोड, खातीवाला मेनेकिन नगर मेन टेंक	खातीवाला टेंक रोड, चौइथराम ब्रीज से नाले द्रास्पार्ट एन.एल. व्याटर रोड, खातीवाला मेनेकिन नगर मेन टेंक रोड गुरुद्वारा होते हुए ओ. रोड तक चौइथराम ब्रीज तक	इंदिया गांधी नगर आर.टी.आर.रोड होते हुए रेल्वे ट्रेक तक लोकमान्य नगर, आर.टी.गजमहल कालोनी पुलिया से नाले होते हुए रेल्वे ट्रेक तक, रेल्वे लाईन से आणक बाग ब्रीज तक।		

बार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित	चतुर्सीमा				
			3	4	उत्तर	पूर्व	दक्षिण
74	विष्णुपुरी	आनंद नगर टावर चौराह के पास, गुरुमीत नगर, शहीद भगतसिंह कालोनी, आनंद नगर, पिपलायापाला मेन रोड बंशीधाम, अशोक नगर, विधा नगर, होल्कर कॉलेज से भवर कुँआ चौराहा, इन्द्रपुरी, अनंतपुरी, अहिल्यापुरी, शिवमपुरी, निराचर नगर, मंगल नगर, आदित्य नगर, पिपल्यापाव, सर्वनन्द नगर, नानक नगर, नानक पेलेस, हररामपिंद नगर, भोलाराम, उत्ताद मार्ग, अंविकापुरी, जगनाथपुरी, बंशीधाम पिपल्यापाला गांव मेन चौराह, फ्रेकेसर कालोनी दुए राधास्थामी व्यास नगर, रोड, राहुलगांधी नगर, भवर कुँआ थाना से सोयाबीन केम्स, सोनियांगांधी नगर, भोला पटेल नगर सपना संगीता मेन रोड जीत नगर एंव चतुर्सीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	द्रासपोर्ट रोड से खातिवाला टेंक, सेनिनगर एस.बी.आई. बैंक कालोनी, होल्कर कालोनी, टालाब, रिजनल पार्क, भवरकुआ चौराह होते चौराहम चौराह रोड तक	अमरवाल नगर, भगवनर्दीन नगर, होल्कर कालोनी, टालाब, रिजनल पार्क, भवरकुआ चौराह होते चौराहम चौराह रोड तक	कृष्णोदय नगर, संतनगर, पिपल्यापाल तालाब, रिजनल पार्क, भवरकुआ चौराह होते चौराहम चौराह रोड तक	चौइथराम चौराह, चौइथराम अस्ताल से माणिक बाग पुलिया से ट्रांसपोर्ट नगर, रोड तक	
75	पालदा	पालदा गांव समूह, मुण्डला नायता समूह एंव चतुर्सीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	खंडवा रोड चितावद कांकड होते हुए, नेमावर सीमा रोड, पवनपुरी, छवोग नगर, भगवतीनगर, धनतक्षी नगर, देवगुराडिया ग्राम सीमा	खंडवा रोड चितावद कांकड होते हुए, नेमावर सीमा रोड, पवनपुरी, छवोग नगर, भगवतीनगर, धनतक्षी नगर, देवगुराडिया ग्राम सीमा	सनावदिया गांव की सीमा, लिम्बोदी गांव की सीमा, खंडवा रोड चितावद कांकड तक	रालामंडल की सीमा, मिर्जा पुर गांव की सीमा ।	लिम्बोदी गांव की सीमा, खंडवा रोड चितावद कांकड तक
76	मुण्डला नायता	बिचोली भद्रना गांव समूह, बिचोली हस्ती गांव समूह, टिराडिया गांव समूह, कनाडिया गांव समूह एंव चतुर्सीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	ओमेक्स सिटी खंडी खंडी, बेन खंडी गांव की सीमा	रामगढ गांव, बडिया देवगुराडिया	धनतक्षी नगर, शिवनगर, संजना पार्क होते हुए बिजली नगर, मोर्या हिल्स से कनाडिया मेन रोड बाय पास होते हुए ओमेक्स सिटी		

बार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित १	चतुर्सीमा				
			३	४	उत्तर	पूर्व	दक्षिण
77	बिलावली	एकता नगर, कुशवाह का बगीचा, संत नगर पैलेस, संत नगर, गणेश नगर, फुटपाला के समने कुण्डोदय नगर, राजीवगांधी सर्कल पुलिया से एम.आर.३ रोड तक, मा विहार कालोनी, अमर पैलेस, महादेव नगर शिफ्टिंग वाले मकान, लिम्बोदी गांव समूह, बिलावली गांव समूह, फतानखेड़ी गांव समूह, केलोद करताल गांव समूह एवं चतुरसीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	चोइथराम चौराहा से पिपलताला तालाब परिवापाला तालाब रोड जीत नगर से राहुल गांधी नगर होते हुए खेड़ा रोड से राघा स्वामी सत्सग चास, पालदा गांव की सीमा तक ।	मुडला नायता की सीमा, राता मण्डल, निर्जा पुरु गड्ढी, संजयनगर, इकमाखेड़ी, बिलापुर, तेजपुर गड्ढी, पुल ए बी रोड से चौइथराम चौराहा	मोरद गांव, मांचल, निहलपुर मुडी, संजयनगर, इकमाखेड़ी, बिलापुर, तेजपुर गड्ढी, पुल ए बी रोड से चौइथराम चौराहा		
78	चोइथराम	राज टाउनशिप, होल्कर अपार्टमेंट ब्लाक ए, बी, सी, स्वामी दयानन्द नगर, चोइथराम अस्पताल परिसर रकीम नं. ५९ अमितेश नगर, बंसत पुरी, गोठ्बन पैसेटे, फलवाण क्षेत्र, नालनदा परिसर, केसर बाग रोड, सारनाम कालोनी, युध्यम रेडीहेड़ी, बिलापुर, तेजपुर गड्ढी, ए.बी.रोड, इद्रजीत नगर आई.टी.ए. कालोनी, इद्रजीत नगर झापडे, रखीम नं. १०४, गोधा कालोनी, च्यु. प्रकाश नगर सज्जीमण्डी, फुलपुर गड्ढी, बोलिया सरकार बगला, महादेव नगर राजारानी नगर रंज पाईन्ट, लमन फृजरी मार्टेंड एवं समस्त की पट्टी, भीम नगर गंदी बस्ती, नेमा नगर, बिलापुर गंदी बस्ती, नर्मदा कन्द्रोल रुम से अर्जुन नगर तक अजुन नगर बस्ती, छापरी गांव, गणगांव नगर, मार्टेंड नगर, पवनपुर नगर एवं चतुरसीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	आयुर्विदिक कालेज, रेल्वे लाइन से नाले होते हुए से चौइथराम चौराहा होते हुए ए.बी.रोड से रेल्वे लाइन चोइथराम पुलिया तक तेजपुर गड्ढी पुलिया गड्ढी मुक्तिघाम, मार्टेंड नगर होते हुए विजलपुर स्कूल तक	चोइथराम नाले पुल चौराहा से चौइथराम चौराहा होते हुए ए.बी.रोड से रेल्वे लाइन होते हुए राजेन्द्र लाईन होते हुए आयुर्विदिक कालेज रेल्वे पटरी तक			
79	सुख निवास	सुख निवास गांव समूह, अहिखेड़ी गांव समूह, हुखाखेड़ी गांव समूह, निहलपुर मुडी गांव समूह एवं चतुरसीमा में समाहित समस्त आवादी क्षेत्र।	बॉक गांव, सिरपुर तालाब, हवा बंगला सुखानिवास रोड केट चौराहा से रेत मंडी चौराहा, रेल्वे लाइन ए बी रोड क्रास करते हुए श्री विठल मंदीर होते हुए बिलावली गांव तक	बिलावली फतानखेड़ी, कैलोद करताल सिटी शिवसिटी ए बी गांव सीमा तक रोड, रेल्वे लाइन क्रास करते हुए सिदेंडा गांव तक			

वार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित		चतुर्सीमा		
		1	2	3	4	
		उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	
80	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	राजेन्द्र नगर सम्पूर्ण, रेले ब्यार्टर, कृष्ण नगर, महाना नगर अवैध बरसी, प्रांति नगर के ग्रेटर वैशाली चौराहा, से याणक्यपुरी चौराहे से दक्षता नगर रेल्वे पटरी केट चौराहे से सु एक दूधियी चौराहा ५.बी. से रेत मड़ी चौराहा होते हुए निवास रोड होते हुए घोषित गटी बरसी, जयाहर नगर, राजेन्द्र नगर, प्रांति नगर, पाराशर नगर, धनवंतरी नगर, तिवारी नगर, च्वार्ड सेलेस कालोनी, विजान नगर, धनश्री नगर, वी आई पी परस्पर रिंग रोड के पूर्वी साईड विशाल नगर, अहिला नगर, भोज नगर, वैशाली नगर सेल्टर सम्पूर्ण, सुरदर्शन नगर, ब्रजपिंहर कालोनी, सिंहपुरम, तक्षशिला परिसर, सांदीपनी कालोनी, पुतिस लाईन, शासकीय महिला पोलेटकनिक, जिला शिक्षा केंद्र लाईड परिसर भोज मुक्त पिंडि, राजेन्द्र नगर नाका, एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	चाणक्यपुरी चौराहा, अन्नपूर्णा रोड, अन्नपूर्णा भेंस रोड, इन परस्पर चौराहे से ग्रेटर वैशाली नगर सेल्टर ई ग्रेटर हुकाखेड़ी सीमा तक रोड होते हुए ग्रेटर वैशाली चौराहे तक	दक्षता नगर रेल्वे पटरी केट चौराहे से सु एक दूधियी चौराहा ५.बी. से रेत मड़ी चौराहा होते हुए एक एटेल पम्प तक होते हुए केट चौराहे होते हुए ग्रेटर वैशाली चौराहे तक	दक्षता नगर रेल्वे पटरी केट चौराहे से सु एक दूधियी चौराहा ५.बी. से रेत मड़ी चौराहा होते हुए एक एटेल पम्प तक होते हुए केट चौराहे होते हुए ग्रेटर वैशाली चौराहे तक	
81	अन्नपूर्णा	गोपुर एक्सटेंशन, ग्रेटर वैशाली, सूर्योदय नगर सेल्टर सम्पूर्ण, डाक्टार कालोनी, सिंहपुरम कालोनी, गोपुर कालोनी, गोपुर कालोनी, मिश नगर, अन्नपूर्णा नगर, भवानीपुर कालोनी, गोडबोले कालोनी, अन्नपूर्णा परिसर, कातिकृपालानी नगर, जनसेवा नगर, गरीब बरसी पटटे वाली, देवद्र नगर दो गिटटी खदान, गायत्री नगर, प्रयु नगर, तसरवती नगर, सिल्वर आकस कालोनी, चाणक्यपुरी, उमेश नगर, नर्मदा नगर, एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	दशहरा मैदान	मनू पैलेस कालोनी, पिनय नगर, पार्श्वनाथ नगर, अलंकर पैलेस, आर चौराहा रिंग रोड, बुद्ध नगर होते हुए सुख निवास रोड	दधीची चौराहा रेल्वे क्रांकिंग चाणक्यपुरी चौराहे से ग्रेटर वैशाली नगर सेल्टर ई ग्रेटर वैशाली चौराहा, नगर सेल्टर ई ग्रेटर वैशाली चौराहा, नगर होते हुए सुख निवास रोड	सुख निवास रोड, हवा बंगला, सुदमा चौराहा रेल्वे क्रांकिंग चाणक्यपुरी चौराहे से ग्रेटर वैशाली नगर सेल्टर ई ग्रेटर वैशाली चौराहा, नगर होते हुए सुख निवास रोड
82	सुदमा नगर	सुदमा नगर सेल्टर ई, सुदमा नगर चौरसिया सेल्टर, सुदमा नगर सेल्टर ई, रिंग रोड, द्युगी झोपड़ी, सुदमा नगर, एन.पी. सेल्टर, सम्पूर्ण सुदमा नगर ई सेल्टर, शान्तिनाथपुरी, श्रीराम नगर, परिवहन नगर, गुरुशंकर नगर एवं चतुर्सीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	फूटी कोटी, रिंग रोड, अन्नपूर्णा मंदिर, गोडबोले कालोनी से अन्नपूर्णा रोड तक	ग्रेटर वैशाली नगर, भवानी नगर, अन्नपूर्णा नगर, प्रिकांको कालोनी से ग्रेटर वैशाली नगर सेल्टर ई ग्रेटर वैशाली चौराहा, नगर तक	अहिरखेड़ी गंगा और सीमा, ऋषि पैसेस, न्यू द्वारकापुरी से फूटी कोटी तक	

चार्ड	वार्ड का नाम	वार्ड में समाहित चौथुःसीमा	चौथुःसीमा			
			1	2	3	4
83	गुमाशता नगर	गुमाशता नगर समूह, स्कीम नं. 71 सेक्टर ६ / भी / सी / डी, सेल टेक्स कॉलोनी, सुदामा नगर सेठी गोट, नहावीर गोट के आसपास का क्षेत्र, सुदामा नगर ए सेक्टर, एवं चतुःसीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	धार रोड चंदन नगर चौराहे से गंगा कालोनी पुलिया तक	उत्तर धार रोड चंदन नगर कालोनी, चाक्मांगी वरसी, दीविड नगर हनुमान मदिर से नरेढ़ तिवारी मार्ग नगर पानी की टकी तक	पूर्व कीमती गाईन, निक्की सुदामा नगर सेक्टर ई एवं ई वरसी, दीविड नगर हनुमान मदिर से होते हुए रणजीत हनुमान मदिर से होते हुए विष्णुकर्मा नगर पानी की टकी तक	पश्चिम ग्याला कॉलोनी होते हुए रिंग रोड से चंदन नगर चौराहा तक
84	झारकापुरी	झारकापुरी समूह, न्यू छारकापुरी, ग्याला कालोनी और रिंग रोड के झापडे, एवं चतुःसीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	छोटा सिरपुर तालाब	स्कीम नं. 71 सी एवं कोठी, सेक्टर फुटी कोठी, सुदामा नगर सेक्टर ई	परिवहन नगर, धार रोड से वर्तमान नगर होते हुए छोटा सिरपुर तालाब	प्रजापत नगर, ऋषि पेतेस, साईबाबा नगर होते हुए छोटा सिरपुर तालाब
85	प्रजापत नगर	प्रजापत नगर समूह, आकाश नगर, छोटा सिरपुर तालाब के पास, श्रद्धा सधुरी, ऋषि विहार कालोनी, ऋषि पेतेस कालोनी, आरथा पेतेस, वधमान नगर, बड़ा सिरपुर तालाब, साई बाबा नगर, एवं चतुःसीमा में समाहित समस्त आबादी क्षेत्र।	धार रोड, बौक गाँव से राम बलराम नगर पुलिया से छोटा सिरपुर तालाब बंड तक	हरिहर नगर, ग्याला कॉलोनी, द्वारका पुरी, गुरुसंकर नगर, अहिरखेड़ी गाँव सीमा तालाब बंड तक	परिवहन नगर, धार रोड कालोनी, द्वारका पुरी, न्यू द्वारकापुरी, परिवहन नगर तक	सिंहासा गाँव की सीमा एवं धार रोड तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय दुबे, आयुक्त, इन्दौर, संभाग इन्दौर.

क्रमांक :- १२० / परिसीमन नगर पालिक निगम इन्दौर / 2014 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक .....  
परिसीमन - इन्दौर / 2014 दिनांक ८.२.०.. का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय दुबे, आयुक्त, इन्दौर, संभाग इन्दौर.

इन्दौर, दिनांक 2 जुलाई 2014

Indore, the 2nd July 2014

No...../Delimitation of Indore Municipal Corporation 2014 in exercise of the powers vested under Notification No. 3-518-XVIII-3/2014 Dated 24<sup>th</sup> February 2004 of the urban administration and development department of Govt. of Madhya Pradesh. I, Sanjay Dubey Commissioner, Indore Division, Indore hereby determine the extent of wards of Indore Municipal Corporation under the provision of section 10(1) of the M.P. Municipal corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) as per schedule given below:-

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary			
		2	3	4	EAST	SOUTH	5	6
1	SIRPUR	Vijayashree nagar, Maruti palace(behind kalani nagar), Ganesh nagar,Shree khedapatti hanuman mandir, Goverdhan palace near madina maszid, Gandhi palace, Samrat nagar , Sirpur Dhar road, Jagannathpuri sirpur kakad, Rana colony, Nagain nager Sec.E, Ammar nagar, Dimand paliace, Friends colony, Sahayog nagar, Sagar palace colony, Ashiyana palace nai colony dhar road, Keshaw nagar, Gulab bagh, Sayogen nagar, Geeta nagar main Agnihotri petrol pump dhar road, Krishna puri, Harihar nagar, Vishal nagar, Ram balram nagar, Shahid chandrashekhar azad pratima ke pass ring road, Nut colony sirpurtalab ke samne dhar road sirpur cyphen tak,Jagdish puri,yash hotel ke piche Geeta nagar, Geetanagar Ex. dhar road,Hakimi bagh parshad mahoday ke samne petrol pump dhar road and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Airport wall,Vyas nagar, B.S.F. Vardhaman area, Jayashree nagar,Geeta nagar,Chandan dhar road,Chandan nagar - choraha,upto sch.no. 71 sec.	D	Sch. No. 71 sec. C, Sirpur lack bund.	Nagin nagar, Sch. No. 71 sec. C, Sirpur lack bund.	Dhar road to Kordiya village	Dhar road to bardi
2	CHANDAN NAGAR	Chandan nagar (complete), Lohe wala gate, Nake wali Jagannath gali, Geeta nagar palace,Rani palace, Sakina masjid wali se nale hote via dhar road tak gali and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	puri ganga culvert	nagar via dhar road tak	nagar	Aam Agnihotri pump.	Dhar road wali gali to pump Agnihotri petrol palace nulla.	petrol pump.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary		
		1	2	3	4	5	6
					EAST	SOUTH	WEST
3	KALANI NAGAR	B.S.F. premises, Airport colony, Kalani nagar, Jayashree nagar, Nagin nagar, Nandan nagar sec.N and all the choraha areas and settlement within the four dimensional xtents.	Airport thana to Daimand Kalani nagar Dharmaraj colony paliya to Damodar nagar colony.	Hajur gani, Damodar nagar nalla to Daimand palace nalla.	Damodar nagar to hanuman nagar to Airport road.	Samrat nagar Khedapati nagar to Airport	NORTH
4	SUKHDEV NAGAR	Vyankatesh nagar main, Vyankatesh nagar Ex. Manpaasand colony, Gurukrishna colony, Sahu nagar, Panchawati nagar, Dwarkadish nagar, Sukhdev vihar, Sukhdev nagar, Shikshak nagar, Anjani nagar, Shrikrishna nagar airport road police quarter, Kanyakubja nagar, Vidyha dham, Ratan bagh, Ambikapur main, Amrakunj colony, Krishna bagh airport road, Akhand nagar, Aaradhana nagar, Harijan colony, Ganga nagar, Parihar colony, Hujur ganj and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Ambika puri, Suvidhi nagar, Nagar to police quarter.	Dusri palitan VIP road to colony, Tirupati Palhar VIP road police line.	VIP road Bijasan colony, Tirupati Dharmaraj colony Kalani nagar Sq. to BSF area.	VIP road Bijaan Airport colony.	
5	RAJ NAGER	Jai bhawani nagar, Rajnagar, Ramnagar, Vardhaman 'E', Rana colony near prafulla cinema, Damodar nagar, VyasaRamanand nagar, Ganga colony near keshav dharmasthala and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Kalani nagar, Bholenath colony, Hukumchand colony.	Indra zopad nala, Hariram nagar, Panchmurti nagar to Dhar road nalla.	Dhar road. Dhar road.	Aamwali patti nagar, Panchmurti nagar to Dhar road nalla.	gali chandan nagar, Kalani nagar.
6	MALHARGANJ	Ramchandra nagar, Tirupati nagar, Hukumchand colony, Vidhyachal nagar, Ram nagar, Ganeshganj, Sitaram park, warehouse, Prajapat pura, Kumhar mohalla, Teeli bakhali, Kadabin (bagdeche wala), M.G.road H.No. 335 to 391, maharganj, Dharmaraj colony, Tirupati nagar zopadpatti, Sankhala colony, Bijasan colony, Bholenath colony, Indranagar jhopadpatti, Pachkuiya muktidham area, ramchandra nagar Extn., Nayapurake pass Shukla nagar, Ramayan nagar, Nayapura brick bhatta, Lohar patti H. No. 1 to 60 and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	VIP road piliya Yestiwantganji, khai, Badaganpat South lohar patti, temple Jinsi stand to Malharganj police thana.	Yestiwantganji, South lohar patti, Mahesh nagar, Girdhar nagar to Mohata bagh.	North rajmohalla, Mahesh nagar, Girdhar nagar to Mahadev nagar.	Jai bhawani nagar, Kalani nagar, Nayapura, to Mohata bagh.	

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary			
		1	2	3	4	5	6	7
					EAST	SOUTH	WEST	NORTH
7	JANTA COLONY	Piliyakhal, Gorav nagar, Chatrapati nagar, Mahavir nagar, Agrasen nagar, Janta colony, Dusri paltan, Wireless police quarter, Jinsi main road H.No. 64 to 24/1, Arjun paltan police line, Arjun paltan, Shankarganj main road, Kilamaidan road, Officer bungia to Gokulganj, Kandil pura, Shankarganj, Dudhadhari ka bagicha(Radhaganj jumarisala), Neelkanth colony, Radha nagar and Kadabin (lala mandir) all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Sawariya nagar, Anai mandi, Shastri mandi, Kilamaidan, Sikandarabad colony.	Bhisti mohalla, no.1, Maihar paltan to park MG road.	Kadabin colony, Sitaram Vindhya chal nagar.	Gali no.1, Suhu nagar.	Police pump to quarter	Petrol Police pump to Police sahu nagar.
8	JUNARISALA	Malharganj main road (madhuban hotel to ramashah mandir), Tamboli bakhali, Gopal vilas malharganj, Tori Ajun corner, Maihar paltan, Shanti nagar, Chothipaltan, Chipa Ahilla paltan bakhali, North yashwantganj, MG road gorakund choraha, Ahilya pura, Khajuri bazar M.G. road, gorakund choraha, Tori corner, Arjunsingh nagar, Ravidas nadar Harijan colony, community hall, Shastri colony Ramganj jinsi, Jinsi haat maidan, Junarisala gali no 1,2,3 and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Shankarganj, Ahilya paltan, Junapitha, Khajuri bazar.	Ahilya paltan, Badwali chowki, Junapitha, Khajuri bazar.	Gorakund choraha, cloth market, Malhaganj Kadabin.	Kadabin.	Kadabin.	Kadabin.
9	VRINDAVAN	Sheshadri colony, South gadra khedi, Bramhabagh colony, Kunmarkhadi, Durga nagar near marimata, Raghuvanshi colony, North gadrankhedi, Rahi nagar, Khasgi ka bagicha, Virindavan colony, Mahesh guard police line, Perjon colony, Latur bagh, Mehta nagar, Kamla nehru nagar, Shaheed hemu kalani, Gomti nagar, Laxmanpura, Guru govind singh nagar and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Maa ahilya nagar, Govind colony, Banganga.	Jaihind nagar, Banganga Mukti dham, free ganj, Marimata Sq. to Rambali nagar.	Dudhadhari ka Laxmibai Kila nagar,BSNL office, Laxmipuri to sangam nagar.	Laxmibai Kila nagar,BSNL office, Laxmipuri to sangam nagar.	Laxmibai Kila nagar,BSNL office, Laxmipuri to sangam nagar.	Laxmibai Kila nagar,BSNL office, Laxmipuri to sangam nagar.
10	BANGANGA	Satyasai bagh, Walmiki nagar, Mahesh yadav nagar, Banganga, Subash nagar, Freeganj, Choti kumhar khadi, Patel ka bhatta, Jaihind nagar and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Maharana pratap nagar, Lepresi hospital, Laxmibai nagar railway line.	Pologround area	Marimata Sq.	Vrindavan colony, Govind colony, Sheetal Durga nagar, Maharanapratap nagar.	Vrindavan colony, Govind colony, Sheetal Durga nagar, Maharanapratap nagar.	

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary					
		2	3	4	EAST	SOUTH	WEST	6	7	NORTH
11	BHAGIRATHPURA	Refelle bhagirathpura, Bhagirathpura behind community hall, Bhagirathpura main, Bhagirathpura farshi wali gali, Redwal colony, Yadav colony, Bagiya mohalla, Nai basti bhagirath pura, Chirad mohalla, Bawadi ki chaal, Ma. VI. Laxmi bai nagar, Mohita nagar, Laxmi bai nagar railway station and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Nalla area pura	Industrial Nalla pura	Bhagirath nala nagar	Nala nagar	shukla Laxmibai nagar railway line			
12	GOVIND COLONY	Ganesh bagh, Govind nagar, New govind nagar, Dashrath nagar, Radhakrishna nagar, Karma nagar, Durga nagar, Vishal nagar, Durga nagar nai basti, Ganga bagh, nagar, Shradha dham and all the areas and settlement within hospital the four dimensional xtents.	Mahranapratap nagar, New sheetal nagar, Yadavnand Prince nagar, Radhakrishna nagar, Karma nagar, Durga nagar, nagar, Kushwah Mental Banganga.	Bagh, Mahesh nagar, Valmiki colony, BSF Police line kila to maidan.	Maheh nagar, Valmiki colony, BSF Police line kila to maidan.	Vrindavan Mental Banganga.	Yadav Vrindavan Mental Banganga.	Maahiliya nagar.		
13	SANGAM NAGAR	Avantika nagar, Sch.no.51, Sangam nagar, Maa ambika nagar, Maa ahiliya nagar, Laxmi puri, Rambali nagar, Archana Nagar, Hammal colony, Main road bangarda road, Laxmi nagar zopad patti, Annaj mandi, Kitched patti, Vaishnav vihar colony, Kaveri nagar, Shubham palace, shubham nagar and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Rakhi Sch.no.155, Durg a nagar.	nagar, Latur Laxmanpura, BSF Police line kila to maidan.	nagar, Latur Laxmanpura, BSF Police line kila to maidan.	Fire bagh, Fire police quarter, Sawariya nagar, Police line kila to nagar.	brigade bagh, Mahaveer nagar, Shubham Rukhmani palace, Garib nawaj colony.	Suvidhi nagar, Mahaveer nagar, Shubham Rukhmani palace, Garib nawaj colony.		
14	ASHOK NAGAR	Ashok nagar, Ambikapur and extention, Suvidhi nagar, Rukhmani nagar, Somani nagar, Krushi nagar(shree laxmi nagar), Saket dham, Sukhdev nagar Ex., Loknayak nagar, Sanwariya nagar, Palhar nagar, Omvihar, Panchshil nagar zopad patti infront of airport, Vyas nagar and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Bijasan mandir, nagar,	mata Shakti nagar, Bapu Kaveri nagar, murai mohalla, Vaishnav colony, Manojshree nagar to Mahavir nagar.	Hammal colony, Annaj mandi.	Police quarter, Sahu nagar, Akhand nagar, Vainkatesh nagar to BSF area, Maruti palace, Gandhi palace, Laxmi nagar.	Airport.			

Ward No.	Name of Ward	Areas Included within Ward				Ward Boundary			
		1 2	3	4 EAST	5 SOUTH	6 WEST	7 NORTH		
1		Bada bangarda, Gandhi nagar, Bohra colony, Tigriya badsah, Vaishnav colony, Chorsiya nagar, Shakti nagar, Patel nagar, Bijasan mata mandir, Asha palace, Laxmi nagar, Paramhans nagar, Manishree nagar, Vidhya palace, Babu murali mohalla and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Palakhedi village to Bardari Narwal, Bajrang Laxmi nagar, Ganga Panchashil nagar, Nariman nagar, Roop nagar. Nainod village.	Ashok area, Ashok Laxmi Panchashil city, Roop nagar. Nainod village.	Ashok Nagar, Nariman nagar, Roop nagar. Nainod village.	Ashok nagar, Hapsi boundary.	Iambudi village and Hapsi boundary.	Jambudi village.	
15	BIJASAN								
16	NANDBAGH	Nandbagh, Rakhi nagar, Jairam nagar, Mateshwari nagar, Nandan nagar, Ekta nagar, Surendra nagar, Yadav palace, Shreyas nagar, Roop nagar, Lack palace, Kedar nagar, Vandana nagar, Shanti nagar, Shree ram nagar, Durga nagar, Vainkatesh vihar, Chota bangarda village, Sch. no.155, Samrudhi nagar, Mahaveer Nagar, Vikas Nagar, Ganga dham, Vishal palace and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Tigriya village.	Eshan badsah Jairaj Dashrath bagh, Radhakrishna colony.	Sch. no.51, Vidhya nagar, Avantika nagar, Shreenath street, Radhana nagar, Ashok nagar.	Vidhya nagar colony, bangarda village.	palace Chota Radhakrishna street, Radhana village, Ashok bangarda village.	palace Chota Radhakrishna street, Radhana village, Ashok bangarda village.	
17	KUSHWAH NAGAR	Rajaram nagar, Kushwhwa nagar, Prince nagar, New prince nagar tak, New rishik nagar, Roshan bagh, Pushp nagar, Sundar nagar, Rishi nagar, Jagdish nagar, Jagganath nagar, Anjani nagar, Ram nagar, New ram nagar, Raja bagh, Kamla keshar nagar, Dasharath Bag and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Tigriya village, nagar, to Industrial area..	badsah Bajrang Mental hospital.	Durga nagar to Radhakrishna colony, Sch.no.155.	Maharanapratap nagar, RadhaKrishna colony, Sch.no.155.	Mateshwari nagar, Nand Ganga via Tigriya Badshah Village Boundary		
18	SANT KABIR	Shiv nagar, Govind nagar kharcha, Bajrang pura, Sugandha nagar, Avantika nagar, Shivkanth nagar, Badridham, Bhawani nagar and kakad, Shanti nagar, Mental hospital nai basti and surrounding area, Gangabai ki basti, Maruti nagar, Bholenath colony, Eshavas colony, Balagi vihar, Bardari, Revati, Bhorasl, Saver road industrial area sec. A and E Tigriya badshah Kankad and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Bhangya village boundary.	Karolbagh outer area, Bhargya kusht aashram, Kumedi, Raja area, Sundar Vijayvargiya sq., Riddhi siddhi nagar.	Saraswati bagh, Palakhedi nagar, Ganesh dham, Durga nagar, Mukhraj nagar.	Tigriya badsha village, bagh, village.			

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary		
		2	3	4	EAST	SOUTH	WEST
1				Bhangiya village boundary.	Bhangad, MR 10 Bridge, Toll tax, nagar, Railway line, Maharanapratap Nagar, Sukhiya, Khatipura bridge to nala, Laxmitai nagar to Mahesh yadav nagar.	Mahesh yadav nagar, Bhawani nagar, Shiv nagar, Indoraqma jarman tool room to Kumedi.	Banganga mental hospital, Railway bridge, Bhawani nagar, Indoraqma jarman tool room to Kumedi.
19	VISHWAKARMA	Ganesh dham, Mukharji nagar, Bhagatsingh nagar, Ramdutta ka bhatta, Gali infront of banganga thana, Saver road industrial area sec. C and F, Adarsh ganpati nagar, Saisuman nagar, Narval village and kakad , Durga nagar, Kumedi village and kakad Karol bag, Riddhi siddhi nagar, GangaRAM Nagar and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.		Toal tax naka Roop MR-10 bridge to nagar, Bhagashree Khatipura, Khatipura Harijan basti, Sukhiya gram, Devshree nagar,Khatipura colony, Moti nagar, Prince city, Industrial area sector D, Panna Nagar, Railway Jhuggi Jhopadi and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Bhagya Abhinandan Nagar, King park to gaurishankar nagar to radhika society	Sharda mandir area sec.D1&D2 Ganesh to tax naka.	Vidhya laxmi Ganesh dham, Industrial area sec.C to MR-10 Ganesh to tax naka.
20	GAURI NAGAR	Gorinagar, New gauri nagar, Bholenath dham, Roop nagar, Keshav nagar, Aadinath nagar, New khatipura, Khatipura, Khatipura Harijan nagar, New gayatri nagar, Veena nagar sec.M H.No. 1 to 235, Veena nagar sec. MB H.No. 12 to71, Abhinandan nagar, Radhika sosity, Sagar vihar colony, New hira nagar,Sundar nagar Ex,Mangal nagar, Kashi puri, Tretment plant road, Nagar nigam qarter,Gulmohar green, Tirumala pride, Basuriwala, Shalimar swayam,Kalpana Nagar,sidhi nagar, Kailash puri,Alkapuri, Kings park , Gaurishankar Nagar and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.		Kumedi village and Bhangari basti, village boundary.	Niranjanpur nai Chandragupt morya choraha, Heera nagar, Veena nagar, Aadarsha molik nagar, ITI.	Electrim complex, Bhagwati nagar.	Gauri nagar, Prince city, Kumedi gram
21	SHYAM NAGAR						

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary			
		1	2	3	EAST	SOUTH	WEST	NORTH
22	Pt. DEENDAYAL UPADHAYA	Pt. Deendayal upadhyay nagar sector A-H. H.No. 1 to 23,A.M H.No. 1 to 76, A.L.H.No. 1 to 31, Sec.A.M. H.No. 1 to484, A.M.-2shop com residents H.No. 1 to 50, DH H.No.1 to 31, BM H.No. 1 to120, AM. H.No.77 to 150, AM H.No. 200 to 310, Aadars molik nagar H.No. 1 to 45,CHD H.No. 19 to 54, CL. H.No.1 to 200 , DM H No.1 to 344, CM H.No. 1 to 60, CH.H.No.1 to 51, Sec. C 602 to 799, Ravidas nagar,Lavkush vihar, Shabari Nagar,Heera nagar main road, veena nagar, MR-10 road Sukhiya Sq. to Chandragupt morya Sq., Sukhlia Sq. to Maruti nagar Sq. sundar nagar main, Veena nagar sector A,B,C and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Chandragupt monya choraha, mark hotel MR - 10 road up to Bapat chouraha culvert.	fortune land	Maruti nagar,Ambe nagar, Prime morya Sq. city,MR-9 to Shyam nagar.	Doctor colony, shyam nagar to Janak puri via Chandragupt Sq.		
23	Lt. RAJESH JOSHI	Pardesipura compleite, Arjun singh gohar nagar, Lal gali, Ganesh nagar, Clerk colony, Dhanlaxmi nagar apartment, Redimade complex, Electronic complex, Samaj kalyan parisar, clerk colony Ex.,Bhagwati nagar, Yashoda nadar,Old gouri nagar, Koli mohalla, Adarsh Bijasan nagar and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Gouri nagar,Shyam nagar,nagar nagar, khatipura triangle.	[ITI 9 junction to ESI junction,Subash hospital junction nagar to Teen pulya kulkarni junction.	[ITI khatipura Teen pulya to Bhagirathpura bridge to via Pardesipura	[ITI 9 junction to ESI junction,Subash hospital junction nagar junction, to Teen pulya kulkarni bhatta, Bhagirath pura culvert.	nala up to New gaury nagar .	
24	SANT BALIJINATH MAHARAJ	Sarvahara nagar, Subash nagar comp., Shankar kumhar bridge, ka bagaicha, Penjon colony, Shiv shakti nagar, Swadeshi Damrupura, mill gate to subash nagar main road, Pardesi pura police thana quartei, Gokuldas complex shyamacharan shukla choraha, nagar, Kulkarni bhatta comp., Sheelinath camp, Laxman pulya. Nanda mali ki basti, narayan mali ka khet, Ahirwar samaj basti, Jatav samaj basti, Hukumchand mill surrounding area and Rajkumar mill sabji mandi and all the areas and settlement within the four dimensional xtents.	Bhagirathpura Pardesipura	main road to under Jeven ki pheel, nalla to Teen Maiwa mill mukti steel.	Bhandari railway line to MPEB	Shukla nagar nalla to Kulkarni bridge bhatta nala to Indore Bhagirathpura puliya.		

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary			
		2	3	EAST	SOUTH	WEST	NORTH	7
1								
25	NANDA NAGAR	Nanda nagar road no.1-2-3-4-7 -8 and 13 to26, Nandanagar teen puliya MG quarter, Janta quarter, Malwamill patare ki chaal, Pakki chaal, Malwa mill compound main road to sarvahara nagar to Patnipura junction. and all the areas and settelment within the four dimensional xtents.	Nanda nagar road no.9, Sant junction, Joseph church. Malwa puliya.	nagar Joseph	Jeeven ki chaal colony, Sugnidevi coledge to nanda nadar road no.9.	Malwa mill puiya nalla to jeeven ki Sarvahara junction mill	Jeeven ki chaal	
26	JEEN MATA	Neharunagar road no. 1 to 10 including Multi story Malwa mill to Patnipura main road, Amir pahalwan ki chaal,Narsingh ki chaal, Bhairav baba ki gali, Gafur Khan ki chaal,Muntiaz seth ki gali, Nandram baniye ka bagicha, Bekri wali gali, Hakim ki chall, Mukadam ki chall, danfan ki chall, Laiapura Mangial ki chal, Motilal ki chal, Phool singh jamadar ki chal, Kanhaiyalal ki chal, and settelment within the four dimensional xtents.	Patnipura Sq. to Aatal gate, Govt. MIG thana Aatal gate.	Roopesh school Roopesh nagar, Yadav nagar.	Govt. Kajji junction. Chall pulya main road.	Roopbh yadav	Malwa mill puiya Rustam to Patnipura	
27	PASHUPATINATH	Bajranj nagar comp. Junior bajrang nagar,D.M.quarter, Nanda nagar road no.5,6,9,10,11,12,27 28,29 30 and 31, Nagar, Satyam vihar,Suyesh vihar, Doctor colony,Panchadeep bhawan,Teen majha hospital quarter, Karas dev deenidayal nagar,Maruti nagar, Anudeshak nagar, Ambe nagar, Prime city, Prime city Nx., Staff colony and settelment fortune mark. within the four dimensional xtents.	TI junction, Sundar landmark side, nalla to Hotel Aastha land Sant church road no.9.	Khatipura Fortune junction, Aadarsh side, nalla to Meghdoot nagar, Pt. Anjali nagar, Hotel Aastha land Sant church road no.9.	Road no. 9 Nandanagar road back handanager.	Road no. 9 Nandanagar road no.9 to Clark colony Vradha ashram to Khatipura ITjunction.		
28	MAA TULJA BHAWANI	Meghdoot nagar, Naitra colony, Choti bhamori, Sanjay gandhi nagar, Shiv shakti nahar, Badi bhamori(Dubey), Bhamori plaza, Ram nagar, Anjani nagar, Kailash ka bhatta, New anjani nagar, Malviya samaj basti,Ram nagar nai aabadi, Trilok ka bhaitta, Nayiveen rahavasi sangh, Meghdoot garden, Meghdoot smashan ghar and near by area, Fortune land mark hotel, LG sectore K H.No. 1 to 112 and settelment within the four dimensional xtents.	Bapat choraha Sayaji to choraha MR-10.	Sayaji to Manmandir, Adarsh machinic nagar, Sanjay nagar, Bapat choraha	Nadiya nagar, Ansari colony, Kanoo Patel kai choraha, Bajrang nagar, Karmachari bima nagar, Maruti nagar to Bapat choraha.	Nadiya nagar, Ansari colony, road no.7 church		

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary		
		2	3	4 EAST	5 SOUTH	6 WEST	7 NORTH
1		Vijay nagar, Sch. No. 54 comp., Sch.no.74 comp., She. No. 54 Aadash mechanic nagar, Mechanic nagar Ex. Sch.No. 54 PU-3,Aren house, Saffire house, Man house, 74 main road to Atithi sambandh niwas hotel. Hotel Atithi niwas,Satguru building, Surbhi garden, A.B. road. Housing HIG quarter housing building, Sharma namkin near by area. and settlement within the four dimensional xtents.	Nakshatra garden junction , vihar to Atithi sambandh niwas hotel.	A.B. road basant A.B.road	Aathi Vijay niwas, Sethi Sayaji choraha,MR-10 bapat choraha to MR-11 Naxatra junction.	Aathi Badi bhamoti, Sethi Sayaji choraha,MR-10 bapat choraha to MR-11 Naxatra junction.	
29	Dr. SHYAMAPRASAD MUKHARJI	Barfani nagat, Malviya nagar road no-2, Anurag nagar, Press complex compound behind bhaskar press, Om road to Aadarsh gurudev complex, Shantideep colony, Krishnabagh colony, Sunder nagar, Guru nagar, Shradha shree Maa Mahesh bagh colony, Ravi jagrati nagar, Barfani nagar, Anil nagar, Solanki nagar, Near Chandra nagar hotel amarvillas, State bank parisar, Nearby area of Shreemaya residency and settlement within the four dimensional xtents.	C-21 mall A.B. Velocity cinima, C-21 mall A.B. Velocity cinima, MIR-9 ring road to Aadarsh molik nagar to swarna bagh. Maa nagar to Ring road.	Kalindi park nai Kalkad pulya to Ring road.	Khairana gurdwara, MR-10 choraha to Life line hospital C21 mall. A.B.road.	A.B.road LIG	
30	SANT RAVIDAS	Bhagyashree colony, Sheetal nagar sec. A and B, Suman nagar, Ganga devi nagar, Maa ambika nagar, Mangal city, Sch. No. 54 PU-4, BCM HEIGHTS, Shekhar planate, Princes plaza, Royal platinam, Basant vihar colony, Shanti niketan, Bapji nagar, Raja bagh, Sch. no. 114 part 2, Sch.no.94 Sec. WA,WB,WE,EB, Anurag nagar behind shalimar township, Bapu gandhi nagar, Gulab bagh, Adarsh meghdoot nagar, New sheetal nagar, Chitra nagar, Patel nagar, Poonam palace colony, BSNL quarter, Sch. no.54 PU-4 C-21 mall, Malhar mega mall, Malviya nagar road no.1 and 3, shreeram nagar, Kalpkamdhenu nager, and settlement within the four dimensional xtents.	Nirjanpur choraha Lasudiya junction	mori road ring Redission junction	Ring road to Anil nagar, Malviya nagar, and A.B. road C 21 Nirjanpur choraha.	Ring road Ambika colony, to Vijay Nagar, junction and A.B. road C 21 Vijay Nagar, junction.	
31	MAHARAJA CHATRASAL	Sch. No.78 slice no.2-4 and 5-6 sec.,Atal bihari khel sankul parisar, Narmada quartir,78 part 2 hotel vrandavan, LCH hospital Nakshatra convention center area, Sch. No. 113 raghunandan bagh, Ishwer nagar and settlement within the four dimensional xtents.	MR-11 school junction, Sch. No. 78 A.B.road, Basant part1 A.B. road.	sica Shalimar township	No. 74-C, Prestige college, nakshatra convection centre.	No.74-C, MR-11 Nakshatra convection junction to Sica school 78 junction.	
32	ATAL BIHARI BAJPAI						

Ward No.	Name of Ward	Areas Included within Ward			Ward Boundary		
		1	2	3	4	5	6
					EAST	SOUTH	WEST
33	<b>SUKHALIYA</b>	Kabit khedi, Lahiya colony, Sunya palace, Shivani nagar, Parag nagar, Maa sharda nagar, Royal banglow, Sanskruti nagar, Swasthay nagar, Shalimar banglow, Pt deendayal upadhyaya nagar Sec. CN 1 to 303, AH 24 to 54, ASH. 1 to 21, AHD 1 TO 52, AM second 1 TO 654, CJRM 1 to 125 CM 61 TO 250, CH 52 to 101, Sec. plot no. 485 to 601, CL 1 to 100, Sec. C 800 to 1125, CHD 800 TO 1125, CHD 1 TO 18, Aadharsh molik nagar, Nyay nagar, Jai ambe nagar and settlement within the four dimensional xtents.	Bhangarh nalla, via Sch. No. 136, up to Sch. No. 113.	Kabit khedi, via Sch. No. 136, up to Sch. No. 78, before Sch. No. 54 FH gupt sec.	Bapat Sq. MR 10 to traingle morya choraha, Chandra Tritment plant	Chandragupt morya Bhangarh.	
34	<b>SHAHEED BHAGATSINGH</b>	Niranjanpur area, Sec. no.114 part 1, Rajeev aavas yogana, Sch. No.78 slice 1 and 3, Sch. No 78 Loha road, mandi, Row house pink city, Sch. No.136, Cristiane Niranjanpura quarter and settlement within the four dimensional choraha road.	Niranjanpur nai A.B. MR-11 niranjanpur choraha	Arunya road No.78, to Servashree school, Sch.no. 113 lahiya colony, Muktidham.	Aranya Sch. Bhangade village nalla.		
35	<b>LASUDIYA MORI</b>	Lasudiya mori village, Talawali chanda village, Rahulgandhi nagar, Niranjanpur nai basti, Sch. No. 78 loha mandi rahul gandi nagar near by area, Bairang nagar kakad, Talawali chanda Basti, Lasudiya gram basti, Madhuban dhaba, Niranjanpur choraha to talawali chanda dewas naka main road, Shakar khedi village, Bhangarh village and settlement within the four dimensional xtents.	Kailod halla Arandiya, Mayakhedi	Niranjanpur nalla Shreeram nagar to railway track, to Niranjanpur via Kailod halla choraha A.B. Bhangya road to road via MR-11 railway crossing to Niranjanpura to Bhangya nalla to Bhangya village boundary road	Niranjanpur nalla Shreeram nagar via Kailod halla choraha A.B. Bhangya road to road via MR-11 railway crossing to Niranjanpura to Bhangya village boundary road		
36	<b>NIPANIYA</b>	Mayakhedi village, Arandiya village, Gram piplyakumar, village and settlement within the four dimensional xtents.	Mangaliya village	Silver Balya park, By pass, Sch. No/134, Krupa Omex city.	Mahalaxmi colony, Mahalaxmi nagar.	Sai piplyakumar, Lasudiya junction, choraha a.B. road Lasudya mori, Talaiali chanda	

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary				
			1	2	3	4	5
			EAST	SOUTH	WEST	NORTH	
37	SAIKRUPA	Sch. No.94, Vakratund nagar, Mumtaz nagar, Sanjeevani nagar, Anandi nagar, Sawariya nagar part 1, Ramkrishna bagh, Ramkrishna bagh B, Yashoda nagar, Ramkrishna Bagh 2, Patel nagar, Sch. No. 94 classic purnima, Shanti kunj, Swarna ananda nagar, Tapeshwari bagh colony, New harsiddhi nagar, Gurunanak nagar, Naya nagar, behind malviya petrol pump, Shrikrishna vihar colony, Sch. no 94 radhika palace colony, Vaibhave laxmi nagar, Krishna bagh B sec, New chitra nagar, Saikrupa colony, Swarna bagh colony, Sanjog puri, Mahalaxmi nagar, Gaqnesh nagar, Veena nagar, Mansarovar nagar, Chikitsak nagar main and basti infront of bombay hospital sch. 94,Naya nagar Ex., Ganesh puri, Sumit Nagar, Anand colony and settlement within the four dimensional extents.	Pipliya gram, Nipaniya nagar to Dhiraj village boundary, Kumar Baba mansab Vishwanath nagar, to Dhiraj colony, Lasudiya tiraha, Sch. No.134, to Dhiraj nagar, to Kalindi park.	Anuragh nagar, Patel colony, Ring road Shradhashree colony, Ambika nagar, Redisson junction, Bombay hospital junction,	Anuragh nagar, Sch. No.94 to Bapu gandhi nagar to Lasudya traingle.	Radhakunj colony, Anuragh nagar, Radhakunj colony, Shri ram nagar, Redisson junction,	
38	HAJI COLONY	Suhana park, Asharfi nagar, Gandhi gram, Rajeev nagar, police quarter, Taaj nagar, Taj nagar sec.A and B, Sadar bazar, Mamta colony, Jalla colony, Haji colony, Laxmi bagh, Nahar shaha nagar, Manasab nagar, Anar bag, Baba Mansab nagar, Shahi bagh, Bangali colony, Super palace, Badla, Badla ghati, Rajeev nagar badla, Vijay nagar, Doulat bagh and settlement within the four dimensional extents.	Kanadiya gram boundary, Nipaniya gram boundary.	from Roshan to village pass.	Harijan colony, Khajirana ganesh shivbag, mandir.	Kandiya Khajirana to ganesh mandir via Ahilya nagar via Shri krishna bag colony to Sai kripa colony.	

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary				
		1	2	3	4	5	6	7	NORTH
					EAST	SOUTH	WEST		
39	NAHARSHAH WALI	Jakariya colony, Saira nagar, Habbib colony, Daktai colony, Tamim nagar, Gohar nagar, Dosiya nagar, Royal palace, Raza colony, Silver colony, Riyaz ul madarsa, New sharafat nagar, New majestic nagar, compound, Khuda baksh palace, Khajrana palace, Khrabad, Khirabad sec.B, Elyas colony, Majestic nagar, Ali colony, Khan compound, jattan bagh, Garib nawaj colony, Shalimar colony, Aman nagar, Ahamed nagar, Kadar colony, Harun colony, Ahraf nagar, Heena palace, New heena palace, Dilip nagar, Sanchar nagar, Dawodi nagar, Momin pura, Shahjaha colony, Eshak colony, Roshan nagar, Roshan nagar A,B and C sec., Doulat bagh, Shershah suri nagar and settlement within the four dimensional xtents.	Asharfi nagar, Sch. No.134 to pass village.	Kanadiya village to Tigriya village.	Bicholi rao village, By pass	Hapsi Ganesh sanchar mandir, Zalla nagar, Samrat colony, Momin nagar, Mitra nagar, bandhu nagar, Goyal vihar.	Ganesha ganesh, Momin colony, Asharafi nagar	puri	Khajrana ganesh
40	KHAJARANA GANESH	Sundar nagar, Mayapuri, Mayapuri sec. B and C, Shiv bagh badi, Ramkrishna bagh, Devki nagar, Aasha nagar, Jumman nagar, Saidham, Shanti nagar, Khajrana gram, Goyal vihar colony, Ganesh mandir, Ganesh puri colony, Patel mohalla, Khajrana main road left side, Sawariya nagar part B, Balai mohalla, Ravidas nagar, Pankaj nagar, Shakar nagar, Vishwanath dham, Shiv bag, Choti shiv bagh, Dhreej nagar, Saraswati nagar, Krishnabag sector B, Goya Talab road, Soharab colony, Baba Ki bag, Sharayar colony, and settlement within the four dimensional xtents.	Patel Nyay Baba	Patel manasab nagar, Baba nagar, manasab colony, nagar.	Vihari Baba nagar, Rajeev nagar, Zalla siddhi nagar, colony, Nagar, Mitrabandhu nagar.	Goyal avenue, Rajeev nagar, Zalla siddhi colony, Dilip Khajrana chouraha tak.	Haji avenue, Riddhi nagar, Anandi nagar, Mumtaz bagh colony, MR. 9 to patel nagar.	Khajrana	Aman chouraha, Aman Riddhi nagar, Sanjog Anandi nagar, Mumtaz bagh colony, MR. 9 to patel nagar.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary		
		3	4	5	SOUTH	WEST	NORTH
1	2		EAST				
41	KAILASHPURI	Devpuri, Suraj nagar, Mangalmurti nagar, Soniya palace colony, Chetan nagar A and B, Kailashpuri colony, Mitrabandhu nagar, Palash palace, Alok nagar, Ashish nagar, Sanchar nagar Goyal nagar Ex., Madhav nagar, Bhawana compound, Ganraj nagar, Gan nayak nagar, Utkarsh Estate, Shekhar Nagar encley, Aashanagar, Som nagar, Priti nagar, Shree ram nagar Kanadiya road, Sch. no.94 BSNL quarter, Mayur nagar service road, Samrat nagar, Diamond colony, Diamond palace, Vaibhav nagar main and ex., Mahadev totla nagar, Kandhari nagar, Bangali colony, Sushant colony, Riddhi siddhi nagar , Sumit nagar, Goyal vihar avenu, Laksh vihar, Shubh labh avenu, Shubh Labh Avenue and settlement within the four dimensional xtents.	Sahatarijun choraha, Ganeshpuri, Goyal vihar, Aman colony to Kanadiya road	Ahmed nagar Kanadiya road to Vaibhav nagar, Brijeshwari Nx	Ganesh dham	Ring road, Vandana nagar, Shakti nagar, Jinious park to Palival dharmashala	
42	SWAMI VIVEKANAND				Bawani Plaza, Sahstranjun Saket Zone, junction, Riddhi Goyal colony, Mahaveer nagar, Baikunth Dham Mayur hospital to Khajaria to Bangali sq.	Bangali Sq. to Badigwattoli to Banwani plaza	
					Tilaka nagar main road, badi gwattoli pulya.		
					Anurag nagar, Sanjog puri ring road.		

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary				
		3	2	1	EAST	SOUTH	4	5	6
43	SHREE NAGAR	New Palasiya, Anoop nagar, Shakun villa apartment, Mahak apartment, Chandani apartment, New palasiya community hall, laxmi memorial hospital lokhande puli, Sarvoday Nursing Home, Sunshine apartment, Gaurav apartment, Kanchan apartment, Anoop nagar old, Khajrani kakad, Kirti palace, Shree nagar main and extention, Baikunth dham, Bima nagar state bank colony, shree nagar Kanakad, Kalindi park, Ravi nagar, Silver arc enclave, Vaikntha dham, Bima nagar Shree nagar kakad, Kalandi park Ravi nagar, PC colony, Old palasia ranade compound, Ranade compound extention, Manorama Ganj pul to Old palasia, Joy builder's colony, Yamaha show room A.B. road, Sanghi colony, Gurukrupa resteraunt khajrana road and settlement within the four dimensional xtents.	Pachu ki chaal, nala, A.B. road, Old palasia, LIG junction, Gurudwara culvert to Kalindi saket nagar Sq. A.B. road.	Kalindi park nala to Khajrana road, LIG main road, Chandralok to Kalindi saket nagar Sq. A.B. road.	Saket nagar Sq. to Ravindra choraha road, Greater to Barwani road, Kailash Hospital, chal. Harijan colony to Janjir wala Sq.	Janjirwala to Ravindra choraha to Pancham ki Pheli to Panchu ki road.	NORTH	7	6
44	HIG	Kannu Patel ki chaal, Somnath ki nai chal, Choti khajrani, Naya basera, Malwa parisar A.B. road, Shaharni Residency block C and D, Sai sampada Apartment, Saikar residency, Aakshaya deep colony, Shalimar malwa parisar, Prakash chandra sethi nagar, New nadia nagar, Nadia nagar, Ansar colony, Mahabaleshwar mandir Sector I, LIG sec.I and L, LIG sec. G, LIG thana H and G Sector, Shopping complex graha nirmam office to shopping complax back side shop, Patnipura junction to Anoop cinema, Chandro nagar, Hari colony, Jagjiyanram Nagar complete and settlement within the four dimensional xtents.	Aadarsh Naya basera, Malwa parisar A.B. road, Shaharni Pakiza road.	mechanic nagar, mall A.B. Gurudwara culvert	Gurudwara to culvert to sector F, LIG main road.	Gurudwara to culvert to sector F, LIG shakti main road.	Patnipura junction, Sanjay nagar zopat patti Eminent school area, Patnipura junction.	Shiv junction, Sanjay nagar gandhi Adarsh mechanic nagar.	Shiv Nagar, Neharu Nagar to MIG junction.
45	Dr. BHIMRAO AMBEDKAR	Ambedkar nagar, MG colony, Lig Colony Sector L, Gurudwara ke piche , Sanjay Gandhi Upvan, R K puram, Girnar apartment, Dev nagar harijan colony, gurudwara Purush yadav nagar, Lala ka bagicha, More ki chaal, Panchkumar ki chali, Nil Giri Apartment, and settlement within the four dimensional xtents.	LIG maiun road to New horizone culvert	Gurudwara to roid to LIG Sq. to Sagar Apartment	Gurudwara A.B. apartment, New palasia, shala, to Sagar Laxmi memorial hospital, Somnath chall.	Sagar A.B. apartment, New palasia, shala, to Sagar hospital, Somnath chall.	Gotu ki chaal, Shiv vyayam Nagar to MIG thana Ki	7	6

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary			
		1	2	3	4	5	6	7
46	<b>SOMNATH</b>	Pancham ki phel, Rustam ka bagicha, Gotu ki chaa, Roopesh Yadav hospital, Nehru nagar, Lala ka palasia, Janjiro bhandari marg, Goma ki Phel to malwa mil Sq.. and settlement within the four dimensional xtents.	Nehru nagar, Roopesh Yadav hospital, Lala ka palasia, Janjiro bhandari marg, Goma ki Phel to malwa mil Sq.. Ambedkar Nagar.	EAST	SOUTH	WEST	NORTH	
		Yeshwant niwas road, Builders Colony, Ahilya mata colony, GSITS, Daimond colony, Park road, Agravihar colony, Dhenu market, Vallabh nagar, Dubey ka bagicha, new dewas road, Malviya nagar choraha, Race corse road, Roshan singh Bhandari marg, Goma ki phel, Pancham ki phel H. NO. 221 to 577, Harijan colony Janjiwala choraha, 56 shop Abhilasha apartment, Chain Singh ka bagicha, B Builder colony, Nehru park, Shekhar park building, tulsi tower , D.M. tower and settlement within the four dimensional xtents.	Hukumchand mills, Shivaji Pancham junction, Malva mill phel, Junction Rustam bagicha.	Gotu ki chaal, Bhandari tukoganji to marg, ka wala Sq. to New Regal palasis.	Palasia junction, MG road high court, Jangir road to New Regal Sq. to Shastri bridge.	Gandhi hall, MG Nayapura, Central jail, to Snehalataganj to under Hukum chand mil	Gandhi hall, New siyaganj, MG Nayapura, Central jail, to Snehalataganj to under Hukum chand mil	
47	<b>SARDAR VALLABH BHAI</b>	Badi gwaltoli, Seva sardar nagar, Geeta nagar, Lalaram nagar, Grater tirupati, Padmawati colony, Doorsanchar colony, Dak kunj, Navratn bag, Manorama ganj gali no. 1 to 6, Kailash park, Deep shikha apartment, Rajdarh kothi, Mishra vihar, Devi indira nagar, Vanmandal office compound, Shivmangal nagar, Alankar point, Suyast hospital, Gohar compound, Shanti nagar, Telephone colony, PWD quarter, Bakhtavar ram nagar, F and E sec, Palasia thana parisar block no.2 Old palasia multhan apartment, Banwani plaza, Old palasia grater kailash hospital gali and settlement within the four dimensional xtents.	A.B. road Geeta Sq. to zone, Shree nagar, Old palasia.	Saket Tilak office, Bakhtavar nagar	Ragnar nagar, .main vatika Ram Road to Paricharika nagar	University to BSNL Ratlam kothi, Shivaji Geetabhawan Sq. A.B. colony to A.B. road Gitar Sq.		
48	<b>GEETA BHAWAN</b>							

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary			
		1	2	3	4 EAST	5 SOUTH	6 WEST	7 NORTH
49	TILAKNAGAR	Rajashree Vatika, Payal vatika, Tilak nagar main and Ex., Goyal Nagar, Shakti Nagar, Vandana nagar, Shreenath colony, Savidnagar, Sainath Sec B nagar and C, Bakhtawar ram nagar Sec. A,B,C and D, Vandana road, Nagar main, Sai vihar colony, Vasundhara apartment colony, Kanadiya Nagar Sec B&C, Sunil road , Gulmohar nagar, Swarna vatika, Swarna vihar, Goyal nagar, Vinoba nagar, H. no. 465 to 626, Vinoba Nagar 1 to 90 Tilak nagar muktidham gali main road, and settlement within the four dimensional xtents.	Vinoba Ex., Nagar, nala to tilak Sq. to mahadev road, main totla nagar, nagar, Patrakar Ganesh dham, Kanadiya Ring road.	Bangali Nagar Bangali Sq. to mahadev road, Girdhar nagar, nala tak	Piplyahana ring Paricharika Geeta nagar, Tirupati colony, Sewasagan nagar, Tilak nagar to Vinoba nagar.	Piplyahana ring Paricharika Geeta nagar, Tirupati colony, Sewasagan nagar, Tilak nagar to Vinoba nagar.		
50	BRAJESHWARI	Nirmal nagar , Vrindavan garden colony, Pipliya han talab pal, Chouhan nagar, Grater brijeshwari, Utikarsh state, Ganesh dham, Brajeshwari main, NX and Ex., Shree mangal nagar state, shubh labh valley,Bombay yogeni Sch. no.140, Piplyahana total, Revenue nagar, Bijji nagar, Ashish nagar, Shreekant palace, Shiv mangal nagar, Shiv shakti nagar, Serve suvidha nagar, Laxmi vihar colony, Shekhar enclave, Sanchar nagar, Morya hills garden, Alok nagar, Vaibhav nagar B ang C and Ex., New ashish nagar, Tapan enclave, Doulat vihar, Ashish vihar, Ramabai nagar, Sukh shanti nagar, Mahaveer dham, Girdhar nagar, Paricharika nagar, Nandgao, halimar pam, Gyaneshwar park, Nidhivan colony, Palash palace, Parasdham enclave, Sharma enclave, Vimal shree brijeshwari, Raj colony.	Ring road goyal nagar Ext. to Patidar colony, Kanadiya sanchar nagar	Kanadiya road, By-pass, Bicholi ring road Bicholi hana chouraha vatkia to old sehore road	Agrawal colony, agriculture staff road, Bicholi Ashish Regency colony to geeta swarna hana to ring road to agriculture staff colony	Agrawal colony, agriculture staff road, Bicholi Ashish Regency colony to geeta swarna hana to ring road to agriculture staff colony		
51	BHAGWATI NAGAR	Shive nagar, Alok nagar, Aalam nagar, Chodhari park, Ram nagar, Virat nagar , Udyog nagar, Shivdarshan nagar, Shahin nagar, Dhanlaxmi udhyog nagar Zuggi comp., Krishnapuri colony, Abhilasha nagar, Ekta nagar, Maa bhagwati nagar, Abhishek nagar, Krishna nagar, nemawar road, Babul nagar, Chandrapuri and settlement within the four dimensional xtents.	Royal regency, Shalimar pam, village, Sanjana park.	Bicholi marclana by-pass, Devguradiya village.	Udyog nagar, Paida village, Nemawar road to Shreeram nagar.	Nemawar road, puri, mohalla, nagar, Indira Musakhedi culvert nagar, Mayur nagar, Ideis nagar, to Royal reidency.	Nemawar road, puri, mohalla, nagar, Indira Musakhedi culvert nagar, Mayur nagar, Ideis nagar, to Royal reidency.	

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary				
		1	2	3	4	5	SOUTH	6	7
					EAST			WEST	NORTH
52	MUSAKHEDI	Musakhedi, Alkapuri, Yadav nagar, Prem nagar kakad ring road pani ki tanki, Musakhedi khati mohalla, Ajay nagar, Bagh colony, Firdos nagar, North musakhedi, paltan, Chandrapuri colony, Chirad mohalla, Khanwal mohalla, Ravi nagar, Gulab bagh, Babul nagar, Shreeram nagar road and settlement within the four dimensional xtents.	MPEB greed, PHE area, Tulsii to Bheel nagar, Musakhedi, palta, Musakhedi ring road junction to Mayur nagar.	Shreeram nagar, Bheel nagar, Musakhedi ring road junction to Mayur nagar.	Nemawar road, Udhyoog nagar, Gulab road, Muktigham, Pawapuri colony, Bhagwati bagich, nagar nalla to MPEB grid. Pawan putra nagar.	Kohinoor colony, Gulab road, Muktigham, Netram ka To MPEB grid.	Kohinoor road, Udhyoog nagar, Gulab road, Muktigham, Netram bagich, nagar nalla to MPEB grid. Pawan putra nagar.		
53	Dr.MOLANA AAZAD NAGAR	Aazad nagar, Aazad nagar gol choraha, Lok nirmam vibhag building, Purana aazad nagar, Indira chowk, Aazad nagar nai basti, Aazad nagar musakhedi, marg muktidham tak, Hussani chowk, Ganesh chowk, Gawai mohall, Water pump wali gali, Kali puliya aazad nagar, gop colony, Aazad nagar hussani maszid road, Noori nagar, Madira nagar, Sumati nagar, Kohinoor nagar, Meena palace, Aman nagar, Shabnam nagar, Gulshan nagar, Nafees nagar, Geeta nagar graha nirmam sansthan Samsaran ghat main road and settlement within the four dimensional xtents.	Ahilyapuri, Redio colony, Jagdishpuri Central jail.	MPEB grid, Jagdishpuri north, Firdos road, nagar to Ravi nagar ring road.	Pawan puri Teen imli Sq. to imli choraha ring road, Firdos road.	Pawan puri Teen imli Sq. to Sajjanagar sawad nagar, Prakash club culvert to azad nagar Sq.	Teen imli Sq. to Sajjanagar sawad nagar, Prakash club culvert to azad nagar Sq.		
54	RESIDENCY	New ekta nagar Ring road, Shanti nager, Aman nagar, Pink city, Bheel Idris nagar, Residency Income tax office, Custom exise quarter and jail parisar, Daily colledge, Krushi nagar, PTS campua area, Govt. 80 quarter, A.B. road Zoo, Doorsanchar parisar, Hari om prabha Nagal, Akshardham Nupur Nagar, Tulsii nagar,Residency area, Mayur nagar, Narmada project colony, colony to royal regency musakhedi, Musakhedi tempo stand A. B. road bank of India to shivaji Vatika, Satam park colony, Police petrol pump, Netram ka bagicha, Jagdish puri and settlement within the four dimensional xtents.	Shivaji vatica, Agriculture staff to pawan puta ram, Old society sihore road ring road to brijeshwari Ext.	Royal regency to agrawal colony Veerar staff to pawan puta Ram Musakhedi ring mohalla, road, to Alka compound, puri, Yadvay nagar muktidha Sq.	Shahin nagar, Indira nagar, Indira gandhi nagar, Parsi choraha, Jawara ring mohalla, Shivaji vatica Sq. to Azad nagar Sq. to Zoo to Indira circle A.B. road	Aazad nagar, Indira nagar, Indira gandhi nagar, Parsi choraha, Jawara ring mohalla, Shivaji vatica Sq.			

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary			
		EAST	SOUTH	WEST	NORTH	4	5	6
1	2	3						
55	<b>SOUTH TUKOGANJ</b>	South tukoganj, Jawara compound, Mathurawala sweet, Jhabua tower, Devi Ahilya University Parisar, Dhar kothi, M.Y. Hospital parisar, R.N.T Marg Sahagai colony, I.G. Bunglow, A.B. road White church Home Guard office, Choti gwaltoli, Banda compound, Railway hostel and quarter, Thana and reservation office, Railway hostel and quarter, Patel bridge, Murai Mohalla, Nasiya road, Traeser island, Nobel hospital, Chawani, Kibe compound, Kalyan vishrantii Grah, Rani sarai, Green park, Neharu pratima and settlement within the four dimensional xtents.	Shastri bridge railway line to M.G. road, Rigal Sq. road, palasia junction, Geeta shivaji road, Geeta Paricharika Nagar to daily bus collodge.	A.B. railway line to M.G. via bhawan junction, GPO, chawani, Nasia road Shastri Bridge.	Daily road via Geeta shivaji vatiqa, Patel bridge to Geeta nagar, trangle, Choti gwalloli, Paricharika nagar to daily bus stand, Railwaya under bridge.	under A.B. railway junction, Geeta shivaji road, Geeta shivaji road, Geeta shivaji road, Geeta shivaji road.	Medical hostei, via Geeta shivaji road, Patel bridge to Geeta shivaji road, Geeta shivaji road, Geeta shivaji road.	college, Sarvate bus stand, Under Bridge to Patel bridge to Geeta shivaji road, Geeta shivaji road, Geeta shivaji road.
56	<b>SNEHALATA GANJ</b>	Jeeven ki phel, Firoz Gandhi Nagar, Bansi Press Ki Chal, Chick Mangoor Sq. to Sai Bhawan Mandir, Shivaji nagar, Naya pura, Snehalata ganj, Usha fatak, Kachhi mohall nalla and settlement within the four dimensional xtents.	Kulkarni to via shivaji junction, Malwa nagar trangle, to nagar mill Sch.	New sijaganj to jail road, mohall chimanbagh, No. 91, Rajkumar talab, Malwa railway trake, to road, new sijaganji.	Malwa Shivaji Urdu trangle, Sikhs, Tiraha, mohalla to jail ashram	mill New sijaganji to jail road, mohall chimanbagh, Mewati junction, Ahillya Tiraha, mohalla to jail ashram	school, compound	Under bridge bhandari bridge, Kulkarni tiraha.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary			
		1	2	3	4	5	6	7
					EAST	SOUTH	WEST	NORTH
57	DEVI AHILLYABAI	Nagar nigam road, Nagar nigam quarter, Sutar gali, Ganji Compound, Jail road, M.G. road, Agrawal store to Ganesh cap mart, Devi Ahilya marg comp., Sabnis bagh, Shanti path, DRP line - Narayan bagh, Pant Vaidya colony, Ganesh colony, Jati colony, Rambagh, Tilakpath main road, Verdhman tower, Netaji subhash marg, Bhoi mohalla, Peer gali, chikmangloor junction to Imli bazar junction, Nirala Hanuman Mandir MPEB colony, Railway Colony, Juna tukoganj, Hemilton road, Pologround MPEB colony, Ahilyashram, Sikh Mohalla, New siyaganj, Mewati mohalla, Alka talkies, Imli Bazar, M.G. Road Fadnis Complex to Gandhi Hall, and settlement within the four dimensional xtents.	Choti khadi nalla Laxmibai track	kumhar to railway station, under Kothari bridge, MG road, under MPED bridge, Aglibaan press, Chimanhagh, jailroad, Mewati mohalla, Sikhmohalla tiraha, Juna mill wall, Urdu school, New siyaganj road, shastri under bridge up to Fire brigade quarter.	Shastri bridge, MG road, market Sadar to junction to ashram Rajwada.	Rajbada to imli bazar choraha, bazar to choraha, mohalla line to Narayan bagh tiraha to Pologround choraha, hospital	Rajbada to imli bazar choraha, Bhisti police line to Narayan bagh tiraha to Pologround choraha, TS! hospital	Rajbada to imli bazar choraha, Bhisti police line to Narayan bagh tiraha to Pologround choraha, TS! hospital
58	IMLIBAZAR	S.A.F. police line, Gafurkha ki bajariya, Badwali chowki, Shiv vilas palace, Subhash Marg Main road, South kamathi pura, North kamathi pura, Bakshi bagh, Bakshi baga Extn. Irrigation Colony, Batana kothi, Juna pitha, Subhash Chowk Kunwar mandi, Khajuri bazar Yashoda mata mandir, Juni Kasera bakhali, Dilipsingh colony, Shankar bag, Garib nawaj wali edgan sadar bazar ke pass, near nala, Bhishhati mohalla, Marathi mohalla, Ahilya paltan, North bajariya, Hakimji ka bagicha, Sadar bajar East & west, Sadar bazar , Sadar Main road, Ikbali colony and settlement within the four dimensional xtents.	Brahma puliya pologround junction	badhi to junction, Narayan pologround junction via Traingle to tiak shop, to Khajuri via Juna pitha, path man road bazar, Gorakund Badwali marimata.	Rajbada imambada bagh Sarafa bagh to North Kamathi junapitha road.	Rajbada imambada bagh Sarafa bagh to North Kamathi junapitha road.	Rajbada imambada bagh Sarafa bagh to North Kamathi junapitha road.	Rajbada imambada bagh Sarafa bagh to North Kamathi junapitha road.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary				
		1 2	3	4 EAST	5 SOUTH	6 WEST	7 NORTH		
59	HARSIDDHI	Prince yashwant road, Kanoongo bakhali, Resham wala lane compound, Pandharinath path, Aada bazar, Laxmi gali, Salvibakhali, Taji kunwar, Nandalipura, Jawahar marg, Shani mandir ke piche, Nandalipura main road sabji mandi, Veer sawarkar market, M.G. road, Rajbada chowk, Ramlaxman bazar, Nilipura, Gotampura, Rajesh nagar, Harsiddhi mandir ke pass, North harsiddhi bagiche ke pass pani ki tanki poloce chowki ke pass, Moti tabel, Koyla bakhali, Sunar ki bagichi, Harijan chatrawas Barakholi, Millat nagar, Shekhar nagar nai basti, Collector office and settlement within the four dimensional xtents.	Khajuri bazar to MG road junction, MG road, Jail road junction, Khatipura, Sanjay bridge, Jawaharmarg bridge, Nandalipura sabji junction, nandalai pura road, Chandra bhaga culvert, Alapura, Bainikaten, Jain sweet motitabela.	Jail junction, MG road, Khatipura, Sanjay bridge, Jawaharmarg bridge, Nandalipura sabji junction, nandalai pura road, Chandra bhaga culvert, Alapura, Bainikaten, Jain sweet motitabela.	GDC tiraha, Jairampur culvert, Chatribagh culvert, Macchi bazar culvert, Mohanpura jawahar marg, Piplibazar, Rajbada.	GDC to GDC tiraha, Jairampur culvert, Chatribagh culvert, Macchi bazar culvert, Mohanpura jawahar marg, Piplibazar, Rajbada.			
60	RANIPURA	Jawahar margmain road, Kosthi samji ki dham shala to siyaganj police chowki, Siyaganj, Ware house road, Mahesh joshi nagar, Ranipura main road, Mehtani market, Jagjeevanram Nai bagad, Siyaganj main road railway plateform no.5, maharani road, Chogala ustad marg, Ravida marg, Khatipura main road, North toda, South toda, Doultaganj, Champa bag, Kabutara khana and settlement within the four dimensional xtents.	MG road junction to Shastri bridge trake, railway line.	Jail junction to Shastri bridge trake, bridge, indore dham, Haatipala Harsiddi zone.	Haatipala under railway road Muktidham, Patel Bada, Juni Mahal mukti chandrabhaga to Harsiddi under bridge.	Haatipala under railway road Muktidham, Patel Bada, Juni Mahal kacheri Jawaharmarg, Premshukh bridge Sanjay setu, Khatipura choraha To MG road railroad junction.	Chandrabhaga culvert, Nandalai rawala, main road, kacheri Jawaharmarg, bridge Sanjay setu, Khatipura choraha To MG road railroad junction.		
61	TATYA SARVATE	Jabran colony compl,Pagnis paga,Juni Indore Police quarter,Alipura, Bargal colony, Godha colony,Tatyayarvate nagar Bhaat mohalla, , Bheem gali, Chandrabhaga main road west side Kamal road, Marimata ka Bagicha, Kallu Khan Ka bagicha, Prakash ka bagicha, Radhagovind ka bagicha, Balai Mohalla,Katkat pura complete and Main road, Mominpura and settlement within the four dimensional xtents.	Moti tabela	Gadi	adda	Juni bridge, Crossing to Manikagh junction, Motiabela	Indore bridge, Junii Manikagh junction, To Jain methai tiraha.	Moti tabela.	

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward				Ward Boundary		
		3	4	5	6	7		
		EAST	SOUTH	WEST	NORTH			
1	2							
62	RAWAJI BAZAR	Rawai Bazar, Jagjivanram Mohalla, Kumawat pura, Gadi adda, Brahmchari bagicha, Harijan mohalla, Jhopad patti and near railway track, Murai mohalla, Hathipala main road, Mali pura, Vyās phata complete, Shani gali main road, Chandrabhaga main road, Chandrabhaga Mahal Kachehri, Ganesh marg, Hardiya compound, Shradhanand marg main road, Kallai mohalla, Lunya pura, Loha mandi, main road, Anaj mandi, Panch sheel Nagar, Pathan Mohalla, Nursing Tekari, Kesar Bai ka bagicha, Savodai nagar and settlement within the four dimensional xtents	Chandra bhaga bridge to Bada Jagannath ravalai to juni Bridgew to Kalali indore muktidham railway under liva road bridge to Nasiya Patel nagar.	Sq. to Sindh Sadhu Mohalla Culvert Loha to Sneh nagar Railway line to Katkat rawaji Police thana to Balaimohalla.	Sindhi Sadhu nagar to Kalkat pura bazar Police thana to Balaimohalla.	Sindh Sadhu Nagar Railway line to Katkat pura bazar Police thana to Balaimohalla.	colony Chandrabhaga New vayani bridge. mandi	
63	NAVALAKHA		Janki nagar, Sneh Nagar, New Patel nagar, Chavani to naala, Chawani Museum, Agrasen Main road Shankar bag Bridge, Agrawal Nagar, Indira pratima bangali club to chawani Jagannath bridge area, Agrasen choraha main road, Parsi mohalla, Sapana sangeeta bajaj showroom, Navlakha bus stand to vishal tower area, Gulmohar complex, Vikas tower, Ramkrishna tower, Harsh deep tower, Visarjan Asharam, Bengali club, Shukla compound, Yadav compound, Prakash Hockey club area, Siremal batna hostel, Prestige tower, Shyamacharan shukla nagar, and settlement within the four dimensional xtents.	Kalali mohalla GPO choraha, naala, Chawani Museum, jagannath school Central pulya, Chawani school,Azad choraha, GPO.	Sawad cultivet, navlakha, BCM colony, house, Holker Sarvoday nagar, college, Vidhya Panchashile nagar to Sapna nagar, New anaj sanggeeta road.	nagar to Sapna nagar, New anaj sanggeeta road.	nagar Profeser road, BC colony, Holker Sarvoday nagar, Vidhya Panchashile nagar to Sapna nagar, New anaj sanggeeta road.	navlakha, Profeser road, BC colony, Holker Sarvoday nagar, Vidhya Panchashile nagar to Sapna nagar, New anaj sanggeeta road.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary			
		2	3	4	5	SOUTH	WEST	6
64	CHITAWAD	Nandanvan colony, Khandelwal nagar, Samwad nagar, Sajan nagar, Nemawar Prakash nagar, Shiv kripa colony, Jawahar dal mill, Koshiya puri, Jagannath ki chal, Anand nagar & Extn., Mangal murti nagar, Gajadhar nagar, Gul mohar kabagicha, Shivmotti nagar, B.J. Vijay vihar, Radha swami nagar, Chitawad choraha, Art and commerce college, Triveni nagar nai basti, Teen imli choraha to assaram bapu choraha, Abhinay nagar, Chitawad kakad, Narmada nagar, Lalbahaddur shastrti nagar, Pawar nagar, Pawan puri, Durga nagar, Ansari bagh, Gulmohar ka bagicha, University Campus, Ankur Awas Grhi Nirman and settlement within the four dimensional xtents.	Tower Vidhya Janki nagar, Nagar, Imli culvert nali, Nagar, Navlakha choraha, Sawad nagar culvert.	Sawad nagar, culvert toTeen imli ring road. Pawanpuri tiraha Nemawar road.	Nemawar Nagar, Kakad, IET college to Palada Village to boundary.	Khandwa road IT Bhawar and Vidhya nagar.	Khandwa road IET college to Bhawar kua.	
65	SANT KAWAR RAM	Khatiwala tank M& R, Sadhu waswani nagar, Harijan colony, New Loha mandi, Bapu nagar, gadi adda, Jaihind nagar near devshree talkies, Jagrati nagar, Sindhu nagar, Berathi-colony, BK sindhi colony, Veer sawarkar nagar, Jeevandeep colony, Sch. no.31, Joshi colony, Sadhu basant shah colony, Professor colony & Jhopade and settlement within the four dimensional xtents	Harijan colony nagar, sangeeta main road.	Panchsheel nagar, Patel sangeeta tower chouraha, line, Juni indore sangeeta road.	Sapana tower gurmeet main road.	Sapana tower gurmeet main road.	Manik bagh bridge railway line to Badri colony culvert to Badri railway line.	Manik bagh bridge railway line to Badri railway line.
66	SHAHEED HEMU KALANI	Pratap nagar, Gopal bag, Baramattha, rajabagh, Gurunanak colony, Kartbala maidan, Dhoibighat, Malwa kanya campus hemson colony, Vasudev nagar, Lalbagh main road, Ladhana nagar, Prem nagar A,B and C sec., Palsikar colony, Dubey colony, Sadhu nagar, Jayashree sindicate colony, Adarsh nagar, Javery colony, under Manik bagh bridge Sch. no. 101, Vyankatesh market, Roop ram nagar, Triveni colony, Rajmahal colony, Model village colony, Palace colony, Orange county, Adarsh nagar Lalbag Line, Manik bagh main road, and settlement within the four dimensional xtents	Lal bagh palace	Sonkar samaj shala, indore line to hemu kalani Juni bridge	Sonkar samaj shala, indore line to hemu kalani Juni bridge	Manik bagh railway line.	Manik bagh railway line to Badri railway line.	Manik bagh railway line to Badri railway line.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary			
		1	2	3	4	5	6	7
					EAST	SOUTH	WEST	NORTH
67	MAHARAJA HOLKAR	Chatri bag, Prem kumari Hospital parisar, Chandmari compound, Syam shivam sundaram apartment, Kanjar mohalla chatripura thana, Mahunaka, Chatribagh police line, Ramdwara marg, Joshi mohalla, Barabhi, Sethi nagar, Lodha colony, Rajaswa gram, Rajput samai bagichi, Jairampur colony, Katju colony Jamana nagar, Jawahar nagar, Jamna nagar zopad patti, Arjun pura multi story & Jhopad patti, Balda colony complete and settlement within the four dimensional xtents	Kadav Chatribagh pulya.	Kadav ghat, Saraswati river culvert to Mahuto naka junction. culvert to GDC tiraha.	GDC, Karbaka Badri baga nala colony culvert to RTD road Lal baga tiraha.			
68	BAMBALI BAZAR	Mohanpura, Bambal bazar, Jawahar marg main road agar hotel, Udapura, Mukeripura, Pijnara bakhali, Kadaw ghat, Isak pehlwan ki chal roshan pura, Macchi bazar, Nayapitha, Silawat pura, Tatpatti bakhali, Kagdipura, Ravidaspura, Kagdipura main road (Controle shop wali gali, diamond stationary to hakimi glass) and settlement within the four dimensional xtents	Santha Bajaj chowk, bazar, marg.	Laxman khana Macchi bazar, Piple choraha nalla to Chatri bagh nalla. To Gangaur ghat to rasvagram	Rajaswa bajar, Rajaswa gram, Biyabani main road, Jangampura tiraha, lodhipura, Narsingh bazar choraha, jawahar marg.			
69	JAWAHAR MARG	Lohar Patti main road, Malganji Bhagat singh marg, Lodiipura, Old rajmohalla, Jangam pura, Bijabani, Dhar road, Itwariya bazaar, Narsingh bazar, Hukumchand marg, Nailiya bakhali, Sittamata bazar, Cloth market, Shakkar Bazi, Morsali gali, Pipi bazar, Bajaj khana, Santha bazaar, Marothiya bazar, Bohara Bakhali, Dhargali bada sarafa thana, Chota sarafa, Mahaveer marg, Maulana azad marg, South rajmohalla, Gulab park colony, Mahesh nagar, Bhakt Prahalad das nagar, New manesh nagar, Girdhar nagar, Malganji jawahar marg, Samajiwad nagar, Taran pushtakar road, Verdhamaan nagar, Labariya bheru Bharat petrol pump area and settlement within the four dimensional xtents	Antim Kailash marg, Loharpatti, Khajuri bazar, main road, Morsali gali, Pipi bazar, Gorakund choraha.	Mhow Rajbada, Kanoongo bakhali, Jawahar marg, bazar, main road, Gorakund choraha.	Mhow naka chouraha, chouraha. M.O.G Line Labariya Bheru, Raj mohalla Sq. Harijan colony, Girdhar nagar to Panchkuinya Mukti dham road.			

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary				
			1	2	3	4	5
			EAST	SOUTH	WEST	NORTH	
70	LOKNAYAK NAGAR	Rajmohalla, Harijan colony, Gulabai ka bagicha, Sulkakheji, Aadarsh Indira nagar main road, Chandmari Brick bhatta, Gangabai joshi nagar, Loknayak nagar, Panchamurti nagar, Hari om Nagar, Jalaram nagar, Dhar road to Khalsa school, college parisar back side, Mali mohalla , Mali mohalla zopad patti, Labriya bheru comp., Shreekrishna colony, Shreehari socity, GNT market, Dhar road kinti garden to Gadariya mohalla dhar road and settlement within the four dimensional xtents	Rammarand Indira Labiya bheru, Indira zopad junction.	Gulab park, Vaishav school stand, Dhar road Kinti garden.	Gangawal bus stand, Dhar road Kinti garden.	Ganga colony, Ramanand nagar.	
71	DRAVID NAGAR	David nagar , Dravid Nagar police line, Vishvakarma Nagar Bank Colony, Usha nagar main, Ushanagar NX, Samaj Vadi Indra Nagar ,Swastik Nagar MOG lines, indore eye hospital, Cloth market Hospital, Gangwal Busstand, Chandmari compound, MOG lines Nakoda Palace Shri Nath Tawar Murgi Palan Kendra Parisar Housing Board Appartment . and settlement within the four dimensional xtents	Kasturi cinema M.P.E.B.Office, LabhyaheruChou Sarafa School, Mhaw Magaveer Nagar, Annapurna Pani Ki Tanki tak	M.P.E.B.Office, Mhaw Magaveer Nagar, Annapurna Pani Ki Tanki tak	Suddama Nagar MainRoad Dayala Gate	Dudama Nagar Post office, Govt Altradevi School, Vishram Bag SecNo. 71 Milk Colony Timber Market,Mali Mohila ,Dha rRoad Kastoor Seenima	
72	LOKMANYA NAGAR	Mahawar nagar, Revenu nagar,, Nidhi vihar Gyarahi junction, Lalbagh RTO office, Ghanshyam das Kranti colony tiraha to nagar railway line.Gyatri	Lal bagh palace, Gayatri nagar gate, kruplani das Ghanshyam das Kranti colony tiraha to nagar railway line.Gyatri	Indra RTO road tiraha. Aurvedic college annapurna road.	Annapurna road, Unic hospital usha nagar Ex., usha nagar mhow junction		

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary		
		2	3	4 EAST	5 SOUTH	6 WEST	7 NORTH
1		Khatiwala tank, BSNL colony, Saifee nagar buildinds, Jaiaswal ki chaal, Noori colony, Gulzar colony, New saifee nagar, Fadnis colony, Vijay palace(nagar), BSNL Nandanvan colony, Noori Colony Gulzar Colony New road, Brook bond colony, Ashoka colony, Purandas ka bagicha, Sch.no. 102, Shyam nagar, Saifee nagar Main & Zopde Pati , Ghanshyamdas nagar, Labahadoor shastri nagar Fakhari Manjil ,Kutubji Margil,MohameedMangil Badri Bag and settlement within the four dimensional xtents	Mankbagh railway bridge to road, Khatiwala quarter nagar, Mechanic tank, Khatiwala main road, Guru Daware nagar, choithram bridge.	Khatiwala tank Transport bridge to nalla nalla railway lokmanya culvert RTO manibagh bridge via Railway line.	Choitram Indira gandhi nagar RTO road rajmahai colony to via Railway line.	Choitram Indira gandhi nagar RTO road rajmahai colony to via Railway line.	
73	LAXMANSINGH CHOHAN						
74	VISHNUPURI	Anand Nagar Tower Chouraha Ke Pass, Gurmeet nagar, Shaheed Bhagat singh Colony, Piplaya Main Road 'Banshi Dham, Ashok nagar, Vidhya nagar, Holkar Cleage to Bhawar Kua Chouraha, Indrapuri, Anantpuri, Ahillyapuri, Shivam puri, Girdhar nagar, Mangal Nagar, Achitya Nagar , Piplya rao, Sarvanand Nagar, Nanak Nagar, nanak palace, hargovind nagar, Bholaram Ustad Marg Ambika puri, Jagannathpuri, Banshi Dham Piplaya Pala Goan Main Road , Bhawar Kua Thana , Soyabeen Campus Soniya Gandhi Nagar ,BholaNagar Gujar Nagar, sneha Vihar, Jeet nagar, Eand settlement within the four dimensional xtents	Transport nagar Khatiwala Bhagwandee tank, Siffe nagar, Holker nagar, SBI colony, Tower kua choraha, choraha, Profisser Colony Patel Nagar, Sapna Sangeeta Main Road .	Krishnoday nagar, Bhagwandeen nagar, Bank college, Radaswami satsang nayas.	Choithram Sant choraha, Choithram hospital to Manik Bag Transport nagar road.	Choithram Sant choraha, Choithram hospital to Manik Bag Transport nagar road.	
75	PALDA				Khandwa road chitawad kakad Nemawar to road, Pawanpuri, Udag Nagar, Dhan Nagar Davgurady Village	Ralamandal Seem,Mirzapur village	Limbodia Village, Khadwa road to Chitawad kaked.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary				
			1	2	3	4	5
			EAST	SOUTH	WEST	NORTH	
76	MUNDLA NAYTA	Bicholi mardana, Bicholi hapsi, Tigriya Rao, KanadiyaVillage and settlement within the four dimensional xtents	Omax City, Khatri Ramgar Khedi, Bangan Badiya Kima, Khedi Goan,	Ramgar Goan Devgaradiya.		Dhanlaxmi Nagar,Shiv Nagar,Sanjana Park, Bijali Nagar,Moriya Hills to Kanadiya Main Road Bye Pass, OmaxCity	
77	BILAWALI	Ekta nagar, Kushwan ka bagicha, Sant nagar palace, Sant nagar, Ganesh nagar, Phuta pala, Krashoday nagar, Rajiv Gandi Circle Puliya To MR - 3 Road , Maa Vihar Colony, Amar palace, Mahadev nagar shifting Houses, Bilawali Village, Fathan Khedi Village, Kaliod kartal village, Limbodi Village, and settlement within the four dimensional xtents	Choithram choraha to Raia Piplya road, Rajiv Gandi nagar, to Khurd, Khandwa road. Radha Swami Satsang Nyash, Paida Village	Mundla naita, Mandla, Matal, Matal	Morad village, Machai village,Nihalpur Mandi, Sanjay nagar, Hukma khedi, Bijapur, Tejpur gadbadhi culvert A.B. road to Choithram choraha.		
78	CHOITHRAM	Raj township, Holker apartment Block A,B,C, Swami dayanand nagar, Choithram hospital Parisar , Sch.no. 59, Ametesh nagar, Basant puri, Golden Palace, Falbagh Area, Nalandha parisar, Keshar bagh road, Samath colony, Shubham residency, Bijalpur Tejpur Gadbadhi A.B.Road Indrajeet Nagar I.D.A Colony Indrajeet Nagar Jhopre Sec.No.104 Godha Colony, New Prakash Nagar, Sabji Mandi, Ful Mandiand, Boliya Sarkar Bunglow, Mahadev Naga Raja Rani Nagar Raj Point, Blowman Malhari Martand and Samane Ki Patti , Bheem Nagar Gandi Basti, Nema nagar,Bijalpur gandi basti, Narmada control room to arjun nagar basti, Chappri Village Gangor nagar, Martand Nagar Pawan Putra Nagar settlement within the four dimensional xtents	Ayurvedic college, Railway line, Choithram nalla Choithram culvert.	Choithram culvert line Choithram to choraha, Choithram culvert.	Bijalpur A.B. railway line. Rajendra road to choraha, A.B. railway line. Tejpur road gadbadhi muktidham, Martand nagar, Bijalpur school.	Rajendra talab, Rajendra road , Rajendra nagar railway line to Arurvedic collage railway line.	

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary			
		1	2	3	4	5	6	7
				EAST	SOUTH	WEST		NORTH
79	<b>SUKHNIVAS</b>	Sukhnivas village, Ahirkhedi village, Hukmalkhedi village, Nihalpur mundi Village and settlement within the four dimensional xtents	Bak Sirpur Hawabangla, Sukhnivas road CAT choraha to ret choraha, Railway line A.B. road, Vitthal mandir,to bilawali village.	Billawali, Fatankhedi, Kailod kartal.	Machal village, Silicon city A.B. Bank road to Sindoda village railway crossing.	Sindoda village, Goan Seema Tak via		
80	<b>Dr.RAJENDRA PRASAD</b>		Rajendra nagar Sampurn , Railway quarter, Krishna nagar, Mamata nagar illegal colony,Pragati nagar ke jhopade near kuan, Budh Nagar Zopre, VIP Paraspar Budh Nagar Ka jhope declared gandi basti, Jawahar nagar, Rajesta nagar, Pragati Nagar,arashar Nagar Dhanvantari nagar, Tiwari nagar, Choice Palace Colony, Vigyan nagar, Dhanashree colony, VIP Paraspar Ring Road East Side; Vishal nagar, Ahilya nagar, Bhoj nagar, Vaishali nagar all sector , Surdaswan Nagar, Brajvihar colony, Siddhipuram, Takshashila Parisar, Sandapani Colony, Police Line , Government Women Ploytencie, Jila Shiksha Kendra' DIET Bhoj Mukt university, Rajendra Nagar Naka' and settlement within the four dimensional xtents	vaishali choraha to annapurna main daddichi road via choraha,A.B.Ro chanakya	Datta puri to railway line to CAT choraha via choraha,A.B.Ro puri ad and Petrol Pump	nagar line to Sukhnivas road, Surya dev Khedi nagar, road, Seema Tak Pump	CAT choraha to railway line to Sukhnivas road, Ring road, Grater vaishali choraha.	

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary			
		2	3	4	5	6	7	
		EAST	SOUTH	WEST		NORTH		
81	ANAPURNA	Gopur extention, Grater vaishali, Suryadev nagar Daak taar colony, Siddhipuram colony, Satyadev nagar, Paraspar nagar, Sahajeevan nagar, Prikanco colony, Gopur colony, Mishra nagar, Annapurna nagar, Bhawani pur colony, Godbole colony, Alankar parisar, Krantikrupalani nagar, Janseva nagar garib basti, Patte wali, Devendra Nagar, gitti khadan, Gayatri nagar, Prabhu nagar, Saraswati nagar,Silverox colony, Chankypuri, Umesh nagar, narmada nagar and settlement within the four dimensional xtents	Dashara maidan.	Moon colony, nagar, Parshwanath nagar, Alankar Palace railway road, RTO crissing to Dadichi railway crossing.	Dadichi railway crossing Vinay choraha, Alankar vaishali choraha road, RTO ring road, buddhanagat to Dadichi Sukhniwas road.	Sukhniwas road, Hawa bangala, Sudama nagarsec. E, Grater vaishali choraha, RTO ring road, buddhanagat to Sudama nagar D 60 feet road to dashara maidan.		
82	SUDAMA NAGAR	Sudama nagar sec.B , Sudama nagar chorasiya sec. Sudama Nagar D, Ring road Jhopad patti, sudama nagar N.P. sec, SudamaNagar E Sec., Shantinath puri, Shree ram nagar, Parivahan nagar, Gurushankar nagar and settlement within the four dimensional xtents	Futikothi road, colony, Annapurna.	Annapurna ring Bank GodBola Colony to Bhawaní Nagar, Nagar Nagar, Prikanko colony, greater Nagar Vaishali Square .	Grater vaishali nagar, Suyadev Goan to Boder.Rishi Palace, Vidur Dwarka Puri, Footi kothi.	Aahir khedi		
83	GUMSHTA NAGAR	Gumashtha nagar,Sch. No. 71 A,B,C,D, Saletax colony Sudama Nagar sethi Gate area, Mahaveer Gate Area, Sudama Nagar A Sec. and settlement within the four dimensional xtents	Dhar chandan junction to Jila aspatal.	Timber marker Milk colony, Sch. road No.71 to Ranjeet hanuman road, Narendra sec.E Tiwari marg to Annapurna main road.	Annapurna main road, Kranti road No.71 to krupalani gate to sudama nagar to chandan nagar junction.	Dwarkapuri, Kraniti Sch.no.71 via Footikothi ring road, Dshahar maidan.		
84	DWARKAPURI	Dwarkapuri, New Dwarka Puri Gwala, Colony Ring Road Jhopre and settlement within the four dimensional xtents	Chota talab.	sirpur Sch. No. 71 C and D sec.	Parivahan nagar, FutiKothi,Sudam a nagar Sec E.	Prajapat nagar, Rushi Palace Sai Baba Nagar Chota sirpur talab.		

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward			Ward Boundary		
		1 2	3	4 EAST	5 SOUTH	6 WEST	7 NORTH
85	PRAJAPAT NAGAR	Prajapat nagar, Astha palace, Aakash nagar, near chota sripur talab, Shradhha saburi colony, Rishi viharcolony, Rishi palace colony, Shree rishi palace colony, Astha puliaya, palace, Vardhaman nagar, Bada sirpur talab, Sai baba sirpur talab, nagar and settlement within the four dimensional xtents	Dhar Road Bock Goan' Raja gwalla Nagar Dwarka Chota New dwarkapuri, Parivahan nagar.	Harihar colony, nagar. puri, Shankar Nagar Aalin khedi.	Parivahan colony, nagar. Guru Nagar	Sihayan Goan	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
 SANJAY DUBEY, Commissioner, Indore Division.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, इन्दौर, मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 7 जून 2014

क. 164 / डी.यू.डी.ए. / 2014 मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क. 4-520 अठारह-3-04 दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं जैड.यू. शेख, कलेक्टर जिला कटनी एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद बरही जिला कटनी के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ।

--: अनुसूची :-

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
1.	वल्लभ भाई पटेल वार्ड	8.	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
2.	महाराणा प्रताप वार्ड	9.	महात्मा गांधी वार्ड
3.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड	10.	मौलाना आजाद वार्ड
4.	चंद्रशेखर वार्ड	11.	इंदिरा गांधी वार्ड
5.	डॉ. राम मनोहर लोहिया वार्ड	12.	विवेकानंद वार्ड
6.	जवाहर लाल नेहरू वार्ड	13.	विजयनाथ वार्ड
7.	शहीद भगतसिंह वार्ड	14.	शिवाजी वार्ड
		15.	राजीव गांधी वार्ड

### वार्ड क्रमांक 01 वल्लभ भाई पटेल वार्ड :-

उत्तर -- पॉवर कम्पनी से नगर पालिका कार्यालय एवं एम. सी. शर्मा के मकान से रामनारायण तिवारी होते हुये विशम्भर तिवारी, सुनील राव के मकान तक।

पूर्व -- जगदीश प्रसाद गुप्ता से विशम्भर तिवारी के मकान तक।

दक्षिण -- नगरपालिका शाला भवन से जगदीश प्रसाद गुप्ता(सुप्रिम टेलर) के मकान तक।

पश्चिम -- पुराने नगरपालिका के विजयराघवगढ़ रोड होते हुये द्वारिका कुम्हार के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 02 महाराणा प्रताप वार्ड :-

उत्तर -- जग्गू गोड के मकान से पेट्रोल पम्प तक।

पूर्व -- पुन्ना गोड के मकान से सुककी अहीर के मकान तक हरतला मोहल्ला सम्पूर्ण।

दक्षिण -- तुलसीराम के मकान से किशोरा ढीमर के मकान तक।

पश्चिम -- पुरुषोत्तम शर्मा के मकान से रामसमुझ तिवारी के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 03 डॉ० भीमराव अम्बेडकर वार्ड :-

उत्तर -- पेट्रोल पम्प से मोहन यादव के मकान तक।

पूर्व -- श्यामलाल महतेल के मकान से रामलला मंदिर के पीछे जगन बसोर के मकान तक।

दक्षिण -- धनेन्द्र कुमार गुप्ता के मकान से मल्हा कोरी के मकान तक एवं बुजकिशोर तिवारी के मकान से होते हुये त्रिवेदी ऑफसेट से हनुमान मंदिर से होते हुये महादेव श्यामलाल महतेल के मकान तक।

पश्चिम -- पेट्रोल पम्प (डोली रोड) से धनेन्द्र गुप्ता के मकान तक एवं राजेन्द्र गुप्ता के धान के मिल से दिनेश वंशकार के मकान तक तथा रामकृपाल महापात्र के मकान से गिरिजा सोनी के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक 04 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड :-**

**उत्तर** — बऊआ काढी से हरिजन बस्ती होते हुये रामलला मंदिर हनुमान मंदिर तथा कन्छेदी बसोर के मकान से होते हुये तीरथ बसोर एवं रघुनन्दन कोरी के मकान से डोली रोड तक।

**पूर्व** — लल्ला बसोर से रामविशाल पंडित एवं रुपनारायण के मकान से होते हुये श्यामलाल हीरालाल एवं मोतीलाल महतेल के मकान से होते हुये श्यामकिशोर द्वारिका प्रसाद के मकान तक।

**दक्षिण** — अमृतलाल गुप्ता के मकान से रामविशाल के मकान से होते हुये रामकिंकर गुप्ता दिनेश जनरल स्टोर्स तक।

**पश्चिम** — महरोई वाले गुप्ता के मकान से रामकिशन गुप्ता के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक 05 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड :-**

**उत्तर** — बालाप्रसाद अग्रवाल के मकान से शिवनाथ ताम्रकार के मकान तक।

**पूर्व** — सोनीलाल श्रीवास्तव के मकान से अंसारी के मकान तक।

**दक्षिण** — धनुषधारी के मकान से शिवप्रसाद गुप्ता के मकान तक एवं लच्छी कचेर के मकान से शारदा श्रीवास्तव के मकान तक।

**पश्चिम** — रेवा प्रसाद श्रीवास्तव के मकान से धनुषधारी के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक 06 जवाहरलाल नेहरू वार्ड :-**

**उत्तर** — रामवतार गुप्ता के मकान से रामग्रोपाल अग्रवाल के मकान तक।

**पश्चिम** — तीरथ ताम्रकार के मकान से नथू गुप्ता के मकान तक।

**पूर्व** — विश्वनाथ सोनी के मकान से(कपड़ा दुकान) से अश्विनी कुमार सोनी से होते हुये माधव प्रसाद सोनी के मकान से होते हुये गणेश ताम्रकार के मकान तक।

**दक्षिण** — गणेश प्रसाद ताम्रकार के मकान से विष्णु सोनी के मकान तक।

**पश्चिम** — जगदीश गुप्ता(होटल) से विष्णु सोनी के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक 07 शहीद भगत सिंह वार्ड :-**

**उत्तर** — गोपाल सोनी के मकान से पुरुषोत्तम अग्रवाल के मकान तक।

**पूर्व** — पुरुषोत्तम अग्रवाल के मकान से हरिप्रसाद सोनी के मकान तक।

**दक्षिण** — बिहारी सोनी के मकान से दीनानाथ गुप्ता के मकान तक एवं आर.पी. पाण्डे के मकान से बच्चू सोनी के मकान तक।

**पश्चिम** — अकाली सोनी के मकान से तीरथ प्रसाद हरछठ सोनी के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक 08 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड :-**

**उत्तर** — कपूर चन्द अग्रवाल के मकान से बाजार कुओं होते हुये किशनलाल बनारसी के मकान से होते हुये रुदरत् तिवारी के मकान तक।

**पूर्व** — रुदरत् तिवारी के मकान से कन्छेदी साहू के मकान से होते हुये बारसी (शरीफ खान) के मकान तक।

**दक्षिण** — खैरुददीन, नथू वगैरह के मकान से होते हुये हफीज के मकान तक, हफीज के मकान से सरस्वती शिशु मंदिर की ओर तथा सरस्वती शिशु मंदिर से पप्पू भाईजान के मकान से होते हुये रफीक के मकान से होते हुये रामशरण वर्मा, कमला बर्मन से होते हुये नथूलाल सोनी तक।

**पश्चिम** — नथूलाल सानी के मकान से रामदयाल अग्रवाल के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 09 महात्मा गांधी वार्ड :-

**उत्तर** — नत्थू गुप्ता के मकान से शिवदयाल गुप्ता, रामकृष्ण पटेल, सतैंयॉ धोबी के मकान से शम्भू धोबी के मकान की ओर शिवगोपाल गुप्ता से रमेश श्रीवास्तव के मकान से होते हुये लक्ष्मी गुप्ता के मकान तक।

**पूर्व** — लक्ष्मी गुप्ता के मकान से बोकारो के कार्यालय तक।

**दक्षिण** — बोकारो कार्यालय से बैंक कालोनी से होते हुये भिखारी कोल के मकान से तीरथ ताप्रकार के मकान तक।

**पश्चिम** — तीरथ ताप्रकार के मकान से नत्थू गुप्ता के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 10 मौलाना आजाद वार्ड :-

**उत्तर** — रमेश गुप्ता के मकान से रामविशाल सोनी के मकान होते हुये मुन्नालाल सोनी के मकान तक।

**पूर्व** — शंकर, बहौरी कुम्हार से मुख्य मार्ग होते हुये सियाराम काढ़ी के मकान होते हुये गोरेलाल सोनी के मकान तक।

**दक्षिण** — सियाराम काढ़ी के मकान से काशी गुप्ता के मकान तक।

**पश्चिम** — काशी गुप्ता की दुकान से ददू साहू के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 11 इंदिरा गांधी वार्ड :-

**उत्तर** — पम्प हाऊस से खेत एवं नाला होते हुये विजयनाथ मंदिर तक।

**पूर्व** — यात्रीकर नाका के खितौली रोड होते हुये मोटर स्टैंड से विजयराघवगढ़ रोड स्थित नगरपालिका पम्पहाऊस तक।

**दक्षिण** — अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग क्वार्टर के पीछे काढ़ी मोहल्ला के पीछे होते हुये यात्री कर नाका तक।

**पश्चिम** — विजयनाथ मंदिर से लोक निर्माण विभाग क्वार्टर के पीछे तक।

### वार्ड क्रमांक 12 विवेकानंद वार्ड :-

**उत्तर** — विजयसिंह ठाकुर के मकान से होते हुये प्राथमिक शाला भवन होते हुये सुरेश के मकान तक।

**पूर्व** — सुरेश के मकान से मोहन के मकान से होते हुये जवाहर कोल, सिब्बू चौधरी के मकान से होते हुये मुन्नीबाई बर्मन के मकान तक।

**दक्षिण** — मुन्नीबाई बर्मन के मकान से होते हुये अशोक तिवारी के मकान तक।

**पश्चिम** — अशोक तिवारी के मकान से होते हुये बुद्ध काढ़ी के मकान से होते हुये सियाराम के मकान से विजय गोड के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 13 विजयनाथ वार्ड :-

**उत्तर** — राजेश चौधरी के मकान से पुनिया के मकान से होते हुये रामदास, रामदीन के मकान से मुन्नु बर्मन के मकान तक।

**पूर्व** — राजेश चौधरी के मकान से खलील के मकान से होते हुये पचई कोटवार के मकान तक।

**दक्षिण** — पचई कोटवार के मकान से बुद्ध काढ़ी के मकान तक सम्पूर्ण छिंदिया मोहल्ला।

**पश्चिम** — मुन्नु के मकान से बुद्ध काढ़ी के मकान तक।

**वार्ड कमांक 14 शिवाजी वार्ड :-**

**उत्तर** — रेल्वे कालोनी के अमृतलाल के मकान से होते हुये अशोक के मकान से होते हुये भैयालाल काछी के मकान तक।

**पूर्व** -- भैयालाल काछी के मकान से होते हुये कन्छेदी परस्ते से प्राथमिक शाला भवन होते हुये लाला काछी के मकान तक।

**दक्षिण** — (हीरापुर) लाला के मकान से रामदीन काछी के मकान से होते हुये ज्ञानेन्द्र तिवारी के मकान से मधु चौधरी के मकान तक।

**पश्चिम** — मधु चौधरी के मकान से जमुना के मकान होते हुये बुद्ध बर्मन के मकान से होते हुये दुर्गा शिशु मंदिर होते हुये अमृतलाल के मकान से रेल्वे स्टेशन कालांनी तक।

**वार्ड कमांक 15 राजीव गांधी वार्ड :-**

**उत्तर** — खितौली रेल्वे पुलिया से रेल्वे कार्यालय होते हुये रेल्वे पुलिया नम्बर दो तक।

**पूर्व** — रेल्वे पुलिया नम्बर दो से होते हुये गणेशा गोड के मकान तक एवं केसर रोड(ददरा प्लान्ट) के दक्षिण में निर्जन के मकान तक।

**दक्षिण** — निर्जन के मकान से राजेन्द्र मल्लाह तक।

**पश्चिम** — राजेन्द्र मल्लाह के मकान से रज्जू गोड कन्छेदी के मकान से होते हुये अंसारी तथा समसुद्दीन के मकान से रेल्वे पुलिया तिराहा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जैड. यू. शेख, कलेक्टर.

कटनी दिनांक 07 जून 2014

कं. 164 परिसीमन—कटनी—भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कं. 164 परिसीमन—कटनी—2014 दिनांक 07.06.2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जैड. यू. शेख, कलेक्टर.

**OFFICE OF COLLECTOR DISTRICT KATNI MADHYA PRADESH**  
**Katni Dated 07 June 2014**

No. 164/DUDA/2014 in Excersie power conferred As per Notification of the Urban administration and Development Dept of Government of Madhya Pradesh I Z.U. SHEKH Collector Dist Katni M.P. under Section 29 (1) of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 no 37 of 1961. I hereby determine the extent of ward Nagar Parishad Barhi Dist Katni as Schedule velow.

**WARD NO. 1 VALLABH BHAI PATEL WARD :-**

**North** - In the north from power company to office of municipile council & from house of M.C. sharma passing through Ramnarayan Tiwari to vishambhar tiwari upto the house of muneem raw.

**East** - In the east from the house of jagdeesh pd. Gupta upto house of Vishambhar Tiwari.

**South** - In the south From Municipile school upto house of jagdeesh pd. Gupta(Supreem Tailors)

**West** - In the west from office of munucipal council passing through vijayraghavgarh road upto house of dwarika kumhar.

**WARD NO. 2 MAHARANA PRATAP WARD:-**

**North** - In the North from the house of jaggu gond upto the petrol pump.

**East** - In the east from the house of punna gond upto the house of jhukki ahir complete hartala mohalla.

**South** - In the south from the house of tulsi ram upto the house of kishore dheemar.

**West** - In the west from the house of purushottam sharma upto the house of ram samujh tiwari.

**WARD NO.3 DA. BHEEMRAV AMBEDAKAR WARD:-**

**North** - In the North from petrol pump upto the house of mohan Yadav.

**East** - In the east from the goshela of rambhawan mahapatra upto the house of mohan yadav.

**South** - In the south from the house of dhanendra gupta passing through flag stone gali to mallah kori & house of vishal basor upto rambhawan mahapatra's goshala.

**West** - In the west from petrol pump (Doli Road) upto the house of dhanendra gupta.

**WARD NO.4 CHANDRA SHEKHAR AZAD WARD:-**

**North** - In the north from the house of babua kachhi passing through harijan basti to ramlala temple to hanuman temple to kanchhedi basor to the house of teerath prasad basor to house of raghunandan kori upto doli road.

**East** - In the east from the house of lalla basor to ramvishal pd. & from the house of rupnarayan passing through shyamlal, heeralal & motilal mahtel to passing through the house of shyamkishor dwarika prasad.

**South** - In the south from the house of amritlal gupta to ramvishal pd. passing through upto the ramkinkar gupta dinesh jeneral stores.

**West** - In the west from the house of gupta of mahroi upto the house of ramkishan gupta.

**WARD NO. 5 DA. RAMMANOHAR LOHIYA WARD: -**

**North** - In the north from the house of Bala Pd- Agrawal upto house of shivnath tamrakar.

**East** - In the east from house of sonilal shriwastava upto house of Ansari.

**South** - In the south from house dhanushdhari agrawal to the house of shiv pd. Gupta & from house of Sharda shriwastav

**West** - In the west from the house of reva prasad shriwastava upto the house of dhanushdhari.

**WARD NO. 6 PD. JAWAHARLAL NEHRU WARD:-**

**North** - In the north from house of ramawatar gupta upto house of ramgopal agrawal.

**East** - In the east from the house of vishwanath soni passing through house of ashwini kumar soni to house of madhav pd. Soni upto house of Ganesh Pd. Tamrakar.

**South** - In the south from the house of Ganesh Pd. Tamrakar upto house of vishnu soni.

**West** - In the west from hotel of jagdeesh gupta upto house of Vishnu prasad soni.

**WARD NO. 7 SHAHEED BHAGAT SINGH WARD:-**

**North** - In the noth from the house of gopal soni upto house of purushottam agrawal.

**East** - In the east from the house of purushottam agrawal upto house of harpd. Soni.

**South** - In the south from the house of bihari soni to house of deenanath gupta & from house of R.P. pandey to hause of bachchu soni.

**West** - In the west from house of akali soni to teerath pd. Upto house of hardatt soni.

**WARD NO.8 LAL BAHAUDUR SHASTRI WARD :-**

**North** - In the north from the house of kapoorchand agrawal to market well passing through to the house of kishanlal banarasi passing through upto the house of rudradatt tiwari.

**East** - In the east from the house of rudradatt tiwari to the house of kanchhedi sahu passing through upto the house of warsi(shareef khan).

**South** - In the south from th house of Khairuddin, natthu & all passing through the house of hafij to ther road of saraswati shishu mandir & from the saraswati shishu mandir to the house of pappu bhajan passing through to the rafik' house then passing through ramsharan verma, kamla verma then passing throuth upto the nattulal soni.

**West** - In the west from the house of nattulal soni upto the house of ramdayal agrawal.

**WARD NO. 9 MAHATMA GANDHI WARD:-**

**North** - In the east from the house of natthu gupta to the house of shivdayal gupta, sataiyan dhobi to the direction of shambhu dhobi's house where shivgopal gupta . From shivgopal gupta to the house of ramesh shriwastava passing through upto the house of laxmi gupta.

**East** - In the east from the house of laxmi gupta upto the house of bokaro's office.

**South** - In the south from bokaro's office passing through the house of bhikhari kol upto the house of teerath tamrakar.

**West** - In the west from the house of teerath tamrakar upto the house of natthu gupta.

**WARD NO.10 MOULANA AJAD WARD WARD:-**

**North** - In the north from the house of ramesh gupta to ramvishal soni upto house of munnalal soni.

**East** - In the east from shankar bahori kumar passing through main road house of siyaram kachhi upto house of gorelal soni.

**South** - In the south from house of siyaram kachhi upto house of kashi gupta.

**West** - In the west from the house of kashi gupta upto house of daddu sahu.

**WARD NO.11 INDIRA GANDHI WARD:-**

**North** - In the north from pump house situated at V. Garh road passing through from landa & nallah upto vijaynath temple.

**East** - In the east from pasdenger outpost passing throuth khitali road to motor stand & passing through V. Garh road upto pump house of municipal council.

**South** - In the South from backside of S.D.O. (P.W.D.) to back portion of Kachhi mohalla upto passenger tax outpost.

**West** - In the west from Vijaynath temple to P.W.D. Quarters(back portion).

**WARD NO.12 VIVEKANAND WARD:-**

**North** - In the north from vijay singh thakur passing through prathmik shala bhawan passing through upto the house of suresh.

**East** - In the east from the house of suresh to mohan's house passing through jawahar kol, sibbu chaudhary' house passing through upto the house of munnibai barman.

**South** - In the South from the house of munnibai barman passing through upto the house of ashok tiwari.

**West** - In the west from the house of ashok tiwari passing through buddhu kachhi's house passing through siyaram' house upto the house of vijay gond.

**WARD NO.13 VIJAYNATH WARD:-**

**North** - In the north from the house of rajesh chaudhary to the house of puniya passing through ramdas, ramdeen's house upto the house of munnu barman.

**East** - In the east from the house of rajesh chaudhary to the khalil's house passing through upto the house of pachai kotwar.

**South** - In the South from the house of pachai kotwar upto the house of buddhu kachhi entire chhindiya mohalla.

**West** - In the west from the house of munnu upto the house of buddhu kachhi.

**WARD NO.14 SHIVAJI WARD:-**

**North** - In the north of railway colony from the house of amritlal passing through upto the house of bhaiyalal kachhi.

**East** - In the east from the house of bhaiyalal kachhi passing through kanchhedi paraste to prathmik shala bhawan passing through upto the house of lala kachhi.

**South** - In the South (in heerapur) from the house of lala to the house of ramdeen kachhi passing through the house of gyanendra upto the house of madhu chaudhary.

**West** - In the west from the house of madhu chaudhary to the house of jamuna passing through durga shishu mandir passing through the house of amritlal upto the railway station colony.

**WARD NO.15 RAJEEV GANDHI WARD:-**

**North** - In the north from khitauli railway bridge to the railway office passing through upto the railway bridge number second.

**East** - In the east from the railway bridge number second passing through the house of ganesha gond & in the south of kreshar road (dadara plant) upto the house of niranjan.

**South** - In the South from the house of niranjan upto the house of rajendra mallah..

**West** - In the west from the house of rajendra mallah to the house of rajju gond passing through ansari & from the house of samsuddin upto the railway bridge tiraha.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
Z. U. SHEKH, Collector.

## कार्यालय, कलेक्टर ( पंचायत ), ज़िला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट 5(अ)

मन्दसौर, दिनांक 8 मई 2014

क्रमांक 2678-पंचा.-निर्वा.-2014.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर, ज़िला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूं। अर्थात् :—

## सारणी

क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	कनघटी	1	1 से 54	अ.जा.	3
		2	55 से 103	अ.ज.जा.	0
		3	104 से 158	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	159 से 213	महिला अ.जा.	2
		5	214 से 255	महिला अ.ज.जा.	0
		6	256 से 287	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	288 से 339	महिला सामान्य	5
		8	340 से 397		
		9	398 से 458		
		10	459 से 500		
		11	501 से 529		
		12	530 से 578		
		13	579 से 623		
		14	624 से 674		
		15	675 से 707		
		16	708 से 767		
		17	768 से 819		
		18	820 से 880		
		19	881 से 920		
		20	921 से अन्त तक		
2	मनासाखुर्द	1	1 से 35	अ.जा.	6
		2	36 से 78	अ.ज.जा.	2
		3	79 से 118	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	119 से 158	महिला अ.जा.	3
		5	159 से 194	महिला अ.ज.जा.	1
		6	195 से 223	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	224 से 253	महिला सामान्य	3
		8	254 से 284		
		9	285 से 309		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	पामाखेडा	10 11 12 13 14	1 से 31 32 से 81 82 से 120 121 से 156 157 से अन्त तक		
	काचरिया देव	15 16 17 18	1 से 39 40 से 68 69 से 96 97 से 137		
	बाकरोल	19 20	1 से 34 35 से अन्त तक		
3	बरखेडा देव	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 से 22 23 से 44 45 से 65 66 से 84 85 से 102 103 से 121 122 से 136 137 से 157 158 से 177 178 से 184 185 से 216 217 से 233	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	8 1 5 4 0 3 3
	लसुडिया कदमाला	13 14 15 16 17 18 19 20	1 से 33 34 से 71 72 से 110 111 से 138 139 से 162 163 से 185 186 से 217 218 से अन्त तक		
4	चगेरी	1 2 3 4 5 6 7	1 से 24 25 से 53 54 से 84 85 से 107 108 से 131 ख 131 ग से 154 क 154 ग से अन्त तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	6 1 0 3 0 0 3
	चन्दवासा	8 9 10 11 12	1 से 34 34 ग से 60 61 से 82 क 83 से 100 101 से अन्त तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	मोल्याखेडी	1 2 3 4 5	1 से 36 37 से 63 64 से 90 91 से 114/1 115 से अन्त तक एवं 01 से अंत तक.	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा.	3 1 4 2 0
	सोलतगंज	6 7 8 9 10 11	1 से 15 16 से 41 42 से 67 ग 68 से 87 क 88 से 109 110 से अन्त तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 3
	खेरखेड़ा	12 13 14	1 से 23 24 से 41/3 42 से अन्त तक		
	मुण्डली	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	1 से 25 26 से 49 50 से 64 65 से 83 84 से 107 108 से 130 131 से 153 154 से 175 176 से 193 194 से 212 213 से 232 233 से 255 256 से 295 296 से 324 325 से 355 356 से अंत तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 0 4 2 0 2 4
6	पहेडा	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	1 से 25 26 से 49 50 से 64 65 से 83 84 से 107 108 से 130 131 से 153 154 से 175 176 से 193 194 से 212 213 से 232 233 से 255 256 से 295 296 से 324 325 से 355 356 से अंत तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 0 4 2 0 2 4
7	गोगरपुरा	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 से 32 33 से 44 45 से 67 68 से 83 84 से 96 97 से अन्त तक 1 से 33 34 से 55 तक 56 से 65 क 66 से अन्त तक 1 से 39 40 से अन्त तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	1 4 3 0 2 2 2
	झुगलावदा	7 8 9 10			
	बरदल	11 12			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	बरखेड़ा जयसिंह	1	1 से 13 ग	अ.जा.	0
		2	14 से 24	अ.ज.जा.	0
		3	25 से 46	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	47 से 68	महिला अ.जा.	0
		5	69 से 106	महिला अ.ज.जा.	0
		6	107 से अन्त तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	थाकडी	7	1 से 6	महिला सामान्य	4
		8	7 से 40		
		9	41 से अन्त तक		
	सुजानपुरा	10	1 से 14		
		11	15 से अन्त तक		
	मुण्डकोषा	12	1 से अन्त तक		
9	बही	1	1 से 41	अ.जा.	6
		2	42 से 70	अ.ज.जा.	1
		3	71 से 117	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	118 से 151	महिला अ.जा.	3
		5	152 से 180	महिला अ.ज.जा.	0
		6	181 से 211	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	212 से 241 क	महिला सामान्य	4
		8	242 से 267		
		9	268 से 303		
		10	304 से 331		
		11	332 से 360		
		12	361 से 404		
		13	405 से 429		
		14	430 से 457		
		15	458 से 488		
		16	489 से 519		
		17	520 से 545		
		18	546 से 579		
		19	580 से 627		
		20	628 से अन्त तक		
10	सोकडी	1	1 से 29	अ.जा.	4
		2	30 से 46	अ.ज.जा.	1
		3	47 से 76	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	77 से अन्त तक	महिला अ.जा.	2
	खेडा खदान	5	1 से 19	महिला अ.ज.जा.	0
		6	20 से 42 क	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	42 ख से 56 ख	महिला सामान्य	1
		8	56 ग से 73 क		
		9	73 ख से 101		
		10	101 ग से अन्त तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	खखराई	1 2 3 4 5 6 सूपड़ा 7 8 9 10 नालीखेड़ा 11 12	1 से 17 18 से 33 34 से 50 51 से 75 76 से 88 ग 90 से अन्त तक 1 से 30 क 31 से 55 ग 56 से 82 83 से अन्त तक 1 से 46 47 से अन्त तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	4 0 3 2 0 2 2 2
12	झारडा	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हरमाला 14 15 16 17 18 अनुपपुरा 19 20	1 से 43 44 से 87 88 से 127 128 से 154 155 से 188 क 190 से 217 ग 218 से 251 ख 252 से 292 क 293 से 332 336 से 399 400 से 456 457 से 516 517 से अन्त तक 1 से 34 36 से 68 70 से 101 106 से 130 ख 133 से अन्त तक 1 से 36 37 से अन्त तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	7 1 5 4 0 3 3
13	बरुजना	1 2 3 4 5 6 छोटी गुडभेली 7 8 9 10 11 आपुखेड़ी 12 13 बरखेड़ा वीरपुरिया 14 15	1 से 21 23 से 34 38 से 50 52 से 72 73 से 97 99 से अन्त तक 1 से 20 22 से 50 51 से 81 86 से 97 98 से अन्त तक 1 से 29 30 से अन्त तक 1 से 22 22 / 1 से अन्त तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	5 1 4 3 0 2 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	रीछा	1	1 से 19	अ.जा.	2
		2	20 से 34	अ.ज.जा.	0
		3	35 से 55	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	56 से 78 ग	महिला अ.जा.	1
		5	79 से 98	महिला अ.ज.जा.	0
		6	99 से 122	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	123 से 153	महिला सामान्य	4
		8	154 से 174 ग		
		9	175 से अन्त तक		
	बादरी	10	1 से 29		
		11	30 से 70		
		12	71 से 105		
		13	106 से अन्त तक		
15	चीताखेड़ी	1	1 से 32	अ.जा.	2
		2	33 से 58	अ.ज.जा.	2
		3	59 से 78	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	79 से 101	महिला अ.जा.	1
		5	102 से अन्त तक	महिला अ.ज.जा.	1
	आक्यापालरा	6	1 से 27	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	28 से 59	महिला सामान्य	1
		8	60 से 98		
		9	99 से 125		
		10	126 से अन्त तक		
16	लूनाहेड़ा	1	1 से 26	अ.जा.	4
		2	27 से 48	अ.ज.जा.	0
		3	49 से 74	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	75 से 106	महिला अ.जा.	2
		5	107 से 125	महिला अ.ज.जा.	0
		6	126 से 156	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	157 से 177	महिला सामान्य	2
		8	178 से 206		
		9	207 से 226		
		10	227 से 244		
		11	245 से 263		
		12	264 से अन्त तक		
17	काचरिया चन्द्रावत	1	1 से 19	अ.जा.	5
		2	20 से 55	अ.ज.जा.	2
		3	56 से 80	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	81 से 99	महिला अ.जा.	3
		5	100 से 125	महिला अ.ज.जा.	1
		6	126 से 144	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	145 से 165	महिला सामान्य	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8	166 से 193		
		9	194 से 216		
		10	217 से 241		
		11	242 से 261		
		12	262 से 283		
		13	284 से 306		
		14	307 से अन्त तक		
18	देवरी	1	1 से 40	अ.जा.	3
		2	41 से 77	अ.ज.जा.	1
		3	78 से 109	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	110 से 139	महिला अ.जा.	2
	मिण्डलाखेडा	5	1 से 25	महिला अ.ज.जा.	0
		6	26 से 44	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	45 से 72	महिला सामान्य	1
		8	74 से 93		
		9	94 से 117		
		10	118 से 211		
19	मुन्डी	1	1 से 30	अ.जा.	2
		2	31 से 71	अ.ज.जा.	3
		3	72 से 112 अ	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	113 से 164	महिला अ.जा.	1
		5	165 से अन्त तक	महिला अ.ज.जा.	2
	पलेवना	6	1 से 19	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	20 से 41	महिला सामान्य	1
		8	42 से 58		
		9	59 से 77		
		10	78 से 96		
		11	97 से 120		
		12	121 से अन्त तक.		
20	डोडियामीणा	1	157 से 219	अ.जा.	3
		2	220 से 240	अ.ज.जा.	0
		3	241 से 263	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	264 से 288	महिला अ.जा.	2
		5	289 से 310	महिला अ.ज.जा.	0
		6	311 से 334	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	335 से अन्त तक	महिला सामान्य	1
	अरन्या मीणा	8	1 से 21		
		9	22 से 65		
		10	66 से 101		
21	लसुडियाराठौर	1	1 से 31	अ.जा.	2
		2	32 से 67	अ.ज.जा.	0
		3	68 से 101	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	102 से 123	महिला अ.जा.	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5	124 से 148 ग	महिला अ.ज.जा.	0
		6	149 से 168	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	169 से 192 क	महिला सामान्य	2
		8	193 से 208 क		
		9	209 से 231		
		10	232 से अन्त तक		
22	कामलिया	1	1 से 30	अ.जा.	1
		2	31 से 63	अ.ज.जा.	0
		3	64 से 101	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	102 से अन्त तक	महिला अ.जा.	0
	भागी पिपल्या	5	1 से 37	महिला अ.ज.जा.	0
		6	38 से 66 क	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	67 से अन्त तक	महिला सामान्य	3
	बोरखेडी	8	1 से 16		
		9	17 से 68		
		10	69 से अन्त तक		
23	तुर्किया	1	1 से 36	अ.जा.	2
		2	37 से 64	अ.ज.जा.	1
		3	65 से 89 क	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	90 से 113	महिला अ.जा.	1
		5	114 से 132	महिला अ.ज.जा.	0
		6	133 से 162	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	163 से 204	महिला सामान्य	5
		8	205 से 236		
		9	237 से 262		
		10	263 से अन्त तक		
	चौथखेड़ी	11	1 से 26		
		12	27 से 59		
		13	60 से 81		
		14	82 से 106		
		15	107 से 130		
		16	131 से अन्त तक		
24	लिम्बावास	1	1 से 41	अ.जा.	0
		2	43 से 73/2	अ.ज.जा.	1
		3	77 से 101/2क	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	102 से 122	महिला अ.जा.	0
		5	123 से 167	महिला अ.ज.जा.	0
		6	167/1 से 211	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	212 से 241/1	महिला सामान्य	3
		8	242 से 260 क		
		9	263 से 295		
		10	296 से अन्त तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	बूद्धा	1	1 से 16 ग	अ.जा.	4
		2	17 से 46 क	अ.ज.जा.	1
		3	47 से 85	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	86 से 107 ख	महिला अ.जा.	2
		5	108 से 168	महिला अ.ज.जा.	0
		6	169 से 223 क	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	224 से 264 क	महिला सामान्य	6
		8	265 से 282		
		9	283 से 380		
		10	381 से 410 ग		
		11	411 से 479 क		
		12	480 से 530		
		13	531 से 581		
		14	582 से 679 क		
		15	680 से 755 क		
		16	756 से 781		
		17	782 से 819 ख		
		18	820 से 891		
		19	892 से 959		
		20	960 से अन्त तक		
26	अडमाल्या	1	1 से 37	अ.जा.	2
		2	38 से 65	अ.ज.जा.	0
		3	66 से 117	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	118 से 162	महिला अ.जा.	1
		5	163 से 206	महिला अ.ज.जा.	0
	लोडाखेड़ा	6	207 एवं 1 से अन्त तक 8	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	9 से 45	महिला सामान्य	5
		8	46 से 73		
		9	75 से 109		
		10	111 से 129		
		11	130 से 165		
		12	134 से 180		
		13	181 से 217		
		14	218 से 239		
		15	240 से अन्त तक		
27	आत्रीखुर्द	1	1 से 30	अ.जा.	0
		2	31 से 64	अ.ज.जा.	0
		3	65 से 79	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	80 से 110	महिला अ.जा.	0
		5	111 से 137	महिला अ.ज.जा.	0
		6	138 से 161	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	162 से अन्त तक	महिला सामान्य	3
	आबाखेड़ी	8	1 से 21		
		9	22 से 62		
		10	63 से अन्त तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	गर्वाद	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 से 26 27 से 60 61 से 88 89 से 119 120 से 149 150 से 175 176 से 201 202 से 229 230 से 266 267 से 301 302 से 336 337 से अन्त तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	1 0 3 0 0 2 4
29	बादपुर	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 से 35 36 से 61 क 62 से 92 93 से 125 क 126 से 158 159 से 192 क 193 से 218 1 से 34/1 35 से 62 63 से 85/3 86 से 112/8 113 से अन्त तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	4 0 3 2 0 2 2
	बासखेडी				
30	तलाव पिपल्या	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 से 31 32 से 54 55 से 69 70 से 93 94 से 120 121 से 141 142 से 157 ग 158 से 183 184 से 210 211 से अन्त तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	1 1 3 0 0 2 3
31	दोरवाडा	1 2 3 4 5 6 7	1 से 36 37 से 61 62 से 82 83 से 124 125 से 152 क 153 से 185 186 से 220 ख	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	4 1 5 2 0 3 5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8	221 से 252 ख		
		9	253 से 288		
		10	289 से 317		
		11	318 से 337		
		12	338 से 364 ख		
		13	365 से 486 ग		
		14	407 से 445		
		15	446 से 484		
		16	485 से 518		
		17	519 से 553		
		18	554 से 580		
		19	581 से अन्त तक		
32	ढाबला	1	1 से 42	अ.जा.	4
		2	43 से 73	अ.ज.जा.	0
		3	74 से 97	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	98 से 112	महिला अ.जा.	2
		5	113 से 133	महिला अ.ज.जा.	0
		6	134 से 162	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	163 से 178	महिला सामान्य	5
		8	179 से 196		
		9	197 से 229		
		10	229क से 250		
		11	255 क से 272		
		12	273 से 302		
		13	303 से 328 ग		
		14	329 से 344		
		15	347 से 372		
		16	374 से 404 क तक		
		17	406 से अन्त तक		
33	सिदपन	1	1 से 20	अ.जा.	1
		2	21 से 46	अ.ज.जा.	2
		3	47 से 68	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	69 से 95 क	महिला अ.जा.	1
		5	96 से 126	महिला अ.ज.जा.	1
		6	127 से 151	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	152 से 170 अ	महिला सामान्य	4
		8	171 से 188		
		9	189 से 220		
		10	221 से अन्त तक		
हनुमन्तिया		11	1 से 20		
		12	21 से 39		
		13	40 से 62		
		14	63 से 85		
		15	86 से अन्त तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	रणायरा	1	1 से 35	अ.जा.	3
		2	36 से 58	अ.ज.जा.	0
		3	59 से 76 ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	77 से 95 ड	महिला अ.जा.	2
		5	96 से 160	महिला अ.ज.जा.	0
		6	161 से 187	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	188 से 216	महिला सामान्य	5
		8	217 से 254		
		9	255 से 300 ग		
		10	301 से अन्त तक		
	सोनगरा	11	1 से 12		
		12	13 से 30		
		13	31 से 56		
		14	57 से 77 ख		
		15	78 से 142 ख		
		16	143 से 171 ख		
		17	172 से 209 क		
		18	210 से 254 क		
		19	255 से अन्त तक		
35	काचरिया कदमाला	1	1 से 13	अ.जा.	2
		2	14 से 31 ग	अ.ज.जा.	0
		3	33 से 53 क	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	54 से 67	महिला अ.जा.	1
		5	68 से 83 ख	महिला अ.ज.जा.	0
		6	84 से 104	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	105 से 132	महिला सामान्य	4
		8	132 क से 155		
		9	157 से 183		
		10	185 से 213		
		11	213 क से 225 ख		
	तखतपुर	12	1 से 25		
		13	26 से अन्त तक		
36	टकरावद	1	1 से 17 ख	अ.जा.	2
		2	18 से 63 ग	अ.ज.जा.	1
		3	64 से 104	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	105 से 150	महिला अ.जा.	1
		5	151 से 178	महिला अ.ज.जा.	0
		6	179 से 209	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	210 से 239	महिला सामान्य	6
		8	240 से 262		
		9	263 से 280		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10	281 से 316		
		11	317 से 340		
		12	341 से 373		
		13	374 से 399		
		14	400 से 420		
		15	421 से 448		
		16	449 से 480		
		17	481 से 514		
		18	515 से 541 ग		
		19	542 से 565 क		
		20	566 से अन्त तक		
37	हिंगोरिया छोटा	1	1 से 50	अ.जा.	3
		2	51 से 79	अ.ज.जा.	0
		3	80 से 117	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	118 से 139	महिला अ.जा.	2
		5	140 से अन्त तक	महिला अ.ज.जा.	0
	काल्याखेडीकला	6	1 से 19	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	20 से 35	महिला सामान्य	2
		8	36 से अन्त तक		
	खेडा काल्याखेड़ी	9	1 से 36		
		10	37 से 73		
		11	74 से अन्त तक		
38	दोबड़ा	1	1 से 19 क	अ.जा.	2
		2	20 से 31 क	अ.ज.जा.	0
		3	31 ख से 44 ख	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	44 ग से 56	महिला अ.जा.	1
		5	57 से 72	महिला अ.ज.जा.	0
		6	73 से 84	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	85 से अन्त तक	महिला सामान्य	2
	रूपारेल	8	1 से 20 ख		
		9	20 ग से 41		
		10	42 से अन्त तक		
39	सरवानिया	1	1 से 21 क	अ.जा.	0
		2	22 से 41 क	अ.ज.जा.	0
		3	42 से 71 क	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	72 से 95	महिला अ.जा.	0
		5	96 से 115	महिला अ.ज.जा.	0
		6	116 से 135	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	136 से 161	महिला सामान्य	3
		8	162 से 190		
		9	191 से 224		
		10	225 से अन्त तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40	अरन्याजटिया	1 2 3 4 5 6 7 8	1 से 22 23 से 41 42 से 69 70 से 93 94 से 109 110 से 130 131 से 145 146 से अन्त तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	6 1 0 3 0 0 4
	छायन	9 10 11 12	1 से 20 21 से 34 ख 35 से 52 53 से 66		
	पारली	13	1 से 10 क		
	फिरोजाबाद	14	1 से अन्त तक		
41	पीरगुराडिया	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 से 23 24 से 41 41 क से 62 63 से 84 87 से अन्त तक 1 से 24 26 से 52 53 से 68 69 से अन्त तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	0 0 3 0 0 2 5
	आवना काचरिया	10 11 12 13	1 से 19 19 क से 39 40 से 58 59 से अन्त तक		
	ईरली				
42	पिपल्या जौधा	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	1 से 21 22 क से 44 46 से 64 65 से 93 94 से 127 128 से 165 166 से 192 193 से 214 215 से 240 241 से 269 272 से 293 294 से 321 ख 321 ग से 332 1 से 39 40 से 77 78 से अन्त तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 0 4 1 0 2 5
	आरडी				
43	नापाखेड़ा	1 2 3 4 5 6 7 8	1 से 23 24 से 49 50 से 67 68 से 88 89 से 113 114 से 139 140 से 179 क 180 से 206 ग	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	8 0 5 4 0 3 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9	207 से 234		
		10	235 से 264 ख		
		11	265 से 298 ग		
		12	299 से 326 क		
	नागरपिपल्या	13	1 से 28		
		14	29 से 61		
		15	62 से 100		
		16	101 से 126 क		
		17	127 से 152		
		18	153 से 176		
		19	177 से 196		
		20	197 से अन्त तक		
44	संजीत (मगरा)	1	1 से 33	अ.जा.	2
		2	34 से 55	अ.ज.जा.	1
		3	56 से 87	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	88 से 123	महिला अ.जा.	1
		5	124 से अन्त तक	महिला अ.ज.जा.	0
	संजीत	6	350 से 388	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	389 से 429	महिला सामान्य	6
		8	430 से 456		
		9	457 से 499		
		10	500 से 554		
		11	555 से 591		
		12	592 से अन्त तक		
	फोसरी	13	1 से 30		
		14	30 क से 91		
		15	92 से 148 क		
		16	149 से 272 क		
		17	273 से अन्त तक		
	खेजडी	18	1 से अन्त तक		
	अब्दापुर	19	1 से 35		
		20	36 से अन्त तक		
45	बोतलगंज	1	1 से 19	अ.जा.	1
		2	20 से 42 क	अ.ज.जा.	1
		3	43 से 66	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	67 से 90	महिला अ.जा.	0
		5	91 से 122	महिला अ.ज.जा.	0
		6	123 से 139	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	140 से 154	महिला सामान्य	7
		8	155 से 178		
		9	179 से 203		
		10	204 से 226		
		11	227 से 250		
		12	251 से 272 ख		
		13	273 से 297		
		14	298 से 317 ख		
		15	318 से 338		
		16	339 से 363		
		17	364 से 414 ख		
		18	415 से 463		
		19	464 से 482		
		20	483 से अन्त तक		

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
47	मगराना	1	01 से 33	अ.जा.	4
		2	34 से 66	अ.ज.जा.	0
		3	67 से 109	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	110 से 143	महिला अ.जा.	2
		5	144 से 167	महिला अ.ज.जा.	0
		6	168 से 193 क	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	193 ख से 219	महिला सामान्य	2
		8	200 से 245		
		9	248 से 273 ख		
		10	274 से 295		
		11	2 से 30 क		
सुधार बोलिया					

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48	आक्याबिका	1	01 से 23	अ.जा.	3
		2	24 से 48	अ.ज.जा.	0
		3	49 ख से 72 ख	अन्य पिछड़ा वर्ग	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बासखेडी	4	74 क से 96	महिला अ.जा.	2	
	5	97 से 125 ग	महिला अ.ज.जा.	0	
	6	130 से 152	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2	
	7	1 से 18	महिला सामान्य	2	
	8	19 से 39 ग			
	9	39 घ से 58			
	10	60 से 80 ग			
	11	81 से 108 क			
	12	109 से अन्त तक			

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49	बरखेडाडांगी	1	1 से 35	अ.जा.	1
		2	36 से 65 क	अ.ज.जा.	0
		3	66 से 93 ण	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	94 से 131 ग	महिला अ.जा.	0
		5	132 से 182	महिला अ.ज.जा.	0
		6	183 से 221	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	222 से 256	महिला सामान्य	4
		8	257 से 289		
		9	289 क से 329		
		10	330 से 370 क		
		11	371 से 411		
		12	412 से अन्त तक		

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	हाथीबोलिया	1	1 से 16	अ.जा.	3
		2	17 से 36	अ.ज.जा.	0
		3	37 से 47 छ	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	47 ज से 48	महिला अ.जा.	2
		5	49 से अन्त तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	1 से 17 ग	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	17 घ से 40	महिला सामान्य	2
		8	41 से 52		
		9	53 से 68		
		10	69 से 81 क		
		11	84 से अन्त तक एवं 1 से अंत तक		
बोरखेडी चारण					
काल्याखेडी खुर्द					

क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वाडों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक (4)	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
51	टिडवास	1	1 से 18	अ.जा.	0
		2	19 से 50	अ.ज.जा.	0
		3	51 से 61 ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	62 से 83 ख	महिला अ.जा.	0
		5	84 से 107	महिला अ.ज.जा.	0
		6	108 से 126 ख	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	127 से 145 ख	महिला सामान्य	7
		8	146 से 170		
		9	171 से 186 ख		
		10	187 से 214 ग		
		11	215 से अंत तक		
	राती तलाई	12	1 से 248		
		13	249 से अंत तक		
	सेसडी	14	1 से 21		
		15	22 से अंत तक		
	पिपलखेडी	16	1 से 30 ग		
		17	31 से अंत तक		

क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वाडों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक (4)	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
52	चिल्लोद पिपल्या	1	3 से 32/1	अ.जा.	2
		2	33 से 70	अ.ज.जा.	0
		3	71 से 99	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	101 से 141	महिला अ.जा.	1
		5	142 से 177	महिला अ.ज.जा.	0
		6	179 से 202	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	203 से 226	महिला सामान्य	5
		8	228 से 265		
		9	266 से अंत तक		
	कात्याखेडी गुजरान	10	1 से 18		
		11	19 से 37		
		12	38 से 57		
		13	58 से 78		
		14	79 क से अंत तक		
	मुजाखेडी	15	1 से 15		
		16	16 से 31		

अनु. ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
53 कितुखेडी	1	1 से 20	अ.जा.	6	
	2	20 क से 39	अ.ज.जा.	1	
	3	43 से 68	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	
	4	70 से 83 क	महिला अ.जा.	3	
	5	83 ख से 107	महिला अ.ज.जा.	0	
	6	110 से 128 ख	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3	
	7	128 ग से अंत तक	महिला सामान्य	4	
खेजडी	8	1 से 22			
	9	22 क से 40 ख			
	10	42 से 63			
	11	63 क से अंत तक			
चन्द्रपुरा	12	3 से 18 क			
	13	18 ख से 28/1			
	14	28/2 से 33 ग			
	15	34 से अंत तक			
फतेहपुर	16	1 से 25 क			
	17	26 से 47			
	18	48 से 65 क			
	19	68 से 95			
	20	96 से अंत तक			

अनु. ग्राम पंचायत का नाम क्र.	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
54 निनौरा	1	1 से 20	अ.जा.	5	
	2	21 से 42	अ.ज.जा.	2	
	3	43 से 65	पिछड़ा वर्ग	5	
	4	66 से 89/2	महिला अ.जा.	3	
	5	90 से 109	महिला अ.ज.जा.	1	
	6	110 से 131	महिला पिछड़ा वर्ग	3	
	7	132 से 154	महिला सामान्य	2	
	8	155 से अंत तक			
खोखरा	9	1 से 21			
	10	22 से 43			
	11	44 से 65			
	12	66 से 85			
	13	86 से 102			
	14	103 से अंत तक			
रूपी	15	1 से 32 तक			
	16	33 से 54 तक			
	17	55 से 76			
	18	77 से अंत तक			

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
55	उमरिया	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 से 45 क 45 ख से 82 83 से 100 ख 101 से 121 122 से 130 क 131 से 166 167 से अंत तक 1 से 28 क 29 से 54 क 55 से 89 90 से 101 102 से 124 क 125 से 141 क 142 से 163 क 164 से 191 192 से अंत तक 1 से 14 ख 15 से 41 ख 42 से 68 69 से अंत तक	अ.जा. अ.ज.जा. पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	4 2 5 2 1 3 4
	सनावदा				
	अम्बाव				

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
56	सोनी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 से 18 19 से 41 ख 42 से 64 65 से 92 93 से 112 ख 113 से 133 134 से 149 150 से 166 167 से अंत तक 1 से 22 ग 23 से 61 क 62 से 94 95 से अंत तक 1 से 31 32 से 54 55 से 63 64 से 87 88 से 104 105 से 130 131 से अंत तक	अ.जा. अ.ज.जा. पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	6 1 5 3 0 3 4
	जेतपुरा				
	अमरपुरा				

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57	सेमली	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 से 39 40 से 74 75 से 104 105 से 143 144 से 182 183 से 216 217 से 253 254 से 283 क 284 से 327 क 328 से अंत तक	अ.जा. अ.ज.जा. पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	1 0 3 0 0 2 3

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58	बालागुढा	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	4 से 34 34 क से 69 70 से 104 105 से 150 151 से 197 198 से 250 253 से 288 289 से 345 346 से 363 364 से 414 450 से 463 464 से 505 ज 508 से 546 548 से 582 585 से 631 633 से 680 682 से 736 क 737 से 760 ख 762 से 778 ख 779 से अंत तक	अ.जा. अ.ज.जा. पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 1 5 2 0 3 5

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
59	बरखेडा पंथ	1 2 3	1 से 20 21 से 43 44 से 65	अ.जा. अ.ज.जा. पिछड़ा वर्ग	2 1 5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4	66 से 82	महिला अ.जा.	1
		5	83 से 121	महिला अ.ज.जा.	0
		6	122 से 143	महिला पिछड़ा वर्ग	3
		7	144 से 169	महिला सामान्य	6
		8	170 से 198		
		9	199 से 228		
		10	229 से 250		
		11	251 से 279		
		12	280 से 296		
		13	297 से 308		
		14	309 से 326		
		15	327 से अंत तक		
खात्याखेडी		16	1 से 18		
		17	19 से 49		
		18	50 से 70		
		19	71 से 98		
		20	99 से अंत तक		

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60	गोपालपुरा	1	1 से 15	अ.जा.	1
		2	16 से 34	अ.ज.जा.	0
		3	35 से 51 क	पिछड़ा वर्ग	4
		4	52 से 70	महिला अ.जा.	0
		5	71 से 89	महिला अ.ज.जा.	0
		6	91 से 113	महिला पिछड़ा वर्ग	2
		7	114 से 130	महिला सामान्य	6
		8	131 से 147		
		9	148 से 174		
		10	175 से 196 क		
		11	198 से 208 ग		
		12	209 से 223		
		13	224 से 250		
		14	251 से अंत तक		
तुमडी		15	1 से 28		

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
61	खडपाल्या	1	1 से 25	अ.जा.	3
		2	26 से 52	अ.ज.जा.	0
		3	53 से 74	पिछड़ा वर्ग	5
		4	74 क से 95 क	महिला अ.जा.	2
		5	97 क से 128	महिला अ.ज.जा.	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भीलखेड़ी	6		129 क से 148 क	महिला पिछड़ा वर्ग	3
	7		150 से 157	महिला सामान्य	5
	8		178 से 208		
	9		209 से 233		
	10		234 से अंत तक		
	11		1 से 45		
	12		46 से 97		
	13		98 से 135		
	14		136 से अंत तक		
	15		1 से 25		
	16		26 से 71		
	17		72 से 91		
	18		92 से 118		
	19		120 से 151		
	20		152 से अंत तक		

अनु. ग्राम पंचायत का नाम क्र.		वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	प्रवर्ग	संख्या
				(5)	(6)
62 गरनाई	1		1 से 15	अ.जा.	1
	2		16 से 50 क	अ.ज.जा.	0
	3		51 से 72	पिछड़ा वर्ग	3
	4		74 से 100	महिला अ.जा.	0
	5		101 से 112 ख	महिला अ.ज.जा.	0
	6		113 से 134	महिला पिछड़ा वर्ग	2
	7		135 से 158	महिला सामान्य	5
	8		159 से अंत तक		
	9		1 से 14		
	10		15 से 40		
	11		41 से 61		
	12		62 से 80 ख		
	13		81 से अंत तक		
सूदवास	9				

अनु. ग्राम पंचायत का नाम क्र.		वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	प्रवर्ग	संख्या
				(5)	(6)
63 हिंगोरिया बडा	1		1 से 25	अ.जा.	5
	2		26 से 52	अ.ज.जा.	0
	3		53 से 83	पिछड़ा वर्ग	5
	4		84 से 109	महिला अ.जा.	3
	5		110 से 144	महिला अ.ज.जा.	0
	6		148 से 184	महिला पिछड़ा वर्ग	3
	7		185 से 218	महिला सामान्य	3
	8		219 से 250		
	9		252 से 283		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10		284 से 313		
	11		313/1 से 340		
	12		340/1 से 364		
	13		365 से 399		
	14		402 से अंत तक		
आक्याखेडी	15		1 से 22		
	16		23 से 51		
	17		52 से 82		
	18		83 से अंततक		

अनु. ग्राम पंचायत का नाम क्र.		वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	प्रवर्ग	संख्या
64	पिपल्या रायसिह	1	1 से 28	अ.जा.	5
		2	29 से 39	अ.ज.जा.	0
		3	40 से 54	पिछड़ा वर्ग	4
		4	55 से 73	महिला अ.जा.	3
		5	75 से 101	महिला अ.ज.जा.	0
		6	102 से 125	महिला पिछड़ा वर्ग	2
		7	126 से 167	महिला सामान्य	3
		8	168 से अंत तक		
ढोरी		9	1 से 23		
		10	24 से अंत तक		
बालाहेडा उर्फ ढाणी		11	2 से 20		
		12	20 के से 36		
		13	37 से 55		
		14	56 से 66		
		15	67 से अंत तक		

अनु. ग्राम पंचायत का नाम क्र.		वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	प्रवर्ग	संख्या
66	मुन्देडी	1	1 से 21	अ.जा.	2
		2	22 से 44	अ.ज.जा.	0
		3	45 से 78	पिछड़ा वर्ग	5
		4	79 से 98	महिला अ.जा.	1
		5	100 से 135	महिला अ.ज.जा.	0
		6	136 से 157	महिला पिछड़ा वर्ग	3
		7	158 से 179 ख	महिला सामान्य	6
		8	180 से 210		
		9	211 से 252		
		10	253 से 276		
		11	278 से 308		
		12	309/1 से 347		
		13	348 से 375/2		
		14	377 से 405		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15	406 से अंत तक		
	जलोदिया	16	1 से 46		
		17	47 से 67		
		18	68 से 99		
		19	102 से 129		
		20	130 से अंत तक		
65	गुडभेली	1	1 से 19	अ. जा.	2
		2	20 से 43	अ. ज. जा.	1
		3	44 से 59	अ.पि. वर्ग	4
		4	60 से 75	महिला अ. जा.	1
		5	76 से 96	महिला अ.ज.जा.	0
		6	97 से 119	महिला अ.पि.व.	2
		7	120 से 140	महिला सामा.	6
		8	141 से 159		
		9	160 से 180		
		10	181 से 196		
		11	197 से 210		
		12	211 से 232		
		13	233 से 248		
		14	249 से 264		
		15	265 से 284		
		16	285 से 303		
		17	304 से अंत तक		
67	हरसोल	1	1 से 25	अ. जा.	3
		2	26 से 39	अ. ज. जा.	0
		3	40 से 60	अ.पि. वर्ग	3
		4	61 से 90	महिला अ. जा.	2
		5	91 से 122	महिला अ.ज.जा.	0
		6	123 से 142	महिला अ.पि.व.	2
		7	143 से 156ग	महिला सामा.	2
		8	157 से 171		
		9	172 से 184ग		
		10	185 से 207		
		11	208 से 221		
		12	222 से अंत तक		
68	सूठोद	1	1 से 35	अ. जा.	3
		2	36 से 53क	अ. ज. जा.	0
		3	54 से 83क	अ.पि. वर्ग	4
		4	85 से 102क	महिला अ. जा.	2
		5	103 से 116ग	महिला अ.ज.जा.	0
		6	117 से 131क	महिला अ.पि.व.	2
		7	132 से 167	महिला सामा.	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8	170 से 190		
		9	191 से 209		
		10	210 से 223		
		11	224 से 234क		
		12	235 से 252		
		13	253 से 282		
		14	283 से अंत तक		
	आकजी	15	1 से 28		
		16	29 से अंत तक.		
69	सोमिया	1	1 से 41	अ. जा.	4
		2	45 से 87	अ. ज. जा.	1
		3	88 से 136	अ.पि. वर्ग	4
		4	137 से 198	महिला अ. जा.	2
	झान्याखेड़ी	5	1 से 25	महिला अ.ज.जा.	0
		6	26 से 44	महिला अ.पि.व.	2
		7	45 से 107	महिला सामा.	3
	बण्ड पिपल्या	8	1 से 32		
		9	33 से 55		
		10	56 से 83		
		11	86 से 115		
		12	116 से 144		
		13	145 से 176		
		14	177 से अंत तक.		
70	काचरिया नो	1	1 से 20	अ. जा.	1
		2	21 से 61	अ. ज. जा.	1
		3	62 से अंत तक	अ.पि. वर्ग	4
	भेसाखेड़ा	4	1 से 43	महिला अ. जा.	0
		5	44 से 65	महिला अ.ज.जा.	0
		6	66 से अंत तक	महिला अ.पि.व.	2
	जोगनी	7	1 से 19	महिला सामा.	5
		8	20 से अंत तक		
	सेलावरी	9	1 से 21		
		10	22 से अंत तक		
	पिपल्या सोंलकी	11	1 से 31		
		12	32 से अंत तक		
	कुम्हारी	13	1 से 18		
		14	19 से अंत तक.		
71	बोरखेड़ी	1	1 से 43	अ. जा.	4
		2	44 से 65	अ. ज. जा.	1
		3	66 से 89ग	अ.पि. वर्ग	4
		4	90 से 119	महिला अ. जा.	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5	120 से 143	महिला अ.ज.जा.	0
		6	144 से 177	महिला अ.पि.व.	2
		7	178 से 197	महिला सामा.	3
		8	198 से अंत तक		
	कचनारा	9	1 से 19		
		10	20 से 43		
		11	44 से 69		
		12	70 से 98		
		13	99 से 120		
		14	121 से अंत तक.		
72	पिपल्या विश्वा	1	1 से 33	अ. जा.	4
		2	34 से 52	अ. ज. जा.	0
		3	53 से 73	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	74 से 86	महिला अ. जा.	2
		5	87 से 111	महिला अ.ज.जा.	0
		6	112 से 136	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	137 से 174	महिला सामान्य	4
		8	175 से 196		
		9	197 से 220		
		10	221 से अंत तक		
	अरन्या देव	11	1 से 12		
		12	13 से 42		
		13	43 से 59		
		14	60 से 78		
		15	79 से 100		
		16	101 से अंत तक		
73	खुटी	1	1 से 36	अ. जा.	3
		2	37 से 60	अ. ज. जा.	1
		3	61 से 89घ	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	89/2 से 110	महिला अ. जा.	2
		5	111 से 121/ग	महिला अ.ज.जा.	0
		6	122 से 133	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	134 से अंत तक	महिला सामान्य	2
	खेडा	8	1 से 31		
		9	32 से 54		
		10	56 से अंत तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	कोयला	11 12	1 से 19 20 से अंत तक		
74	रतन पिपल्या	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 से 25 26 से 60 61 से 92 98 से 120 121 से 145 146 से 170 171 से 199 200 से 217 218 से 245 246 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	4 0 3 2 0 2 1
75	बैलारा	1 2 3 4 5 6 7	1 से 32 33 से 73 74 से 99 100 से 119 120 से 144 144 ड से 174 180 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	5 0 0 3 0 0 2
	हरिपुरा	8 9 10	2 से 31 32 से 61 62 से अंत तक		
76	बाबुखेड़ा	1 2 3 4 5 6 7	1 से 37 38 से 60 61 से 84 86 से 117 118 से 142 144 से 172 173 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	5 1 5 3 0 3 4
	चावर्ती	8 9 10 11	1 से 30 32 से 55 56 से 85 88 से 170		
	ढिकन्या	12 13	1 से 25 26 से 51		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		14	52 से 72		
		15	73 से 88		
		16	89 से 110		
		17	112 से 130		
		18	131 से 149		
		19	150 से अंत तक		
77	खात्याखेड़ी	1	1 से 14	अ. जा.	4
		2	15 से 30	अ. ज. जा.	0
		3	31 से 65	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	66 से 76	महिला अ. जा.	2
		5	76 क से से 92 ख	महिला अ.ज.जा.	0
		6	93 से 116	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	117 से 134	महिला सामान्य	3
		8	135 से 159		
		9	160 से अंत तक		
	देवाखेड़ा	10	1 से 18 ख		
		11	19 से 39क		
		12	40 से 54		
		13	55 से 77 क		
		14	78 से अंत तक		
78	बिल्लोद	1	1 से 24	अ. जा.	3
		2	24 से 47क	अ. ज. जा.	1
		3	48 से 74	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	75 से 105	महिला अ. जा.	2
		5	106 से 130क	महिला अ.ज.जा.	0
		6	131 से 149ग	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	150 से 178ग	महिला सामान्य	4
		8	179 से 205		
		9	206 से 233ख		
		10	234 से 267क		
		11	267ख से 284ग		
		12	285 से 311		
		13	312 से 352		
		14	353 से 380क		
		15	381 से 405		
		16	406 से अंत तक		

मन्दसौर, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 2678—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-(2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व-संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:—

## सारणी

## जनपद पंचायत, सीतामऊ

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	नाहरगढ़	1	1 से 66 तक	अ. जा.	2
		2	67 से 130 तक	अ. ज. जा.	-
		3	131 से 223	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	224 से 311	महिला अ. जा.	1
		5	312 से 366	महिला अ. ज. जा.	-
		6	367 से 451	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	452 से 527	महिला सामान्य	6
		8	528 से 563 ख		
		9	564 से 653		
		10	654 से 715 क		
		11	716 से 800 क		
		12	801 से 910		
		13	911 से 1013		
		14	1014 से 1118		
		15	1119 से 1184 ख		
		16	1185 से 1268		
		17	1269 से 1328		
		18	1329 से 1415 क		
		19	1416 से 1415 से तक		
		20	ग्राम आबाखेड़ी 1 से अंत तक		
2	झलारा	1	1 से 17	अ. जा.	3
		2	18 से 27 ग	अ. ज. जा.	-
		3	28 से 45	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	46 से 64	महिला अ. जा.	2
		5	65 से 84	महिला अ. ज. जा.	-
		6	85 से 113	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	116 से 136	महिला सामान्य	5
		8	143 से 165		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	झलारा	9 10 11 12 13 14 ग्राम कोयली 15 ग्राम रोजाफतेगढ़ 16 17 18 19	166 से 186 187 से 208 209 से 223 224 से 236 237 से अंत तक 1 से अंत तक 1 से 19 21 से 35 36 से 56 57 से 73 74 से अंत तक		
3	खजुरीचन्द्रावत	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ग्राम कचनारी मजरा	1 से 20 तक 21 से 38 39 से 53 54 से 72 73 से 88 89 से 107 क 108 से 121 122 से 138 139 से 158 159 से 175 से अंत तक 1 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 — 3 1 — 2 3
4	बेटीखेड़ी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ग्राम सुल्तानिया 15	1 से 19 20 से 32 33 से 47 48 से 61 ख 62 से 75 76 से 87 88 से 102 103 से 118 ग 119 से 129 130 से 139 140 से 156 157 से 168 ख 169 से अंत तक 1 से 11 12 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	5 1 5 3 1 3 1 5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	बेटीखेड़ी	16	ग्राम देवरी	1 से 26	
		17		29 से 51	
		18		52 से 65	
		19		66 से 83	
		20		84 से अंत तक	
5	कचनारा	1		1 से 18	अ. जा.
		2		19 से 38	अ. ज. जा.
		3		39 से 55	अन्य पिछड़ा वर्ग
		4		56 से 70	महिला अ. जा.
		5		71 से 88	महिला अ. ज. जा.
		6		89 से 103	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग
		7		104 से 125	महिला सामान्य
		8		126 से 144	
		9		146 से 167	
		10		168 से 190	
		11		191 से 207	
		12		208 से 225	
		13		226 से 245	
		14		246 से 279	
		15		280 से 305	
		16		306 से 330	
		17		331 से 357	
		18		358 से 378 घ	
		19		378 छ से 404	
		20		406 से 429 व अंत तक	
6	खण्डेरियाकांवर	1		1 से 15	अ. जा.
		2		16 से 34	अ. ज. जा.
		3		35 से 57/2	अन्य पिछड़ा वर्ग
		4		59 से 77	महिला अ. जा.
		5		78 से 96	महिला अ. ज. जा.
		6		97 से 120	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग
		7		121 से अंत तक	महिला सामान्य
		8	ग्राम केलूखेड़ी	1 से 29 ख	
		9		30 से 49	
		10		50 से 72	
		11		73 से 90	
		12		91 से 106	
		13		107 से 129 क	
		14		130 अंत तक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	खजुरीमाण्डा	1	1 से 19	अ. जा.	2
		2	20 से 40	अ. ज. जा.	-
		3	41 से 54	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	55 से 67	महिला अ. जा.	1
		5	68 से 88	महिला अ. ज. जा.	-
		6	89 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	ग्राम कोटड़ीमाण्डा	7	103 से 119	महिला सामान्य	3
		8	120 से 132		
		9	133 से 146		
		10	147 से 163		
		11	164 से 182		
		12	183 से अंत तक		
8	शक्करखेड़ी	1	1 से 21	अ. जा.	3
		2	22 से 38	अ. ज. जा.	-
		3	39 से 57	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	58 से 80	महिला अ. जा.	2
		5	81 से 102	महिला अ. ज. जा.	-
		6	103 से 123	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	124 से 151	महिला सामान्य	3
		8	152 से 172		
		9	173 से 192		
		10	193 से अंत तक		
	ग्राम खानूखेड़ा	11	1 से 24 तक		
		12	25 से 55		
		13	56 से अंत तक		
	ग्राम सूर्ठखेड़ा	14	1 से 20 अंत तक		
9	सूंठी	1	1 से 16	अ. जा.	4
		2	17 से 29	अ. ज. जा.	-
		3	30 से 49	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	50 से 59	महिला अ. जा.	2
		5	60 से 79 क	महिला अ. ज. जा.	-
		6	80 से 98	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	99 से 113	महिला सामान्य	5
		8	114 से 135 क		
		9	136 से 146		
		10	147 से 175		
		11	176 से 198		
		12	199 से 219		
		13	220 से 243		
		14	244 से 256		
		15	257 से 277		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	सूंठी	16 17 18 19 20	278 से 298 299 से 323 324 से 351 352 से 370 ग 371 से अंत तक		
10	बड़ोद	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 से 22 23 से 35 36 से 53 54 से 68 69 से 84 85 से 102 103 से 119 क 120 से 146 146 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 — 3 1 — 2 3
	ग्राम पानपुर	10 11 12	1 से 23 24 से 45 46 से अंत तक		
11	बर्डियाबरखेड़ी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 से 30 31 से 51 क 52 से 76 77 से 102 103 से 119 120 से 135 136 से अंत तक ग्राम कुन्ताखेड़ी 24 से 37 38 से 52 53 से अंत तक ग्राम भूखीबुजुर्ग	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	5 1 4 3 1 2 2
	ग्राम भूखीबुजुर्ग	13 14 15 16	13 से 30 31 से 49 50 से 70 71 से अंत तक.		
12	नाटराम	1 2 3 4 5 6 7	1 से 26 27 से 51 क 52 से 90 91 से 122 123 से 152 153 से 178 179 से 206	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	4 — 5 2 — 3 5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नाटाराम	8		207 से 242		
	9		243 से 275		
	10		276 से 302		
	11		303 से 333		
	12		334 से 370		
	13		371 से 404		
	14		405 से 445		
	15		446 से 478		
	16		479 से 500		
	17		501 से अंत तक		
	18	ग्राम राजखेड़ी	1 से 35		
	19		36 से 77		
	20		78 से अंत तक		
13 क्यामपुर	1		1 से 59	अ. जा.	2
	2		60 से 121क	अ. ज. जा.	-
	3		122 से 176	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4		177 से 237	महिला अ. जा.	1
	5		242 से 304	महिला अ. ज. जा.	-
	6		306 से 365	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7		366 से 424	महिला सामान्य	6
	8		425 से 468		
	9		469 से 543		
	10		545 से 596		
	11		597 से 655		
	12		656 से 760		
	13		761 से 826		
	14		827 से 897		
	15		901 से 946		
	16		958 से 1021		
	17		1024 से 1076		
	18		1078 से 1153		
	19		1155ले 1209		
	20		1120ख से अंत तक		
14 कोटड़ाबहादुर	1		1 से 19	अ. जा.	4
	2		20 से 38	अ. ज. जा.	-
	3		39 से 55	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	4		56 से 78	महिला अ. जा.	2
	5		79 से 89	महिला अ. ज. जा.	-
	6		90 से 107	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		108 से 118	महिला सामान्य	4
	8		119 से 129क		
	9		130 से 143		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	कोटड़ाबहादुर	10 11 12 13 14 15 16	144 से 154 155 से 169 170 से 185 186 से 206 207 से 223 224 से 243 244 से अंत तक		
15	रणायरा	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ग्राम रूपनी	1 से 34 35 से 67 73 से 102 103 से 120 121 से 145 146 से 176 177 से 220 221 से 235 237 से 256 260 से 286 289 से 353 362 से 400 401 से 426 430 से 462 463 से अंत तक 1 से 23 24 से 40 41 से 57 58 से 75 76 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	4 1 5 2 1 3 4
16	बोलिया	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्राम रिस्थल	1 से 8 9 से 30 31 से 45 46 से 58 59 से 71 72 से 81 82 से 96 97 से अंत तक 1 से 16 17 से 43 44 से 58 59 से 75 76 से 93 94 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 — 4 1 — 2 4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	गाडरिया	1	1 से 16	अ. जा.	2
		2	17 से 24	अ. ज. जा.	1
		3	25 से 40	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	41 से 60	महिला अ. जा.	1
		5	61 से 80	महिला अ. ज. जा.	1
		6	81 से 96क	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	97 से 101, 1 से 11	महिला सामान्य	2
		8	12 से 24		
		9	25 से अंत तक		
	10	ग्राम कोलवी	1 से 33		
	11		34 से अंत तक		
	12	ग्राम एलवी	1 से 41 अंत तक.		
18	रामगढ़	1	1 से 26	अ. जा.	3
		2	27 से 44	अ. ज. जा.	-
		3	45 से 64	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	65 से 84	महिला अ. जा.	2
		5	85 से 100	महिला अ. ज. जा.	-
		6	101 से 122	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	123 से 141	महिला सामान्य	4
		8	142 से 161		
		9	162 से 185ख		
		10	186 से अंत तक		
		11	206 से 239		
	12	ग्राम भित्याखेड़ी	1 से 19		
	13		20 से 39		
	14		40 से 61		
	15		62 से 77		
	16		78 से अंत तक		
19	मोतोपुरा	1	1 से 15	अ. जा.	1
		2	16 से 32क	अ. ज. जा.	-
		3	33 से 46	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	47 से 62क	महिला अ. जा.	1
		5	63 से 72	महिला अ. ज. जा.	-
		6	73 से 89क	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	90 से 110	महिला सामान्य	6
		8	111 से 128ग		
		9	129 से 144क		
		10	145 से 158क		
		11	159 से अंत तक		
	12	ग्राम कोटपिपल्या	1 से 21		
	13		22 से 45		
	14		46 से 64		
	15		65 से 85		
	16		86 से 106		
	17		107 से अंत तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	पायाखेड़ी	1	1 से 26	अ. जा.	3
		2	27 से 45	अ. ज. जा.	-
		3	46 से 69	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	70 से 95	महिला अ. जा.	2
		5	96 से 111ग	महिला अ. ज. जा.	-
		6	112 से 141	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	142 से 179	महिला सामान्य	2
	ग्राम मजरा कुशालपुरा	8	180 से 196		
		9	197 से 217ख		
		10	218 से अंत तक		
	ग्राम बलाहेड़ी	11	1 से अंत तक.		
21	बाजखेड़ी	1	1 से 32	अ. जा.	2
		2	33 से 51घ	अ. ज. जा.	-
		3	52 से 78	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	79 से 101	महिला अ. जा.	1
		5	102 से 133	महिला अ. ज. जा.	-
		6	134 से 160	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	161 से 182	महिला सामान्य	6
		8	183 से 202		
		9	203 से 238 अंत तक		
	ग्राम शक्करखेड़ीजागीर	10	1 से 21		
		11	22 से 40ख		
		12	41 से 58		
		13	59 से अंत तक		
	ग्राम जवानपुरा	14	1 से 16		
		15	17 से 29		
		16	30 से अंत तक		
	ग्राम घाटाखेड़ी	17	1 से 16		
		18	17 से 37		
		19	38 से अंत तक		
	ग्राम आवरी	20	1 से अंत तक		
22	बिशनिया	1	1 से 19क	अ. जा.	1
		2	20 से 40क	अ. ज. जा.	-
		3	41 से 56	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	57 से 77क	महिला अ. जा.	1
		5	78 से 92	महिला अ. ज. जा.	-
		6	93 से 106ख	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	107 से 124क	महिला सामान्य	3
		8	125 से 139क		
		9	140क से 151क		
		10	152 से 168क		
		11	169क से अंत तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	कोटडामाता	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्राम भाटखेड़ी 10 11 12 13 14	1 से 18 19 से 40 41 से 65 66 से 85 86 से 102 103 से 122 123 से 138 139 से अंत तक 1 से 17 18 से 33 34 से 46 47 से 61क 62 से 70क 71 से अंत तक.	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 — 4 2 — 2 — 3
24	खजुरीगौड	1 2 3 4 5 6 7 8 ग्राम कराडिया 9 10 11	1 से 27 28 से 47 48 से 72 73 से 100 101 से 123 124 से 143 144 से अंत तक 1 से 15ख 16 से 32ख 33 से 49 50 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 — 3 1 — 2 — 3
25	सेदराकरनाली	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्राम बरुखेड़ा 10 11 ग्राम करनाली 12 13	1 से 17 19 से 35 36 से 52 53 से 67क 68 से 84 85 से 107 108 से 116क 120 से अंत तक 1 से 11/1 12 से अंत तक 1 से 16 17 से 33 34 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 — 3 2 — 2 — 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	अरन्यागौड	1 2 3 4 5 6 ग्राम मजराखेड़ा 7 ग्राम गुराडियागोड	1 से 15 16 से 30 31 से 46 47 से 62ख 63 से 87, 1 से 6 7 से अंत तक 1 से 24 25 से 41 42 से 62 63 से 79क 80 से अंत तक 1 से 21 22 से अंत तक 1 से 14 16 से 34 35 से 49क 50 से 67क 68 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 — 5 1 — 3 5
27	खेताखेड़ा	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्राम रायखेड़ा 11 12 13 14 ग्राम चिमनगढ़ 15 16	1 से 18 19 से 34 35 से 51 52 से 68 69 से 88 89 से 109 110 से 131 132 से 157 158 से अंत तक 1 से 17 18 से 34/1 35 से 48 49 से अंत तक 1 से 26 27 से 55 56 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 — 4 2 — 2 4
28	बोरखेड़ी जागिर	1 2 3 4 5 6 7 8	1 से 15 16 से 30 31 से 45 46 से 61 62 से 80 81 से 96 97 से 115 116 से 137	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	1 1 4 1 1 2 4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	9		138 से 154		
	10		155 से अंत तक		
	11	ग्राम सालरिया	1 से 19		
	12		20 से 37		
	13		38 से 56		
	14		57 से 73		
	15		74 से अंत तक		
29	काचरिया	1	1 से 25	अ. जा.	3
		2	26 से 51	अ. ज. जा.	-
		3	52 से 67क	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	68 से 93	महिला अ. जा.	2
		5	94 से 119	महिला अ. ज. जा.	-
		6	120 से 140	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	141 से 162क	महिला सामान्य	4
		8	163 से 181क		
		9	182 से 206		
		10	207 से 224		
		11	225 से 241		
		12	242 से 258		
		13	259 से 289		
		14	290 से अंत तक		
		15	ग्राम बाकली		
		16	1 से 18		
		17	19 से 33		
		18	34 से 49		
			50 से अंत तक		
30	धाकड़पिपल्या	1	1 से 14	अ. जा.	4
		2	15 से 33	अ. ज. जा.	-
		3	34 से 52	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	53 से 70	महिला अ. जा.	2
		5	71 से 89	महिला अ. ज. जा.	-
		6	90 से 110	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	111 से 124	महिला सामान्य	4
		8	125 से 139		
		9	140 से 159		
		10	160 से 178		
		11	179 से अंत तक		
		12	ग्राम निपानिय	1 से 14	
		13	15 से 32		
		14	33 से 46क		
		15	47 से अंत तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	ऐरा	1	1 से 20क	अ. जा.	2
		2	21 से 42	अ. ज. जा.	1
		3	44 से 58	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	59 से 72क	महिला अ. जा.	1
		5	73 से 87	महिला अ. ज. जा.	1
		6	88 से 110	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	113 से 133	महिला सामान्य	5
		8	134 से 153		
		9	154 से 170		
		10	171 से 186क		
		11	187 से 195 क		
		12	196 से 211		
		13	212 से 230		
		14	231 से 248		
		15	249 से 267		
		16	268 से 291		
		17	293 से 312 ख		
		18	313 से 338		
		19	339 से अंत तक		
32	चिकला	1	1 से 16	अ. जा.	4
		2	17 से 39	अ. ज. जा.	1
		3	40 से 52	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	53 से 67	महिला अ. जा.	2
		5	68 से 86	महिला अ. ज. जा.	1
		6	87 से 97	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	98 से 116	महिला सामान्य	4
		8	117 से 137		
		9	138 से 153		
		10	154 से 166		
		11	167 से 190		
		12	191 से अंत तक		
	ग्राम मजरा मामादेव	13	200 से अंत तक		
	ग्राम फतेहपुर चिकली	14	1 से 25		
		15	26 से 51		
		16	52 से 82		
		17	83 से अंत तक		
	ग्राम करनपुरा	18	1 से 17		
		19	18 से 30		
		20	31 से 46 अंत तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	सूर्यखेड़ा	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्राम पतलासी छोटी 10 11	1 से 19 20 से 35 36 से 51 52 से 67 68 से 87 88 से 106 107 से 125 126 से अंत तक 1 से 27 28 से 46 47 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 — 3 1 — 2 3
34	मोरखेड़ा	1 2 3 4 5 6 ग्राम शिवगढ 7 8 9 10 ग्राम खोती 11 12 ग्राम कम्माखेड़ी 13 14	1 से 14ग 15 से 31 32 से 43 44 से 61 62 से अंत तक 1 से 23 27 से 47 48 से 70 71 से अंत तक 1 से 20 21 से अंत तक 1 से 20 21 से 33 क 34 से 54 अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 — 4 1 — 2 4
35	सेमलिया रानी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 से 17 18 से 34 35 से 54 55 से 71 72 से 93/1 94 से 108 109 से 121 122 से 141 142 से 157 158 से 174 175 से 190 191 से 213 अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	4 1 3 2 1 2 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	खेड़ा	1	1 से 19	अ. जा.	3
		2	20 से 43	अ. ज. जा.	1
		3	44 से 66	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	67 से 83	महिला अ. जा.	2
		5	84 से 99	महिला अ. ज. जा.	1
		6	100 से 111	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	112 से 129	महिला सामान्य	1
		8	130 से 155		
		9	156 से 174		
		10	175 से 207		
		11	208 से अंत तक		
		12	ग्राम खेरखेड़ा	1 से अंत तक	
37	गलियारा	1	1 से 14	अ. जा.	4
		2	15 से 37	अ. ज. जा.	3
		3	38 से 56क	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
		4	57 से 79	महिला अ. जा.	2
		5	80 से अंत तक	महिला अ. ज. जा.	2
		6	ग्राम धाराखेड़ी	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
		7	1 से 8	महिला सामान्य	2
		8	9 से अंत तक		
		9	1 से 20		
		10	25 से 42		
		11	43 से 63		
		12	64 से 78		
			79 से अंत तक		
38	लटुना	1	1 से 37	अ. जा.	4
		2	38 से 65ग	अ. ज. जा.	1
		3	66 से 95	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	96 से 127	महिला अ. जा.	2
		5	128 से 175	महिला अ. ज. जा.	1
		6	176 से 224 ख	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	225 से 279	महिला सामान्य	4
		8	280 से 329		
		9	330 से 384		
		10	385 से 435		
		11	436 से 490ख		
		12	491 से 539		
		13	540 से 595		
		14	596 से 651ख		
		15	652 से 702ख		
		16	703 से 745ड		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	17		746 से 789क		
	18		790 से 833		
	19		834 अंत तक		
	20	ग्राम दम्माखेड़ी	1 से अंत तक		
39	साखतली				
	1		1 से 20	अ. जा.	4
	2		22 से 40	अ. ज. जा.	1
	3		41 से 56 क	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4		57 से 73	महिला अ. जा.	2
	5		74 से 89 क	महिला अ. ज. जा.	1
	6		90 से 100 क	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7		101 से 117	महिला सामान्य	4
	8		118 से 142		
	9		143 से 161		
	10		162 से 175		
	11		176 से 191 क		
	12		192 से 211		
	13		212 से अंत तक		
	14	ग्राम आक्या	1 से 22		
	15		23 से 38		
	16		39 से 60 ग		
	17		61 से 80ख		
	18		81 से 104ग		
	19		105 से अंत तक		
40	रावटी				
	1		1 से 24	अ. जा.	4
	2		25 से 46 क	अ. ज. जा.	-
	3		47 से 67	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		68 से 87	महिला अ. जा.	2
	5		88 से 108 क	महिला अ. ज. जा.	-
	6		109 से 129	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		130 से 146	महिला सामान्य	3
	8		147 से 172		
	9		173 से अंत तक		
	10	ग्राम रावटा	1 से 23		
	11		24 से 46		
	12		47 से 64		
	13		65 से अंत तक		

## सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41	सूखेडा	1	1 से 20	अ. जा.	5
		2	21 से 39	अ. ज. जा.	-
		3	40 से 51	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	52 से 69	महिला अ. जा.	3
		5	70 से 82क	महिला अ.ज.जा.	-
		6	83 से 95क	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	96 से 114	महिला सामान्य	3
		8	115 से 130		
		9	131 से अंत तक		
		10	ग्राम कोचरियाखेड़ी	1 से 25	
		11	26 से 52		
		12	53 से 74		
		13	75 से 97		
		14	98 से अंत तक		
		15	ग्राम हानडी	1 से 17	
		16	18 से 33		
		17	34 से 50		
		18	51 से अंत तक		
42	मुवाला	1	1 से 26	अ. जा.	4
		2	27 से 47	अ. ज. जा.	-
		3	48 से 71	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	72 से 88	महिला अ. जा.	2
		5	89 से 110	महिला अ.ज.जा.	-
		6	111 से 131	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	132 से 148	महिला सामान्य	2
		8	149 से अंत तक		
		9	ग्राम रामगढ़	1 से 23	
		10	24 से 47		
		11	48 से अंत तक		
43	पतलासीकला	1	1 से 29	अ. जा.	1
		2	30 से 67	अ. ज. जा.	-
		3	68 से 101	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	102 से 125	महिला अ. जा.	1
		5	126 से 149	महिला अ.ज.जा.	-
		6	150 से 171	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	172 से 191	महिला सामान्य	3
		8	192 से 217		
		9	218 से 242		
		10	243 से 278		
		11	279 से अंत तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	लावरी	1	1 से 21	अ. जा.	3
		2	22 से 40	अ. ज. जा.	-
		3	41 से 65	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	66 से 80	महिला अ. जा.	2
		5	81 से 98	महिला अ.ज.जा.	-
		6	99 से 119	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	120 से 136	महिला सामान्य	4
		8	137 से 163		
		9	164 से 183		
		10	184 से 207		
		11	208 से अंत तक		
		12	ग्राम तम्बोलिया	1 से 40	
		13		41 से 70	
		14		71 से 87क	
		15		88 से अंत तक	
45	मुण्डला	1	1 से 21	अ. जा.	3
		2	22 से 50	अ. ज. जा.	-
		3	51 से 80	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	81 से 94	महिला अ. जा.	2
		5	95 से 119	महिला अ.ज.जा.	-
		6	120 से 130	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	131 से 159	महिला सामान्य	2
		8	160 से 179		
		9	180 से अंत तक		
		10	ग्राम दुधिया	1 से 15	
		11		16 से अंत तक	
46	सगोर	1	1 से 24	अ. जा.	4
		2	25 से 48	अ. ज. जा.	-
		3	49 से 73	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	74 से 93	महिला अ. जा.	2
		5	94 से 117	महिला अ.ज.जा.	-
		6	119 से 141	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	142 से 171/2	महिला सामान्य	3
		8	172 से 198		
		9	199 से 226		
		10	227 से अंत तक		
		11	ग्राम रत्नपुरा	1 से 31	
		12		32 से अंत तक	
		13	ग्राम भुवानगढ़	1 से 20	
		14		21 से अंत तक	
47	नकेडिया	1	1 से 22	अ. जा.	1
		2	23 से 44	अ. ज. जा.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3	45 से 62	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	63 से 82	महिला अ. जा.	1
		5	83 से 101	महिला अ.ज.जा.	-
		6	102 से 122	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	123 से 149	महिला सामान्य	3
		8	150 से 173		
		9	174 से 198		
		10	199 से 216		
		11	217 से अंत तक		
48	सरगसेदरा	1	1 से 22ख	अ. जा.	1
		2	23 से 52	अ. ज. जा.	-
		3	53 से 72	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	73 से 99	महिला अ. जा.	1
		5	100 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	ग्राम शेरगढ	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	1 से 23	महिला सामान्य	5
		8	24 से 47		
		9	48 से 67		
		10	68 से 79		
		11	80 से 103		
		12	104 से 120		
		13	121 से अंत तक		
		14	ग्राम करनखेडी	1 से 32	
		15	33 से 65		
			66 से अंत तक		
49	झांगरिया	1	1 से 15	अ. जा.	6
		2	16 से 37	अ. ज. जा.	-
		3	38 से 51	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	52 से 68	महिला अ. जा.	3
		5	69 से 85	महिला अ.ज.जा.	-
		6	86 से 111	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	112 से 128	महिला सामान्य	3
		8	129 से 148		
		9	149 से 161		
		10	162 से 173		
		11	174 से अंत तक		
		12	ग्राम गोकुलपुरा	1 से 16	
		13	17 से 35		
		14	36 से 53		
		15	54 से 73		
		16	74 से अंत तक		
50	खजुरीनाग	1	1 से 27	अ. जा.	3
		2	28 से 53	अ. ज. जा.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3	54 से 69	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	70 से 89	महिला अ. जा.	2
		5	90 से 108	महिला अ.ज.जा.	-
		6	109 से 126/2	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	127 से 146/3	महिला सामान्य	2
		8	147 से 163क		
		9	164 से 176		
		10	177 से 196		
		11	197 से 207		
		12	208 से अंत तक.		
51	भारतपुरा	1	1 से 27	अ. जा.	2
		2	28 से 53	अ. ज. जा.	-
		3	54 से 77	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	78 से 99	महिला अ. जा.	1
		5	100 से 125	महिला अ.ज.जा.	-
		6	126 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	ग्राम कुण्डला	महिला सामान्य	4
		8	1 से 22		
		9	23 से 44		
		10	45 से 69		
		11	70 से 90		
		12	91 से 116		
		13	117 से अंत तक		
			ग्राम खाईखेडा	1 से 13 अंत तक	
52	लसुडिया	1	2 से 21	अ. जा.	2
		2	22 से 39	अ. ज. जा.	-
		3	41 से 60	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	62 से 81	महिला अ. जा.	1
		5	82 से 95	महिला अ.ज.जा.	-
		6	96 से 113	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	114 से 126	महिला सामान्य	3
		8	127 से अंत तक		
		9	ग्राम सरसपुरा	1 से 16 ग	
		10	17 से 37		
		11	38 से अंत तक		
53	भगोर	1	1 से 18	अ. जा.	2
		2	19 से 33ग	अ. ज. जा.	-
		3	34 से 48	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	49 से 65	महिला अ. जा.	1
		5	66 से 77	महिला अ.ज.जा.	-
		6	78 से 93	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	94 से 108ग	महिला सामान्य	6
		8	109 से 125		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9	126 से 143		
		10	144 से 164ग		
		11	165 से 183		
		12	184 से 196		
		13	197 से अंत तक		
		14	ग्राम मजरा कल्याणपुरा 1 से 19		
		15	20 से 40		
		16	41 से 59क		
		17	60 से 77		
		18	78 से 93		
		19	94 से अंत तक		
54	मानपुरा	1	1 से 23	अ. जा.	4
		2	24 से 43	अ. ज. जा.	1
		3	44 से 69	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	70 से 86	महिला अ. जा.	2
		5	87 से 107	महिला अ.ज.जा.	1
		6	109 से 132	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	133 से 159	महिला सामान्य	4
		8	160 से 184		
		9	185 से 202		
		10	203 से 222		
		11	223 से 237		
		12	238 से 271		
		13	273 से 298		
		14	299 से 315		
		15	316 से 336		
		16	337 से 352		
		17	354 से अंत तक		
		18	ग्राम बडाबदी 1 से 39		
		19	40 से 81		
		20	82 से अंत तक		
55	मेरियाखेड़ी	1	1 से 15	अ. जा.	5
		2	16 से 33	अ. ज. जा.	-
		3	34 से 50	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	51 से 70	महिला अ. जा.	3
		5	71 से 84	महिला अ.ज.जा.	-
		6	85 से 103	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	104 से 121	महिला सामान्य	4
		8	122 से अंत तक		
		9	ग्राम चकत्या 1 से 19		
		10	20 से 40		
		11	41 से 61		
		12	62 से 76		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	13		77 से अंत तक		
	14	ग्राम पिपल्या जागीर	1 से 17		
	15		18 से 34घ		
	16		37 से अंत तक		
	17	ग्राम टाटका	1 से 20		
	18		21 से 48		
	19		49 से 68 (1)		
	20		70 से अंत तक		
56	सीताखेडी	1	1 से 18	अ. जा.	3
		2	19 से 44	अ. ज. जा.	-
		3	45 से 62	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	63 से 78क	महिला अ. जा.	2
		5	79 से 102	महिला अ.ज.जा.	-
		6	103 से 124घ	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	125 से अंत तक	महिला सामान्य	5
	8	ग्राम पोटल्या	1 से 10ग		
	9		11 से 23क		
	10		24 से 32		
	11		33 से 46		
	12		47 से अंत तक		
	13	ग्राम रलायता	1 से 19		
	14		20 से 38		
	15		39 से 63		
	16		64 से अंत तक		
	17	ग्राम एकलगढ़	1 से 16		
	18		17 से 32		
	19		33 से 51		
	20		52 से अंत तक		
57	सेदरामाता	1	1 से 10क	अ. जा.	5
		2	11 से 25क	अ. ज. जा.	-
		3	25 से 41	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	42 से 60	महिला अ. जा.	3
		5	61 से 76	महिला अ.ज.जा.	-
		6	77 से 96	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	97 से 120	महिला सामान्य	2
		8	121 से 142		
		9	143 से 159		
		10	160 से 176		
		11	177 से अंत तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		12	ग्राम हल्दूनी	1 से 18	
		13		19 से 46	
		14		48 से अंत तक	
58	राजनगर	1		1 से 15	अ. जा.
		2		17 से 42	अ. ज. जा.
		3		43 से 61	अन्य पिछड़ा वर्ग
		4		63 से 86	महिला अ. जा.
		5		87 से 100	महिला अ.ज.जा.
		6		101 से 123	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग
		7		125 से 146ड	महिला सामान्य
		8		147 से 169	
		9		170क से 181	
		10		182 से अंत तक	
		11	ग्राम ईशाकपुर	1 से 15	
		12		17 से 32	
		13		33 से 49	
		14		50 से 65	
		15		66 से 86	
		16		87 से 106	
		17		107 से 127	
		18		128 से 143	
		19		144 से अंत तक	
59	दलावदा	1		1 से 22क	अ. जा.
		2		23 से 40	अ. ज. जा.
		3		41 से 54	अन्य पिछड़ा वर्ग
		4		55 से 69	महिला अ. जा.
		5		70 से 91	महिला अ.ज.जा.
		6		92 से 113	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग
		7		114 से 129	महिला सामान्य
		8		130 से 150	
		9		151 से 169	
		10		170 से 184	
		11		185 से 201	
		12		202 से 218	
		13		219 से 242	
		14		243 से 258	
		15		259 से 285	
		16		286 से 307	
		17		308 से अंत तक	
		18	ग्राम दलखेड़ी	1 से अंत तक	
		19	ग्राम नई गुडभेली	1 से अंत तक	
		20	ग्राम पुरानी गुडभेली	1 से अंत तक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60	ढण्डेडा	1	1 से 19	अ. जा.	2
		2	20 से 36	अ. ज. जा.	-
		3	37 से 53	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	54 से 65	महिला अ. जा.	1
		5	66 से 76	महिला अ. ज. जा.	-
		6	77 से 96	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	97 से 111	महिला सामान्य	4
		8	112 से 128		
		9	129 से अंत तक.		
	10	ग्राम शार्दूलगढ	1 से अंत तक		
	11	ग्राम सांसरीपिपल्या	1 से 24 तक		
	12		25 से 50		
	13		51 से अंत तक.		
61	दीपाखेडा	1	2 से 25	अ. जा.	3
		2	26 से 41	अ. ज. जा.	-
		3	42 से 56	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	57 से 78	महिला अ. जा.	2
		5	79 से 98	महिला अ. ज. जा.	-
		6	100 से 119	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	120 से 132	महिला सामान्य	5
		8	133 से 146		
		9	147 से 161		
		10	162 से 173		
		11	174 से 190		
		12	191 से 210		
		13	212 से 234		
		14	235 से 263		
		15	264 से 287		
		16	288 से 310		
		17	312 से 346		
		18	347 से 364		
		19	365 से 393		
		20	395 से अंत तक.		
62	धतुरिया	1	1 से 28/1	अ. जा.	2
		2	29 से 59	अ. ज. जा.	-
		3	60 से 81	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	82 से 108	महिला अ. जा.	1
		5	109 से 129	महिला अ. ज. जा.	-
		6	130 से 150	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	151 से 166	महिला सामान्य	2
		8	167 से 185		
		9	186 से 203		
		10	204 से 220 व अंत तक.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
63	गोपालपुरा	1	1 से 13	अ. जा.	2
		2	14 से 29	अ. ज. जा.	-
		3	30 से 52	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	53 से 76	महिला अ. जा.	1
		5	77 से 99	महिला अ. ज. जा.	-
		6	100 से 122	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	123 से अंत तक.	महिला सामान्य	6
	8 ग्राम मजरा किशोरपुरा	1	1 से 15		
		9	16 से अंत तक.		
	10 ग्राम मामटखेड़ा	1	से 16		
		11	17 से 30		
		12	31 से 51		
		13	52 से 67		
		14	68 से 85		
		15	86 से 105		
		16	106 से अंत तक.		
	17 ग्राम करनाली जागीर	1	से 18		
		18	19 से 33		
		19	34 से अंत तक.		
64	माऊखेडा	1	1 से 11	अ. जा.	5
		2	12 से 29	अ. ज. जा.	1
		3	30 से 50 क	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	51 से 81	महिला अ. जा.	3
		5	82 से 104	महिला अ. ज. जा.	1
		6	105 से 125	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	126 से अंत तक.	महिला सामान्य	-
	8 ग्राम सेमलखेड़ा	1	से 23		
		9	24 से 42		
		10	43 से अंत तक.		
	11 ग्राम डाबडी	1	से 13		
		12	13 से अंत तक.		
65	तितरोद	1	1 से 36	अ. जा.	5
		2	37 से 68	अ. ज. जा.	1
		3	70 से 103	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	106 से 144	महिला अ. जा.	3
		5	145 से 172/1	महिला अ. ज. जा.	1
		6	173 से 222	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	227 से 250	महिला सामान्य	3
		8	255 से 283		
		9	285 से 342		
		10	345 से 375		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	11		376 से 414		
	12		415 से 453/2घ		
	13		454 से 494		
	14		496 से 523		
	15		525 से 550		
	16		552 से 581		
	17		584 623		
	18		624 से 653		
	19		654 से अंत तक.		
	20	ग्राम पाल्याखेड़ी	1 से अंत तक.		
66	महुआ				
	1		1 से 24	अ. जा.	5
	2		25 से 46	अ. ज. जा.	-
	3		47 से 65	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4		66 से 83	महिला अ. जा.	3
	5		84 से 96घ	महिला अ. ज. जा.	-
	6		97 से 124	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7		125 से 144	महिला सामान्य	4
	8		145 से 163		
	9		161 से 181ग		
	10		182 से 198/1		
	11		199 से 224घ		
	12		225 से 246		
	13		244 से अंत तक.		
	14	ग्राम गंगाखेड़ी	1 से 28		
	15		31 से 77		
	16		78 से 118		
	17		124 से 155		
	18		156 से 193		
	19		194 से 219		
	20		220 से अंत तक.		
67	बैलारा				
	1		1 से 16क	अ. जा.	2
	2		17 से 30	अ. ज. जा.	-
	3		31 से 50	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4		51 से 62	महिला अ. जा.	1
	5		63 से 75	महिला अ. ज. जा.	-
	6		76 से 98	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7		99 से 118	महिला सामान्य	6
	8		119 से अंत तक.		
	9	ग्राम बापच्चा	1 से 20		
	10		21 से 44		
	11		45 से 68		
	12		69 से 86		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	बैलारा	13 14 15 16 17 18 19	87 से अंत तक. 1 से 16 17 से अंत तक. 1 से 17 18 से 38 39 से 61ख 62 से अंत तक.		
68	करण्डया	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 से 16 17 से 33 34 से 50 51 से 70 71 से 89 90 से 102 103 से 124 अंत तक. 1 से 17 18 से 37ख 38 से 57 58 से अंत तक.	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	1 — 3 1 — 2 3
69	महुवी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	1 से 19 20 से 41 42 से 63 64 से 77 78 से 91 92 से 111 112 से 127क 128 से 143 144 से अंत तक. 1 से 17ख 19 से 30क 31 से 43क 44 क से 56 57 से 74 75 से 88ख 89 से 99क अंत तक.	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 — 4 1 — 2 5
70	ढिकनिया	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	2 से 12ख 13 से 35 36 से 53 54 से 67 68 से 85 क 86 से 98 क 99 से 114 क 115 से 134 135 से अंत तक. 1 से 12 13 से अंत तक.	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 — 3 2 — 2 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
71	खेजडिया	1	1 से 21	अ. जा.	2
		2	22 से 39	अ. ज. जा.	-
		3	40 से 50	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	51 से 68	महिला अ. जा.	1
		5	69 से 90	महिला अ. ज. जा.	-
		6	91 से 112	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	113 से 128क	महिला सामान्य	4
		8	29 से 142		
		9	143 से 165		
		10	166 से 178		
		11	180 से 193ड		
		12	194 से 197ग		
		13	198 से 210क		
		14	211 से 219ड अंत तक.		
72	लारनी	1	1 से 11	अ. जा.	2
		2	19 से 33	अ. ज. जा.	-
		3	34 से 47क	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	48 से 63ख	महिला अ. जा.	1
		5	64 से 81क	महिला अ. ज. जा.	-
		6	82 से 92घ अंत तक.	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	ग्राम खत्रुखेड़ी	महिला सामान्य	3
		8	1 से 20		
		9	21 से 34ख		
		10	35 से अंत तक क.		
	ग्राम नया खेड़ा मजरा	1	1 से 09		
		11	10 से अंत तक.		
73	रहिमगढ़	1	1 से 21ख	अ. जा.	7
		2	24 से 38	अ. ज. जा.	-
		3	39 से 54क	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	55 से 70	महिला अ. जा.	4
		5	71 से 90	महिला अ. ज. जा.	-
		6	91 से 105	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	107 से 129	महिला सामान्य	3
		8	131 से 149		
		9	151 से 169ख		
		10	170 से 193		
		11	194 से 215क		
		12	216 से 235		
		13	ग्राम चाहखेड़ी	2 से 32	
		14	33 से 51		
		15	52 से 69		
		16	70 से 79		
		17	80 से 89		
		18	90 से 101		
		19	102 से 118		
		20	120 से अंत तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
74	बसई	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 से 70 71 से 147 149 से 231 232 से 295ख 298 से 317 ख व 1 से 32 आसपुरा ग्राम आसपुरा ग्राम खण्डधामनिया 3 से 37 38 से अंत तक 2 से 58ख 59 से अंत तक 2 से 39क 40 से अंत तक 1 से 21 22 से 45 46 से 65 66 से 89 90 से 113 114 से अंत तक 1 से 20 21 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	5 — 5 3 — 3 4
75	अजयपुर	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 से 32 33 से 68 69 से 103 104 से 146क 147 से 178 179 से 207 208 से 245 246 से 275 276 से 306 307 से 351 352 से 378 379 से 408 409 से 448 449 से 482 483 से 509 510 से 532 533 से 563 564 से अंत तक 1 से 12 13 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 — 5 2 — 3 5
76	प्रतापपुरा	1 2 3 4	1 से 13 14 से 35 36 से 53 54 से 76ख	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	2 — 3 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	प्रतापपुरा	5 6 7 8 9 ग्राम तरावली 10	76 से 89क 89ख से 108 109 से 126 127 से अंत तक 134 से 160 161 से अंत तक	महिला अ. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	- 2 2
77	बर्डियागुर्जर	1 2 3 4 5 6 7 8 ग्राम बावडीखेड़ा 9 10 11	1 से 09 10 से 23 24 से 40 41 से 54 55 से 63 64 से 82 83 से 98 1 से 5 एवं 211 से 220 221 से 229 230 से 238 239 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	4 - 3 2 - 2 2
78	ढाबलामहेश	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 से 16डं 18 से 29 30 से 44 45 से 68क 69 से 85 86 से 103 104 से 125 126 से 147 148 से 162क 164 से अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	1 - 3 1 - 2 2
79	धलपट	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ग्राम धामनिया 16 17 18 19 20 कुण्डाल धाम	1 से 31 32 से 45 51 से 51ल 52 से 75 76 से 95 97 से 112 118 से 143 149 से 174 175 से 206 207 से 225 227 से 244 245 से 261 262 से 288 289 से अंत तक 1 से 19 20 से 36 38 से 54 55 से 80 81 से अंत तक 105 से 120 व अंत तक	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	5 1 5 3 1 3 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
80	कोटिया	1	1 से 13	अ.जा.	2
		2	14 से 34	अ.ज.जा.	-
		3	35 से 47	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	48 से 63	महिला अ.जा.	1
		5	64 से 86	महिला अ.ज.जा.	-
		6	87 से 106	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	107 से 130	महिला सामान्य	4
		8	131 से 150		
		9	151 से 164		
		10	165 से अंत तक		
	ग्राम कोटडी	11	2 से 25		
		12	26 से 41 ग		
		13	43 ग से अंत तक		
81	गोवर्धनपुरा	1	1 से 14	अ.जा.	5
		2	15 से 35	अ.ज.जा.	-
		3	36 से 51	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	52 से 67	महिला अ.जा.	3
		5	68 से 90	महिला अ.ज.जा.	-
		6	91 से 111	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	112 से 124	महिला सामान्य	1
		8	125 से 142 क		
		9	143 से अंत तक		
	ग्राम रूपारेल	10	1 से 24		
		11	25 से अंत तक		
82	गुराडियाविजय	1	1 से 21	अ.जा.	5
		2	22 से 41	अ.ज.जा.	-
		3	42 से 64	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	65 से 80	महिला अ.जा.	3
		5	81 से 103	महिला अ.ज.जा.	-
		6	104 से 120	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	121 से 133	महिला सामान्य	3
		8	134 से 155		
		9	156 से 179		
		10	180 से अंत तक		
	ग्राम रूघनाथपुरा	11	1 से 17		
		12	18 से 28		
		13	29 से 44		
		14	45 से 58		
		15	59 से अंत तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
83	धानडाखेडा	1	1 से 18	अ.जा.	2
		2	19 से 33	अ.ज.जा.	-
		3	34 से 50	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	51 से 64	महिला अ.जा.	1
		5	65 से 83	महिला अ.ज.जा.	-
		6	84 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	ग्राम रावतखेड़ा	7	1 से 12 क	महिला सामान्य	4
		8	13 से 30		
		9	31 से 40		
		10	41 से अंत तक		
	ग्राम देवरियामोती	11	1 से 12		
		12	13 से 36		
		13	37 से अंत तक		
	ग्राम निरधारी	14	53 से 61 व 1 से 13 व अंत तक		
84	जगदी	1	1 से 14	अ.जा.	2
		2	15 से 30	अ.ज.जा.	-
		3	31 से 45	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	46 से 58	महिला अ.जा.	1
		5	59 से 70	महिला अ.ज.जा.	-
		6	71 से 81	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	ग्राम धेचाली	7	1 से 15/1	महिला सामान्य	3
		8	16 से 30		
	ग्राम बर्डिया	9	01 से 17/3		
		10	18 से 31		
		11	32 से 51		
		12	52 से 63 व अंत तक		
85	कानाहैडा	1	1 से 13	अ.जा.	2
		2	14 से 33	अ.ज.जा.	-
		3	34 से 45	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	46 से 67	महिला अ.जा.	1
		5	69 से 94	महिला अ.ज.जा.	-
	ग्राम हरनावदा	6	1 से 15	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	16 से 29 क	महिला सामान्य	3
		8	30 से 43		
		9	44 से 59		
	ग्राम गुडा	10	1 से 9		
		11	10 से 23		
		12	24 से 41 व अंत तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
86	नाथूखेड़ी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 से 21 22 से 37 38 से 51 ग्राम खेताखेड़ी 52 से 67 व मजरा 1 से 12 13 से 34 35 से 52 ग्राम गोपाखेड़ी 1 से 31 32 से 56 ग्राम रोझानी 1 से 16 17 से 29/1 30 से 37/01 व अंत तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	1 — 3 1 — 2 3 — 3
87	भैसोला	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 से 15 क 16 से 31 32 से 47 48 से 52 व 1 से 11 ग्राम जाटखेड़ा 12 से 31 32 से अंत तक ग्राम झोटावली 1 से 16 17 से 31 32 से अंत तक ग्राम पिपल्या 1 से 10 11 से 22 23 से 35 36 से अंत तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	4 — 3 2 — 2 3
88	ढाबला भगवान	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 से 16 17 से 32 33 से 47 48 से 67 68 से 85 86 से 102 103 से 121 122 से 140 141 से 151 152 से 167 168 से अंत तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 — 3 2 — 2 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
89	ढोढर	1	1 से 21 क	अ.जा.	4
		2	13 से 48 क	अ.ज.जा.	-
		3	49 से 69	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	70 से 85	महिला अ.जा.	2
		5	86 से 98	महिला अ.ज.जा.	-
		6	99 से 105 ग	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	106 से 114	महिला सामान्य	2
		8 ग्राम सावंदी	1 से 20		
		9	21 से 36		
		10	38 से 52		
		11	53 से 71 व अंत तक		
90	किशोरपुरा	1	1 से 16	अ.जा.	5
		2	17 से 33	अ.ज.जा.	-
		3	34 से 44	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	45 से 60	महिला अ.जा.	3
		5	61 से 82 क	महिला अ.ज.जा.	-
		6	83 से 103	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	104 से 126	महिला सामान्य	3
		8	121 से 143		
		9	144 से 158 क		
		10	159 से 174		
		11	175 से 190 क		
		12	192 से 200 व		
			201 से 209 अंत तक		
		13 ग्राम नई आबादी	8 से 26		
		14	27 से अंत तक		
		15 ग्राम मोती जी	48 से 57 व		
			का खेड़ा	1 से 8	
		16	9 से अंत तक		
91	देवरियाविजय	1	1 से 13	अ.जा.	6
		2	14 से 25	अ.ज.जा.	-
		3	28 से 42 क	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	43 से 55	महिला अ.जा.	3
		5	56 से 69 क	महिला अ.ज.जा.	-
		6	70/1 से 85/1	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	86 से 101	महिला सामान्य	2
		8	102 से 114		
		9	115 से 123/2 क		
		10	124 से 138		
		11	139/1 से 148		
		12	149 से 157		
		13	158 से अंत तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
92	गुराडिया प्रताप	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 से 21/2 22 से 37 38 से 56 57 से 78 79 से 100 101 से 129 130 से 155 क 156 से 190 191 से 228 229 से अंत तक ग्राम खेजड़ीया मेघा	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	6 — 4 3 — 2 — 2
		12 13 14	33 से 51 52 से 76 77 से अंत तक		
93	टोकड़ा	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 से 17 18 से 35 36 से 52 53 से 68 69 से 97 98 से 120 121 से 142 143 से 162 163 से 181 182 से 202 203 से अंत तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	6 — — 3 — — — 3
94	जमुनिया	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 से 24 25 से 42 43 से 62 63 से 87 88 से 110 111 से 128 129 से अंत तक ग्राम हंसपुरा 1 से 17 18 से 37 38 से 54 55 से 69 70 से 90 91 से अंत तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 — 3 2 — 2 — 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
95	सेमलीकांकड	1	1 से 15	अ.जा.	6
		2	16 से 30	अ.ज.जा.	-
		3	31 से 43	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
		4	44 से 63	महिला अ.जा.	3
		5	64 से 80	महिला अ.ज.जा.	-
		6	81 से 100	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
		7	101 से 121	महिला सामान्य	3
		8	122 से 142		
		9	143 से 167		
	ग्राम सेमली-	10	168 से 182		
			कांकड व कारवेलिया		
		11	183 से अंत तक		
96	ढाबलादेवता	1	1 से 20	अ.जा.	6
		2	21 से 40	अ.ज.जा.	-
		3	41 से 64	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	65 से 81	महिला अ.जा.	3
		5	82 से 101	महिला अ.ज.जा.	-
		6	102 से 114	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	115 से 130	महिला सामान्य	4
		8	131 से 151		
		9	152 से 170		
		10	171 से 191		
		11	192 से 214		
		12	215 से अंत तक		
	ग्राम बंजारो	13	172 से अंत तक		
			का खेडा		
		14	ग्राम कुआखेडा 1 से अंत तक		
		15	ग्राम धनवाडा 19 से 40		
		16	41 से 63		
		17	64 से 81		
		18	82 से अंत तक		
		19	ग्राम बदनजी 1 से 17		
			का खेडा		
		20	18 से अंत तक		
97	गैलाना	1	1 से 18	अ.जा.	4
		2	19 से 37	अ.ज.जा.	-
		3	38 से 59	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	60 से 78 ख	महिला अ.जा.	2
		5	79 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	ग्राम धाकड़खेड़ी 1 से 16	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	17 से 35	महिला सामान्य	3
		8	35 से अंत तक		
		9	ग्राम रामनगर 1 से 18		
		10	19 से अंत तक		
	ग्राम लोढाखेड़ी	11	1 से 17		
		12	18 से 33		
		13	34 से अंत तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
98	रुनिजा	1	1 से 42	अ.जा.	5
		2	43 से 70	अ.ज.जा.	-
		3	71 से 107	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	108 से 145	महिला अ.जा.	3
		5	146 से 183	महिला अ.ज.जा.	-
		6	185 से 215 ख	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	216 से 250	महिला सामान्य	4
		8	251 से 291		
		9	292 से 340 ग		
		10	342 से 386		
		11	395 से 460		
		12	461 से 504		
		13	505 से 553		
		14	554 से 600		
		15	601 से 645		
		16	647 से 686		
		17	689 से 726		
		18	727 से 759		
		19	760 से अंत तक		
		20	ग्राम देवपुरानागर 1 से अंत तक		
99	आम्बा	1	1 से 32	अ.जा.	5
		2	33 से 58	अ.ज.जा.	-
		3	59 से 79	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	80 से 113	महिला अ.जा.	3
		5	114 से 132	महिला अ.ज.जा.	-
		6	134क से 152	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	153 से 173	महिला सामान्य	4
		8	174 से 199		
		9	200 से अंत तक		
		10	ग्राम भरपुर 1 से 18		
		11	19 से 32		
		12	33 से 49		
		13	50 से 67		
		14	68 से 85		
		15	86 से 104		
		16	105 से 119		
		17	120 से 145		
		18	146 से अंत तक		
		19	ग्राम डोकरखेड़ी 1 से 32		
		20	33 से अंत तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
100	धानखेड़ी	1	1 से 16	अ.जा.	7
		2	17 से 25	अ.ज.जा.	-
		3	26 से 39	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	40 से 53	महिला अ.जा.	4
		5	54 से 63	महिला अ.ज.जा.	-
		6	64 से 73	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	74 से 91	महिला सामान्य	3
		8	92 से 104		
		9	105 से अंत तक		
	10	ग्राम लखवा	1 से 13		
		11	14 से 30		
		12	31 से 45		
		13	46 से 58 अंत तक		
		14	1 से 19		
		15	20 से अंत तक		
	16	ग्राम अंत्रालिया	2 से 12		
		17	13 से 27		
		18	28 से 41		
		19	42 से 57		
		20	58 से अंत तक		
101	घसोई	1	1 से 22	अ.जा.	5
		2	23 से 45	अ.ज.जा.	-
		3	46 से 61	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	62 से 85	महिला अ.जा.	3
		5	86 से 113	महिला अ.ज.जा.	-
		6	114 से 134	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	135 से 161	महिला सामान्य	4
		8	162 से 195		
		9	196 से 213		
		10	214 से 240 व 296 373		
		11	241 से 260		
		12	261 से 289		
		13	290 से 311		
		14	312 से 333		
		15	334 से अंत तक		
	16	ग्राम बंजारो का खेड़ी	355 से अंत तक		
		17	ग्राम बागरीखेड़ा 367 से 385		
		18	386 से 406		
		19	407 से 426		
		20	427 से अंत तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
102	तरनोद	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 से 20 21 से 38 39 से 56 57 से 73 75 से 93 95 से 110 111 से 126 127 से 143 144 से 163 164 से अंत तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 — 3 1 — 2 2
103	चांपाखेड़ी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 से 14 15 से 33 34 से 56 57 से 77 78 से 96 क 97 से अंत तक ग्राम मसुदी 1 से 16 17 से 36 37 से 57 58 से अंत तक ग्राम गर्दनखेड़ी 1 से 17 ख 18 से अंत तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	5 — 3 3 — 2 1
104	देवपुराबामनी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	1 से 14 15 से 30 31 से 48 49 से 66 67 से 86 87 से अंत तक ग्राम गुराडियाबामनी 1 से 17 18 से 32 33 से अंत तक ग्राम खेजड़ीया भूप 1 से 15 16 से 31 32 से 46 47 से 63 64 से अंत तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	4 — 4 2 — 2 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
105	सेमली	1	1 से 7	अ.जा.	3
		2	8क से 13 ख	अ.ज.जा.	-
		3	14 से 17 ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	18 से 24 च	महिला अ.जा.	2
		5	24 ग से 31 ख	महिला अ.ज.जा.	-
		6	31 ग से 38	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	39 से 49 क	महिला सामान्य	2
		8	49 ख से अंत तक		
	ग्राम दल्लोद	9	1 से 14		
		10	15 क से 28		
		11	29 से 42 क		
		12	42 ग से अंत तक		
106	अंगारी	1	1 से 24	अ.जा.	2
		2	25 से 43	अ.ज.जा.	-
		3	44 से 59	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	60 से 74	महिला अ.जा.	1
		5	75 से 95	महिला अ.ज.जा.	-
		6	96 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	ग्राम हनुमंतिया	7	1 से 16	महिला सामान्य	3
		8	17 से अंत तक		
		9	38 से 48 व 1 से 4		
		10	5 से अंत तक		
	ग्राम धान्याखेडी	11	1 से 12		
		12	13 से 32 क		
107	बोरखेडी	1	1 से 20	अ.जा.	2
		2	21 से 35	अ.ज.जा.	-
		3	36 से 53	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	54 से 73	महिला अ.जा.	1
		5	74 से 87	महिला अ.ज.जा.	-
		6	88 से 100	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	101 से 117	महिला सामान्य	3
		8	118 से 134		
		9	135 से 157		
		10	158 से 172		
		11	173 से अंत तक		

ग्राम पंचायत  
परिशिष्ट-5(अ)

## कार्यालय, कलेक्टर, (पंचायत) हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर, जिला हरदा मध्यप्रदेश, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में, जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:—

### सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	धौलपुरकला	1	1 से 19 तक सुरेशचंद रामाधार से देवकरण रणछोड	अ. जा.	3
2		2	20 से 30ख तक भागवतीबाई हरिशंकर से संतोष परसराम	अ. ज. जा.	4
3		3	31 से 40 तक धापूबाई बिहारीलाल से ओमप्रकाश रामेश्वर	अ.पि. वर्ग	4
4		4	41 से 63 तक लक्ष्मीबाई प्रभुदयाल से सुंदरबाई चंपालाल	महिला अ. जा.	2
5		5	64 से 78 तक निर्मलाबाई बाजूलाल से रुखमणीबाई जयनारायण	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	79 से 92 तक सावित्रीबाई छतरसिंह से नर्मदाप्रसाद शिवकरण	महिला अ.पि.व.	2
7		7	93 से 113 तक शैतान जगन्नाथ से मदन डालूराम तक	महिला सामा.	3
8		8	114 से 122 तक रामस्वरूप डालूराम से समोती शिवराम तक		
9		9	122/1 से 136 तक सुरजाबाई मनीराम से माखन पन्नालाल तक		
10		10	137 से 150 रामबिलास रामप्रसाद से शिवप्रसाद रामलाल तक		
11		11	151 से 170 कलाबाई हीरालाल से बालकिशन गिरधारी		
12		12	171 से 181 सालकराम गिरधारी से भीमसिंह चंपालाल		
13		13	181/1 से 193क शिवचरण फत्तू से दिनेश शोभाराम		
14		14	194 से 206क निर्मलाबाई विश्राम से भगियाबाई मल्लू		
15		15	207 से 220 तक रुखियाबाई रामजी से मंगलसिंह श्यामलाल तक		
16		16	222 से 234 तक मुंशीलाल कोलू से फूलचंद गेंदालाल		
17		17	235 से 445 तक रमेशचंद गेंदालाल से श्यामलाल जीरू		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लोधीढाना गोलीढाना.	1	1 से 13 गोपाल रामचन्द्र से रामकरण नीला	अ. जा.	-
2		2	14 से 27 हरिराम शीतल से तुलसीराम राधेलाल तक	अ. ज. जा.	9
3		3	15 से 34 तुलाराम सुखलाल से बाटू काल्या तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	35 से 43 सखाराम सालकराम से पीरू भीलू तक	महिला अ. जा.	-
5		5	44 से 57 जोहरी धनू से प्यारेलाल भूतू तक	महिला अ.ज.जा.	5
6		6	58 से 65 किशोर चुईया से सीताराम बलकू तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	66 से 80 कोलू डोडी से नानू आंदू तक	महिला सामा.	1
8		8	81 से अंत तक परसराम बिसरू से नंदकिशोर झल्लू		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	डेबराबंदी	9	1 से 13 लखन दलसू से राधा प्यारेलाल तक		
10		10	14 से 24 सुमती परसराम से कमल बबू तक		
11		11	25 से 40 फुलकाय राजाराम से बगलो ललित तक		
12		12	41 से अंत तक रुखमा सुकल्या से प्रह्लाद लक्षण तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	अहलवाडा	1	1 से 15 रामप्रसाद किशन से चेतन शिवनारायण तक	अ. जा.	5
2		2	16 से 31 रामनाथ जोखीलाल से रूपेश कैलाश तक	अ. ज. जा.	3
3		3	31क से 41क लक्ष्मी गेंदालाल से सुनिता सतीश तक	अ.पि. वर्ग	5
4		4	42 से 50क भगवानदास मोजीलाल से अनिल रामदास तक	महिला अ. जा.	3
5		5	51 से 62 शिवराम बिहारी से शकुन राजेश तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	62क से 83 रामनिवास भैयालाल से कृष्णा कैलाश	महिला अ.पि.व.	3
7		7	84 से 107 रामविलास शालकराम से प्रिया कोमल	महिला सामा.	1
8		8	108 से 129 तक रामरतन हजारी से अनिल पूनमचंद तक		
9		9	130 से 149 तक मोतीलाल गयाप्रसाद से विष्णु राजेश तक		
10		10	1 से 25 नरेन्द्र रामचन्द्र से चिंता रामलाल तक		
खरतलाय					
11		11	26 से 43 सुकिया रामदास से संतोषी गणेश तक		
12		12	44 से 59 किशोरी रामप्रसाद से कीर्ति विनोद तक		
13		13	60 से 77ख लक्ष्मीनारायण बिहारी से धर्मेन्द्र काशीराम तक		
14		14	1 से 13 वृद्धावन नानकराम से सरोज नरेन्द्र तक		
चौकडी					
15		15	14 से 31 गेंदालाल रामदास से शशीकांत केवलराम तक		
16		16	31ग से 49 उषा लवकुश से अनसुईया हरिओम तक		
17		17	50 से 64 गंगाराम नंदकिशोर से कृष्णाबाई गयाप्रसाद		
18		18	65 से 105 सुरेश रामगोपाल से रानी मनीष तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	सोडलपुर	1	1 से 35 सावित्रीबाई गेदालाल से गोकुल रामेश्वर	अ. जा.	5
2		2	36 से 67 नर्मदा मांगीलाल से ओमप्रकाश रामप्रसाद	अ. ज. जा.	2
3		3	68 से 92 साऊ रामाधार से लक्ष्मी रामचरण	अ.पि. वर्ग	5
4		4	93 से 144 केवलराम देवकरण से रामकृष्ण जोखीलाल	महिला अ. जा.	3
5		5	145 से 180 राजकुमार मनोहर से हीरालाल खेमचंद	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	181 से 233 बिहारी भीका से शोभाराम जंगलू	महिला अ.पि.व.	3
7		7	234 से 268 महेन्द्र जीवनलाल से कुसुम शिवराम तक	महिला सामा.	3
8		8	269 से 295 दिनेश रामलाल से रामजी तोताराम तक		
9		9	296 से 322 गंगा दल्लूसिंग से बालाराम बट्री तक		
10		10	323 से 362 रामू नथू से श्रीकिशन जमनादास तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	सोडलपुर	11	363 से 421 मदनलाल खजू से रेवाराम रामचरण तक		
12		12	422 से 467 शंकरलाल पन्नालाल से दिनेश रामेश्वर		
13		13	468 से 494 ओमप्रकाश बाबूलाल से अमरदास राधाकिशन तक		
14		14	495 से 514 मथराबाई गुलजारी से डालूराम गुलाबसिंह तक		
15		15	515 से 536 मनाबाई शिवनारायण से प्रेमनारायण रणछोड़ तक		
16		16	537 से 575 भागवती मिश्रीलाल से धापू पूनम		
17		17	576 से 607 सुकु हेमराज से दिनेश कान्ताप्रसाद		
18		18	608 से 657 रामभरोस छीतर से रामाधार रामभाउ		
19		19	658 से अंत तक गोपीकिशन सीताराम से गुलाबसिंह गुबडा		
20		20	1 से अंत तक भगवानदास घासीराम से धनराज इमरतलाल तक.		
गुरारखेडा					

अनु-	ग्राम पंचायत	वार्डों के	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
क्रमांक	का नाम	क्रमांक	तक मुखिया के नाम सहित	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	चन्द्रखाल	1	1 से 10 छनू ओझी से सुकल्या सालकराम तक	अ. जा.	-
2		2	11 से 18 बिसन भैयालाल से अमरावती दरोई	अ. ज. जा.	14
3		3	19 से 24 मगराय सेवल्या से गोरखी चुन्नी तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	25 से 31 रमोता लालसिंह से सोमा विसराम तक	महिला अ. जा.	-
5		5	32 से 36 झुम्मर रामदयाल से बिसराम बूचा	महिला अ.ज.जा.	7
6		6	37 से 45 प्रह्लाद टीकाराम से नंदराम मंगल	महिला अ.पि.व.	-
7		7	46 से 55 हरिराम मंगल से चेतराम गुटांग तक	महिला सामा.	1
8		8	56 से 64 बलीराम जयराम से सुखराम नथू		
9		9	65 से 75 मयराम भाउ भूता सोमा तक		
10		10	76 से 85 मंगलू मुंशी से रामेश्वर शिवलाल तक		
11		11	1 से 7 ओमप्रकाश सत्यनारायण से लक्ष्मण चुन्नी तक		
गोराखाल					
12		12	8 से 20 सोमा भैयालाल से दददू भैयालाल तक		
13		13	21 से 33 बालू भैयालाल से हरिदास रामप्रसाद		
14		14	34 से 42 किशन श्यामलाल से बालाराम सुखदेव तक		
15		15	43 से 55 बालाराम गोलू से बंशीलाल परसू तक		
16		16	56 से 64 शोभाराम परसू से पन्नालाल विश्राम		

अनु-	ग्राम पंचायत	वार्डों के	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
क्रमांक	का नाम	क्रमांक	तक मुखिया के नाम सहित	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खांग	1	1 से 9/2 बाबू विसराम से नानू सानू तक	अ. जा.	-
2		2	9/2 क से 18 जयराम मंगल से कलीराम मोतीराम तक	अ. ज. जा.	10
3		3	19 से 24 शिवलाल बाटू से करण रमेश तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	25 से 35 झुनई आशराम से अर्जुन पतिराम तक	महिला अ. जा.	-
5		5	36/1 से 46 रतिराम से लखन साबूलाल तक	महिला अ.ज.जा.	5
6		6	47 से 54/1 रामभरोस भददू से सोमजी काढू तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	54/2 से 61क गोकुल हीरा से कैलाश सम्मल तक	महिला सामा.	2
8		8	62 से 69 बिलकी ओझू से मांगीलाल धर्मदास तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	रवांग	9	70 से 79 रामदास मौतीराम से पारू जीवनदास तक		
10		10	85ख से 97क जगदीश सालकराम से सीता कन्हैया तक		
11		11	97ख से 106 नंदलाल सुखलाल से कृष्ण सुखलाल तक		
12		12	106क से 110 राधेश्याम अमरलाल से गुरुप्रसाद गुलाब तक		
13		13	111 से 112 रेवाराम सुखराम से शांति लक्ष्मण तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पाटियाकुआ	1	1 से 15 भवला मंगल से इमरत गंगू	अ. जा.	-
2		2	16 से 26 सूरजलाल मुंगिया से दीनदयाल गुलाब	अ. ज. जा.	10
3		3	27 से 38 इमरत चैतराम से बाटू सोमा तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	39 से 50 शंकर भांगू से नानू छोटू	महिला अ. जा.	-
5		5	50क से 61 कमला रामलाल से रामभरोस गंगाराम	महिला अ.ज.जा.	5
6		6	01 से 13क सोमा चिरोजी से बिहारी कालू तक	महिला अ.पि.व.	-
	गोहटी				
7		7	13ख से 23क चुब्बी कडकसिंह से कोददा रंगू तक	महिला सामा.	-
8		8	23ख से 34 मदन गंगू से भूरू रीठा तक		
9		9	36 से 45 हरि रोहना से मुल्ला धनू तक		
10		10	46 से 58 रामा रंजू से सकुन अनिल तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बघवाड	1	1 से 18क अजबसिंह से रूपसिंह गेंदालाल	अ. जा.	06
2		2	19 से 29क शांता सालकराम से जगदीश बलदेव	अ. ज. जा.	01
3		3	30 से 45क बसकर कचरूसिंह से कमल बउआ	अ.पि. वर्ग	04
4		4	46 से 57क रामनारायण रामचरण से रामबक्स हरनाथ	महिला अ. जा.	03
5		5	58 से 67 रामदास कोण्ड से रामसिंह हजारी	महिला अ.ज.जा.	01
6		6	68 से 84 भुजराम ग्यारसा से राधेलाल ग्यारसा	महिला अ.पि.व.	02
7		7	85 से 99क हजारी रतन से चंपालाल पूनम	महिला सामा.	01
8		8	100 से 114क गेंदालाल से मुकेश रामाधार		
9		9	115 से 131क कचरू राधेलाल से महेश श्यामलाल		
10		10	132 ले 148क रामस्वरूप मांगीलाल से महेश चंपालाल		
11		11	149 से 166क बद्री सालकराम से शारदा लक्ष्मीनारायण		
12		12	167 से 179स अजमेरी गुलमा से पहचाननाथ		
13		13	180 से 193 बद्रीनाथ चंपानाथ से दुलारी अमरसिंह		
14		14	193क से 207क सेजराम अमरू से वाहिद गुसल तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आमसागर	1	1 से 11 मुबारिक तिजोरी से जमुनाबाई शोभाराम तक	अ. जा.	-
2		2	12 से 20 आशाराम मानसिंह से भुसी रामकरण तक	अ. ज. जा.	10
3		3	21 से 37 मोटे मल्लू से राणा भाऊ तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	39 से 50 नंदू छोटेलाल से पाच्चा शोभू तक	महिला अ. जा.	-
5		5	50/1 से 59 बाबूलाल रामा से पूनमचंद सूरज तक	महिला अ.ज.जा.	05
6		6	60 से 67 लछियाबाई हरिराम से इमरताबाई श्यामलाल तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	68 से 76 गौराबाई रामलाल से नवलसिंह शोभाराम तक	महिला सामा.	01
8		8	01 से 11क लखनलाल परमसुख से गेंदालाल बिहारी तक		
<b>धनपाड़ा</b>					
9		9	12 से 19 राजकुंवर कालूराम से भीरा बिरजा तक		
10		10	21 से 33 सुभद्रा चंपालाल से चैनसिंह जगन तक		
11		11	34 से 47 रमेश सीताराम से रामरत्न बृजलाल तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नजरपुरा	1	1 से 16 तक हमीद लतीफ से लखन सुखदेव तक	अ. जा.	02
2		2	17 से 29 तक अमरसिंह सुखदेव से अमरदास रामदास	अ. ज. जा.	06
3		3	30 से 50 तक श्यामबाई नहा से अमरबाई गोविन्द	अ.पि. वर्ग	05
4		4	51 से 69 तक जुगल अनोखी से अमरदास हजारी तक	महिला अ. जा.	01
5		5	70 से 88 तक शिवनारायण कोंदरमल से सुमंत्राबाई मूलचंद तक	महिला अ.ज.जा.	03
6		6	89 से 107 तक रामगोपाल कालूराम से कमला गेंदालाल तक	महिला अ.पि.व.	03
7		7	108 से 124 तक उर्मिला नरसिंह से सीताराम गंगाराम	महिला सामा.	03
8		8	125 से 140 तक त्रिवेणी प्रेमनारायण से जगदीशप्रसाद बिहारी तक		
9		9	141 से 154ग तक चंपालाल रामलाल से बिसराम श्यामलाल तक		
10		10	155 से 181 तक श्रीराम रामकरण से गोपीकृष्ण नाथुराम		
11		11	182 से 206 तक रामशंकर रामकिशन से मांगीलाल जगन्नाथ तक		
12		12	207 से 225 तक शांताबाई खेमराज से जमनी विश्राम		
13		13	226 से 242 तक सोमती कुंअरसिंह से राधेश्याम बाबूलाल तक		
14		14	243 से 269ग तक कमला बालाराम से वर्षा कमलसिंह		
15		15	270 से 297ख तक बुधियाबाई बलीराम से किशोरी जोहरी तक		
16		16	298 से 316 तक दामू सुकलो से सोन्या बाबाजी तक		
17		17	317 से 336 तक शहनाजबी नवाब से कमल गणेश तक		
18		18	337 से 408ग तक दशरथ गणेश से शौकत इब्राहिम		
19		19	02 से 19ख तक विनोद सुंदरलाल से बालू गंगाराम		
<b>उमरधा</b>					
20		20	20 से 40घ तक मनूलाल फालू से जरीनाबी नादिकशाह तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नांदवा	1	1 से 18 इमरती ब्रजलाल से शिवप्रसाद पृथ्वीराम तक	अ. जा.	02
2		2	19 से 30 नंदकिशोर कुंजीलाल से बोंदर घासीराम तक	अ. ज. जा.	02
3		3	31 से 46 मांगीलाल भागीरथ से गौरीशंकर कुंजीलाल तक	अ.पि. वर्ग	03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	नांदवा	4	47 से 72 जगदीश रामगोपाल से शिवराम बिहारी तक	महिला अ. जा.	01
5		5	73 से 90 रूपसिंह कालूराम से गिरजाबाई बृजलाल तक	महिला अ.ज.जा.	01
6		6	91 से 108 शुभम रामकृष्ण से आनंदीलाल रामलाल तक	महिला अ.पि.व.	02
7		7	109 से 128 गुलाब कोलू से चंपाबाई चंपालाल तक	महिला सामा.	02
8		8	01 से 10 इमरती बंशीलाल से राधेश्याम नन्हा तक		
	पडवा				
9		9	11 से 22 लक्ष्मी धनसिंह से राधेश्याम गेंदलाल तक		
10		10	23 से 30/1ख रामचरण नानकराम से सुरेन्द्र कोमलराम तक		
11		11	31 से 64ख रमेश रामप्रसाद से सुरेश अमरसिंह तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रून्दलाय	1	1 से 17 रामशंकर नाथराम से नानी राजाराम तक	अ. जा.	03
2		2	18 से 41 बसकरबाई लखाराम से रुखमणी जयराम तक	अ. ज. जा.	03
3		3	42 से 60 रंगलाल रामचंद्र से सरोज सुभाष तक	अ.पि. वर्ग	04
4		4	61 से 74 केशाराम सुरताजी से अर्जुन रेवाराम तक	महिला अ. जा.	02
5		5	75 से 88 रामौतार रामलाल से राहुल विनोद तक	महिला अ.ज.जा.	02
6		6	88क से 105 पन्ना बोंदर से अक्षयसिंह तक	महिला अ.पि.व.	02
7		7	106 से 118 हेमकुंअर हरिसिंह से रमा रामदास तक	महिला सामा.	01
8		8	119 से 134 जमनादास से संगीता कमल तक		
9		9	134क से 145ड तक मोहन रामगोपाल से सुनिता मणी तक		
10		10	145च से 159 जगदीश रामदीन से माया भीकालाल		
11		11	160 से 185ख बंशीलाल साबूलाल से अनसुईया महेश तक		
12		12	185ग से 211 मुंशी सुखराम से गोपाल भाऊ तक		
13		13	212 से 230 अमरसिंह सालिकराम से सुखराम खनजी तक		
14		14	01 से 15 मनोरमा सुनील से जयसिंह भारत तक		

## खोडयाखेडी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	छोरपुरा	1	1 से 16 कमलाबाई बाबूलाल से कमला गेंदलाल तक	अ. जा.	-
2		2	17 से 35 नंदकिशोर रामतन से रामाधार कन्नी तक	अ. ज. जा.	11
3		3	36 से 51 जीवन सुखराम से गणेश प्रह्लाद तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	52 से 70 भागवती रामकरण से मंगल जागेशवर तक	महिला अ. जा.	-
5		5	71 से 85 रामदास जुगलाल से विजय परसराम तक	महिला अ.ज.जा.	06
6		6	87 से 108 रामदास रामभाऊ से रामनारायण केवलराम तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	109 से 124 अंत मांगीलाल सालिकराम से मनोहर किशोरी तक	महिला सामा.	01
8		8	01 से 16 रामकरण बल्लू से गोपाल हीरा तक		
	खात्माखेडा				
9		9	17 से 49 आशाराम हीरा से कालूराम मनू तक		
10		10	1 से 31 मनीराम चुड़डी सेमुकेश मांगीलाल तक		
	डोग				
11		11	1 से 14 कैलाश गोपीकिशन से सूरज धन्ना तक		
	जवारधा				
12		12	15 से 26 शोभाराम चैतू से रामविलास सोहनलाल तक		
13		13	27 से 54 सूरज शंक से अमरसिंह शंकर तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	करताना	1	1 से 16/1 विनोद बाबूलाल से दिनेश परसरनाम तक	अ. जा.	04
2		2	16/2 से 21क रामसिंह सानू से राधाकिशन कुंजीलाल तक	अ. ज. जा.	02
3		3	21क/1 से 27 धनराजशंकर से फतेहसिंह रामसिंह तक	अ.पि. वर्ग	04
4		4	27क से 42क मोहनलाल बाबूलाल से मांगीलाल उमराव तक	महिला अ. जा.	02
5		5	43 से 58 रतनसिंह गुलाबसिंह से जगदीश बापूसिंह तक	महिला अ.ज.जा.	01
6		6	60 से 78 लक्ष्मीनारायण करणसिंह से रेवाराम कहैया तक	महिला अ.पि.व.	02
7		7	79 से 93 बरजोरसिंह रामलाल से भगवतसिंह जगनाथ तक	महिला सामा.	04
8		8	93क से 113 मदन रामेश्वर से लक्ष्मीनारायण फत्तू तक		
9		9	114 से 132 जागेश्वर सुखलाल से शंकर कान्हा तक		
10		10	133 से 147 मिसरबाई भागल्या से बद्री हजारी तक		
11		11	148 से 160ग जानी हुसैन से गजराज रामलाल तक		
12		12	160घ से 184 पून्यबाई हल्लू से भागवत गब्बाजी तक		
13		13	185 से 200 सोनाबाई भारतसिंह से कुंअरसिंह मोहनलाल तक		
14		14	200क से 224 बृजबाई सिकदार से कचरुप्रसाद हरिराम तक		
15		15	224क से 239क लक्ष्मीबाई धर्मेन्द्र से नरेन्द्र कैलाश तक		
16		16	240 से 258 मूरत सिंह कुंजीलाल से रामकृष्ण बरजोर तक		
17		17	260 से 280क नूरमोहम्मद बलदार से युसुफशाह इदूशाह तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भवरास	1	1 से 9 शिवनारायण रामकरण से सुखलाल श्रीकिशन तक	अ. जा.	05
2		2	10 से 23 बलराम श्रीकिशन से परसराम सीताराम तक	अ. ज. जा.	02
3		3	24 से 37क लीलाबाई रामदीन से रामबक्स गोरेलाल तक	अ.पि. वर्ग	05
4		4	38 से 50 रामरूप मोतीराम से मुकेश बिहारी तक	महिला अ. जा.	03
5		5	51 से 72 गोरेलाल प्यारेलाल से रमेश शालकराम तक	महिला अ.ज.जा.	01
6		6	73 से 88 द्वारकाबाई श्यामलाल से रेवाराम हरकिशन तक	महिला अ.पि.व.	03
7		7	89 से 102क शैतानसिंह चैनसिंह से रामसिंह श्रीराम तक	महिला सामा.	02
8		8	103 से 112छ जोखीलाल रामचन्द्र से जगदीश घुडेलाल तक		
9		9	1 से 18/5 रामभरोस कलीराम से हेमन्त भैयालाल तक		
बिल्लौद					
10		10	19 से 35क समोता रामेश्वर से गोविन्द रामाधार तक		
11		11	36 से 48छ रुखमणि जगनाथ से किशोरी चैतू तक		
12		12	48च से 68 बलीराम प्यारेलाल से गेंदालाल मूलचंद तक		
13		13	69 से 84 कृष्णाजी कालूराम से रामवती श्यामलाल तक		
14		14	85 से 99ग बृजलाल बाबूलाल से ईश्वर सिकदार तक		
15		15	1 से 15 रामेश्वर घुडया से बाजूलाल सोन्या तक		
लाखाखेडी					
16		16	16 से 27 कुंजी रामचरण से बलराम शिवराम तक		
17		17	28 से 41 रामनाथ मांगीलाल से लखन श्रीराम तक		
18		18	42 से 52 घुडया पना के मकान से लक्ष्मी मिट्ठू तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गाडामोडकला	1	1 से 11 जितेन्द्र भगवान से भागवती नंदलाल तक	अ. जा.	02
2		2	12 से 27क गुलाबबाई रामकिशन से लखनलाल रामकरण तक	अ. ज. जा.	-
3		3	28 से 39 सुगनाबाई रामगोपाल से मानसिंह रामगोपाल तक	अ.पि. वर्ग	03
4		4	40 से 51 अनोखीलाल शेरसिंह से मरदम बाबूलाल तक	महिला अ. जा.	01
5		5	52 से 62 श्रीराम मकुंदराम से सोनाबाई रुखडया तक	महिला अ.ज.जा.	-
6		6	63/1 से 74/1 रामप्यारी रामलाल से गेंदलाल जोखीलाल तक	महिला अ.पि.व.	02
7		7	74/2 से 85 नर्मदीबाई गोरेलाल से इमरत हरिराम तक	महिला सामा.	04
8		8	86 से 92/4 देवकरण मंशाराम से अनूप मरदमसिंह तक		
9		9	1 से 17 देवकरण नेपाल से गजराजसिंह जगन्नाथ तक		
<b>धौलपुर</b>					
10		10	18 से 25/3 श्यामलाल ताराचंद से हरिओम रामेश्वर तक		
11		11	25/4 से 31 मंजूबाई बालकृष्ण से रूपसिंह बाबूलाल तक		
12		12	32 से 47 उमाबाई लक्ष्मीनारायण से कमलाबाई रामलाल तक		
13		13	48 से 65क तक श्यामलाल से रामदास अमरसिंह तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सामरथा	1	1 से 25 परसराम खुशयाल से प्रेम चंपलाल तक	अ. जा.	03
2		2	26 से 45 रामगोपाल मांगीलाल से अर्जुन मुरार तक	अ. ज. जा.	01
3		3	46 से 68 मथुरा हजारी से रमेश शिवकरण तक	अ.पि. वर्ग	04
4		4	69 से 91 गुलाब देवाजी से रामनारायण रामचरण तक	महिला अ. जा.	02
5		5	92 से 112 चिरोंजी भागीरथ से राधाकिशन नाथराम तक	महिला अ.ज.जा.	01
6		6	113 से 132 हरगोविन्द शिवनारायण से मंशाराम बिहारी तक	महिला अ.पि.व.	02
7		7	133 से 154 गीता बदी से नर्मदा गोकुल तक	महिला सामा.	03
8		8	155 से 170/2 कोकिला जुगलकिशोर से शिवनारायण कुंजीलाल तक		
9		9	171 से 202 सावित्री जोखीलाल से परसराम बालाराम तक		
10		10	1 से 17 सावित्री छगनलाल से आनंदसिंह रामलाल तक		
<b>बारंगा</b>					
11		11	18 से 35 अनारसिंह जागेश्वर से प्रहलाद मोहनलाल तक		
12		12	37/1 से 56 शिवप्रसाद चंद्रसिंह से अजय आनंदसिंह तक		
13		13	58 से 80 नर्मदा रामदयाल से प्रहलाद उमराव तक		
14		14	82 से 100 तक अजबसिंह देवकरण से जगन्नाथ चंपालाल तक		
15		15	101/2 से 111 हरिप्रसाद भगवान से भरतलाल रामनिवास तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उन्द्राकछ	1	1 से 10 तक पार्वती भागवत से हरिराम हरगोविन्द तक	अ. जा.	01
2		2	11 से 20 तक रामेश्वर मोती से गणेशी रामप्रसाद तक	अ. ज. जा.	03
3		3	21 से 29 तक बाजूलाल जागेश्वर से शंकरलाल रामभरोस तक	अ.पि. वर्ग	03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	उन्द्राकच्छ	4	30 से 42 तक घोसी हजारीलाल से वीरेन्द्र रामभरोस तक	महिला अ. जा.	01
5		5	43 से 54 तक परमसुख रामप्रसाद से सुरेन्द्र शिवरीनारायण तक	महिला अ.ज.जा.	02
6		6	55 से 69 तक शिवकुमार रामभरोस से रामदास मांगीलाल तक	महिला अ.पि.व.	02
7		7	70 से 80 तक बोंदर हीरालाल से रामविलास देवकरण तक	महिला सामा.	01
8		8	81 से 94 तक आलोक पुरुषोत्तम से रामकुअर सालिकराम तक		
9		9	95 से 112 तक हमरूनबी पीरु मोहम्मद से हरिप्रसाद राधोलाल तक		
10		10	113 से 123 तक भागीरथप्रसाद बालाराम से सुंदर रामप्रसाद तक		
11		11	124 से 133 तक गणपतीबाई रामगोपाल से श्रीकिशन देवकरण तक		
12		12	134 से 154 तक श्यामबाई विजयसिंह से सुमरती राधेलाल तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राजाबरारी	1	1 से 12 नारायण बोंदर संजय काजवे तक	अ. जा.	-
2		2	13 से 26 रामचरण मोती से शंकर दमडू तक	अ. ज. जा.	18
3		3	27 से 41 बाबूलाल मदन से पारो तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	42 से 54 जयनारायण शंकरलाल से जगलकिशोर तक	महिला अ. जा.	-
5		5	55 से 67 गेंदालाल शिकदार से सुबेदार तक	महिला अ.ज.जा.	09
6		6	68 से 77 रामसू जगराम से फूलोल जयसिंह तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	78 से 88 साबूलाल भंगू से कूपरा बुद्ध तक	महिला सामा.	01
8		8	89 से 97 बीसोबाई कजरी से रामबक्स गीदू तक		
9		9	98 से 127 श्यामलाल भीलिया से मिथलेश शिवराम तक		
10	महागांव टोला	10	1 से 15 नन्दू भाउ से लालमन बूचा तक		
11		11	16 से 25 उमराव बिसराम से परसू भंगी तक		
12		12	26 से 39 बलीराम कूला से म्यानसिंह आशाराम तक		
13		13	40 से 57 मंशाराम रोहना से दिलीप कुमार तक		
14	ग्राम सालईठेका	14	1 से 4ग रामकिशन छतरू से शकुनबाई रामभाउ तक		
15		15	4घ से 8 तक सावित्री शिवदीन से रामप्रसाद जोहरी तक		
16		16	8/1 से 19 तक शांता परीराम से सुशीला नारायण तक		
17	ग्राम उचाबरारी	17	1 से 14 फत्थू भांगी से कपूरा राजाराम तक		
18		18	15 से 21 पटेल ओमकार से केवलराम विश्नू तक		
19		19	22 से 33 शिव सेवाराम से जानकी छोटेराम तक		
20		20	34 से 47 बलीराम रामा से रामवती सुकराम तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बड़वानी	1	1 से 13 तुलसीराम कन्हैया से सुखलाल चाचा तक	अ. जा.	-
2		2	14 से 30 दयाराम नन्हेसिंह से भंगी नंदकिशोर तक	अ. ज. जा.	09
3		3	31 से 47 श्रीराम शिवकरण से शिवप्रसाद किशन तक	अ.पि. वर्ग	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	बड़वानी	4	48 से 62 भूरेलाल रोहना से प्रेमसिंह साहबलाल तक	महिला अ. जा.	-
5		5	63 से 77 मंजू पना से बाबूलाल सोमा तक	महिला अ.ज.जा.	05
6		6	78 से 93 शिवप्रसाद राजमल से सुशीला रामचंद तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	02 से 13 कालई बाबू से प्रेमसिंह चतर तक	महिला सामा.	-
			केलझिरी		
8		8	14 से 25 गुलाबसिंह भूरसा से लालसिंह नहलू तक		
9		9	26 से 37 नंदलाल शिवकरण से गजरी चंपा तक		
10	खूमी	10	02 से 20 जोखीलाल नाना से श्यामलाल तुलसीराम तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	निमाचाखुर्द	1	1 से 18/2 रुखमणिबाई से सुरेश रामदास तक	अ. जा.	02
2		2	18/3 से 31/1 महेश रामदास से बालकृष्ण शिवराम तक	अ. ज. जा.	02
3		3	31/2 से 39/2 हरनारायण शिवराम से रामजीवन जगनाथ तक	अ.पि. वर्ग	03
4		4	42/1 से 53 रामाधार दीनानाथ से आनंदराम रामप्रसाद तक	महिला अ. जा.	01
5		5	54 से 67 किशोरी नर्मदाप्रसाद से मुरलीधर केवलराम तक	महिला अ.ज.जा.	01
6		6	69 से 81 इमरत प्रहलाद से नहेलाल शिवप्रसाद तक	महिला अ.पि.व.	02
7		7	82/1 से 104/1 दिनेश गंगाधर से लखन रामकिशन तक	महिला सामा.	02
8		8	105/1 से 129/1 रामकृष्ण तुलसीराम से बंशीधर पन्नालाल तक		
9		9	129/2 से 142 बद्रीप्रसाद गोटूलाल से भागीरथ रामेश्वर तक		
10		10	144 से 169 रामनारायण देवकरण से राजकुमार दुखीराम तक		
11		11	173 से 186 रुखमणि सदाराम से देवीसिंह छतरसिंह तक		
12		12	188 से 199/2 तक रामू बिहारी से सुरेश विशन तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बरकला	1	1 से 21 सुखराम पंचम से नानकराम मांगीलाल तक	अ. जा.	03
2		2	22 से 36/1 पूरण परसराम से जगदीश भारत तक	अ. ज. जा.	-
3		3	38 से 53 रमेश पन्नालाल से कन्हैया बाबूलाल तक	अ.पि. वर्ग	03
4		4	54 से 73/1 जगदीश बद्रीप्रसाद से शारदा शिवराम तक	महिला अ. जा.	02
5		5	78/1 ले 91 रामबिलास रामेश्वर से सकुन्तला कचरिया तक	महिला अ.ज.जा.	-
6		6	91/1 से 119 कृष्णकांत जागेश्वर से श्यामलाल आत्मराम तक	महिला अ.पि.व.	02
7		7	120 से 140 अशोक बद्री से संतोष अनोखी तक	महिला सामा.	02
8		8	142 से 167 राजेन्द्र रणछोड से रामशंकर लक्ष्मीनारायण तक		
9		9	170 से 186 रामदास देवकरण से केवलराम नंदू तक		
10		10	187 से 198/1 तक फुल्लन कोमलदास से रमेश रामप्रसाद तक		
11		11	199 से 216 तक गेंदालाल रामेश्वर से माधव कन्हैया तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कचनार	1	1 से 10 सिकदार सूरजी से शिवलाल मिश्रीलाल	अ. जा.	-
2		2	11 से 18 सुखराम गोचा से किशोरी ढीमरा तक	अ. ज. जा.	17
3		3	19 से 30 भीकाधानू से रामदास रिंजा तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	31 से 44 सुखदेव गंगू से बुद्ध रामसिंह तक	महिला अ. जा.	-
5		5	45 से 57 शिवलाल से मानसिंह पंचम तक	महिला अ.ज.जा.	09
6		6	58 से 68 सोनसिंह पंचम से नंदलाल अम्मर तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	69 से 80 नानू दसरा से दलपसिंह मौजीलाल तक	महिला सामा.	-
8		8	82 से 94 देवीसिंह जोरसा से रखिया संतू तक		
9		9	95 से 104 महावीर विस्सू से बेलसिंह मौजी तक		
10		10	105 से 115 परसू गजन से मनू सम्म तक		
11		11	116 से 126 तक गोविन्दसिंह मनू से मनासिंह रामसू तक		
12		12	127 से 135 अंत तक तुलसीराम गंगू से मंगू दुकलू तक		
13		13	1 से 13 मुनाशाह से जाजू बालू तक		
	झिरन्या				
14		14	14 से 25 गेंदालाल तोगा से विश्राम कलीराम तक		
15		15	26 से 32छ मोजी जिल्लू से गुन्ठू बब्बू तक		
16		16	32ज से 42 बाला मोग्या से भुरू नाना तक		
17		17	43 से 54ख हरी सीताराम से रामभरोस तुकाडी तक		
18		18	55 से 69 अंत तक किशोरी रामसू से चन्द्रसिंह महकू तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खिड़की	1	1 से 14 तक बरजोरसिंह शिवराम से रामकृष्ण केवलराम तक	अ. जा.	02
2		2	15 से 27 गेंदालाल भोलू से रामनारायण शिवराम तक	अ. ज. जा.	01
3		3	28 से 46 ओमप्रकाश लक्ष्मीनारायण से लक्ष्मीनारायण प्रतापसिंह तक	अ.पि. वर्ग	03
4		4	47 से 64 तक धनसिंह नथूसिंह से इंद्र रामेश्वर तक	महिला अ. जा.	01
5		5	66 से 86 तक अनोखीलाल शिवराम से मनोहरी भोलू तक	महिला अ.ज.जा.	01
6		6	87 से 105 तक रामेश्वर रामसिंह से कमला मांगीलाल तक	महिला अ.पि.व.	02
7		7	106 से 128 गणेशदास आत्माराम से गौरीशंकर प्रेमा तक	महिला सामा.	02
8		8	130क से 143 संतोष बाबूलाल से गंगाविशन मोतीराम तक		
9		9	144 से 157क कमलसिंह नहू से अंतरसिंह बाबूलाल तक		
10		10	160 से 175क प्रहलाद छोगेलाल से मोतीलाल मांगीलाल तक		
11		11	1 से 22क तक मनोज गोकुलप्रसाद से समोता मांगीलाल तक		
	क्षाला				

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	झाड़बीडा	1	1 से 15 नहेलाल कमलसिंह से रामदास बाबूलाल	अ. जा.	01
2		2	16 से 26 मांगीलाल श्यामलाल से सुलोचना शोभाराम तक	अ. ज. जा.	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	झाडबोडा	3	27 से 34 प्रेमबाई शिवपाल से जगन्नाथ रामलाल तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	35 से 47 तक कमला श्रीराम से अर्जुन रामेश्वर तक	महिला अ. जा.	01
5		5	48 से 59 तक रामस्वरूप नन्दू से राजू रामभाऊ तक	महिला अ.ज.जा.	05
6		6	60 से 73 तक लक्ष्मीनारायण मनू से रामगोविन्द रामदास तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	74 से 86 श्रीराम भैरूसिंह से राजाराम रामकिशन तक	महिला सामा.	04
8		8	87 से 100 लक्ष्मीनारायण नाथराम से शोभाराम जगदीश तक		
9		9	101 से 114 गुलाब मयाराम से शियाराम तुलसीराम		
10		10	115 से 134 रामाधार रामकिशन से कमल नथू तक		
11		11	135 से 148 सुरेश जागेश्वर से हीरू रामबक्स तक		
12		12	149 से 166 बकस कोमल से संतोष सुभाष तक		
13		13	167 से 182 अनोखी पन्ना से अनिल द्वारका तक		
14		14	183 से 208 चेतराम सुखलाल से जगराम फगनू तक		
15		15	1 से 13 सुन्दरबाई गंगाराम से रामू हरचंद तक		
पाठरमाटी					
16		16	15 से 26 रामाधार नंदू से मनोहरी रामेश्वर तक		
17		17	27 से 44 ओमप्रकाश घासीराम से दिनेश अनोखी तक		
18		18	45 से 57 दगडू बिहारी से कैलाश संतू तक		
19		19	58 से 69 शोभाराम काल्या से चंपालाल तक		
20		20	70 से 82 सुमरती बालकराम से भद्रू मल्लू तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			(1)	(2)	(3)	(4)
1	टेमागांव	1	1 से 21	धनीबाई रामगोपाल से कला रामनाथ तक	अ. जा.	02
2		2	23 से 40	दल्लू कल्लू से लखन प्यारेलाल तक	अ. ज. जा.	04
3		3	41 से 52	सिकदार सलकू से जागेश्वर बिसन तक	अ.पि. वर्ग	04
4		4	53 से 72	किशोरी शंभू से रामनाथ शिवप्रसाद तक	महिला अ. जा.	01
5		5	73 से 90	छोटेलाल रम्मू से अशोक पूनम तक	महिला अ.ज.जा.	02
6		6	91 से 105	महेश रामाधार से शिवप्रसाद कुंजी तक	महिला अ.पि.व.	02
7		7	106 से 121	महेश कुंजी से सावित्री कमल तक	महिला सामा.	03
8		8	122 से 135	गीता रामलाल से चंपालाल मुन्नालाल तक		
9		9	135 से 150	बाबूलाल गंगाराम से रामलाल सालकराम तक		
10		10	150ख से 160	साबूलाल ओझू से समोती सबलसिंह तक		
11		11	161 से 172	कली बालाराम से मोरसिंह रामलाल तक		
12		12	174 से 185	लक्ष्मी रामप्रसाद से रामाधार रामनारायण तक		
13		13	186 से 199	अजबसिंह गणपत से मनोहर चुनी तक		
14		14	200 से 219	जगदीश जागेश्वर से रामकली बिहारी तक		
15		15	221 से 241	तक रुखमणी शिवनारायण से दुबेसर कुंअरलाल तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	गुल्लास	1	1 से 20 हरीराम नथू से रामचरण कालूराम	अ. जा.	05
2		2	21 से 39 केसर नथू से धापू मोती	अ. ज. जा.	-
3		3	40 से 54 रामभरोस किशनलाल से सुरेशचन्द्र नाथूराम	अ.पि. वर्ग	04
4		4	55 से 74 दयाबाई जागेश्वर से गणेश शिवप्रसाद	महिला अ. जा.	03
5		5	75 से 87 गोविन्द रामचंद्र से मांगीलाल जुझार	महिला अ.ज.जा.	-
6		6	89 से 107 हेमराज दया से किशोरी फत्तू	महिला अ.पि.व.	02
7		7	108 से 121क गंगाराम फत्तू से रामेश्वर मोजी	महिला सामा.	02
8		8	122 से 137 रामेश्वर हीरालाल से राधा राधेश्याम		
9		9	138 से 157 शंकर लालूराम से रमेशचन्द्र बाबूलाल		
10		10	1 से 19 शिवराम बख्तीराम से शिवप्रसाद रामभाउ		
	जलोदा				
11		11	20 से 29ख अरविंद घूडमल से सुरेश रामदास		
12		12	30 से 37 लक्ष्मीनारायण पन्नालाल से कचरया महाकाल		
13		13	38 से 56 घनश्याम घूडया से सुकमा भीगारथ		
14		14	57 से 85क राधेश्याम रामसिंह से ओमप्रकाश जगराम		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	खमगांव	1	1 से 11क रामसिंह बृजलाल से जमना गंगाराम तक	अ. जा.	04
2		2	13 से 24 जगदीश गुलाबसिंह से सुशीला फुल्लू तक	अ. ज. जा.	03
3		3	25 से 45 नाजरा अजीज से शांता सुखदेव तक	अ.पि. वर्ग	05
4		4	46 से 59 सीताराम रामकृष्ण से धन्नी घुडया तक	महिला अ. जा.	02
5		5	60 से 75 सदया छीतर से तारई कुंजीलाल तक	महिला अ.ज.जा.	02
6		6	76 से 92 रामचरण लालचंद से रामदास प्रहलाद तक	महिला अ.पि.व.	03
7		7	93 से 103/1 भागवती आत्माराम से मुकेश रणछोड तक	महिला सामा.	03
8		8	104 से 122 कैलाश गरीबदास से श्रीकिशन शिवप्रसाद		
9		9	123 से 144 नारायण शोभाराम से सुमरत शंभू तक		
10		10	1 से 17 गंगाबाई चंदरसिंह से दौलत रामेश्वर तक		
	कनगांव				
11		11	18 से 25क अमरसिंह दरयाव से विमला शिवनारायण तक		
12		12	26 से 40 रानी अनिल से सलिता शिवप्रसाद तक		
13		13	41 से 136क अमराबाई गंगाराम से सुंदरलाल जागेश्वर		
14		14	220 से 232क पूनाबाई सुखदेव से अमरसिंह मांगीलाल		
	भीलगांव				
15		15	1 से 18 ओमप्रकाश गोकुल से चम्पालाल रामकरण तक		
	सिध्खेडा				
16		16	19 से 33/2 द्वारकाबाई नाथूराम से चंपालाल बालाराम		
17		17	33/3 से 42/3 रमेश बालाराम से कांतीप्रसाद प्रहलाद तक		
18		18	43 से 55 सोमती शंकरलाल से शिवनारायण रणछोड तक		
19		19	56 से 72 रामकिशन जगन्नाथ से बाबूलाल सीताराम तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
<b>सारणी</b>					
1	बिच्छापुर	1	1 से 10 हरीराम रामेश्वर से गुलाबसिंह बाबूलाल	अ. जा.	03
2		2	11 से 23 अनोखी श्यामलाल से सुखदेव बालाराम	अ. ज. जा.	01
3		3	24 से 33 रामबाई रामचरण से शांता हरि तक	अ.पि. वर्ग	05
4		4	34 से 49 जगदीश बोदा से रामेश्वर रामकिशन तक	महिला अ. जा.	02
5		5	50 से 66 धनुनाथ बिहारी से लाडकीबाई गुलदार तक	महिला अ.ज.जा.	01
6		6	67 से 84 छतरसिंह मोतीराम से मांगीबाई ओमकार तक	महिला अ.पि.व.	03
7		7	85 से 102 बाबूलाल तुलसीराम से भेरलाल पन्नालाल तक	महिला सामा.	04
8		8	103 से 114ख अब्दूलशाह रहीमशाह से केवलराम मुना तक		
9		9	115 से 126क रमेश देवीसिंह से रज्जाक घुडनशाह तक		
10		10	127 से 141 शेराजबी जब्बारशाह से बाबूलाल रामबक्स तक		
11		11	141क से 151 धन्नाराम रामबक्स से भुरिया पूनमचंद तक		
12		12	152 से 164 राधेश्याम किशनलाल से अमरसिंह लक्ष्मण तक		
13		13	165 से 180क तक कला बृजलाल से अमरसिंह कुंजीलाल तक		
14		14	181 से 191 तक हेमराज धन्नालाल से भागीरथ मोजी		
15		15	192 से 201 शिवनारायण पन्नालाल से रंगलाल कालूराम		
16		16	202 से 213 तक मोहनलाल प्रेमसिंह से शफी शब्बीरशाह		
17		17	214 से 225 तक मुबारिक शब्बीर से खैराती महमूद शाह		
18		18	225क से 241ग शाकिर चंदूशाह से बंदा हरिराम तक		
19		19	242 से अंत (09) तक जगदीश श्यामलाल से खडगसिंह गौसर तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	तजपुरा	1	1 से 15 तक गायत्रीबाई/शैतानसिंह से गंगाबाई/गजराज	अ. जा.	05
2		2	16 से 28 तक कमलसिंह रामकरण से करणसिंह सीताराम तक	अ. ज. जा.	01
3		3	29 से 43 तक मानाबाई लक्ष्मीनारायण से लक्ष्मीनारायण बाबूलाल तक	अ.पि. वर्ग	05
4		4	44 से 59 तक राधेश्याम/बाबूलाल से श्रीकिशन सूरजा तक	महिला अ. जा.	03
5		5	60 से 74 तक सीताबाई भगवान से रामस्वरूप बद्रीप्रसाद तक	महिला अ.ज.जा.	01
6		6	75 से 86 तक गुलाबबाई/जगन्नाथ से हेमराज जेताजी तक	महिला अ.पि.व.	03
7		7	87 से 98 तक हरकूबाई हरचंद से शिवदयाल दिनकरराव तक	महिला सामा.	03
8		8	99 से 114 तक गजराज ताराचंद से रामदीन देवकरण तक		
9		9	115 से 129 तक ओमप्रकाश राजाराम से घुडया गिरधारी तक		
10		10	130 से 149 तक राधेश्याम मांगीलाल से भवानीसिंह मोतीसिंह तक		
11		11	150 से 161 तक महेन्द्र/मोतीसिंह से गोविन्दसिंह भागवतसिंह तक		
12		12	162 से 180 तक भूरानाथ/रामप्रसाद से नानूराम रामकरण तक		
13		13	181 से 195 तक गौरीशंकर/रामचरण से कमलसिंह छोटेलाल तक		
14		14	196 से 215 तक रामबाई/मोतीसिंह से सुरेश करणसिंह तक		
15		15	216 से 228 तक किशोर सुखदेव से किशोर कुंजीलाल तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	16	229 से 236 तक हजारी रामकरण से पीरू इब्राहीम तक			
17	17	237 से 262 तक रमेश ग्यारसा से भागीरथ धुडमल तक			
18	18	263 से 274 तक अन्नपूर्णाशिवराम से मंगल गजराज तक			
19	19	275 से 293 तक रामलाल/रामगोपाल से मुकेश अमरचंद तक			
20	20	294 से अंत तक हासिम खान राजदल्ली से देवचंद रामनारायण तक			
<b>रन्हाई खुर्द मलगाँवकला</b>					

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	दूधकच्छ	1	1 से 17 तक बाबूलाल सूरजा से लक्ष्मणसिंह तक	अ. जा.	04
2		2	18 से 34 तक राजेन्द्र जालम से सोहागसिंह रामरूप तक	अ. ज. जा.	03
3		3	35 से 45 तक बद्रीप्रसाद दरियाव से उमेश नर्मदाप्रसाद तक	अ.पि. वर्ग	04
4		4	46 से 59 तक रुखमणी मांगीलाल से विजय भगवान तक	महिला अ. जा.	02
5		5	60 से 71 तक हरेशिवकरण से विजय रामाधार तक	महिला अ.ज.जा.	02
6		6	72 से 84 तक सीताराम गेंदालाल से मनोहर मोतीराम तक	महिला अ.पि.व.	02
7		7	85 से 95 तक दुर्गप्रसाद मोतीराम से लक्ष्मीनारायण तक	महिला सामा.	02
8		8	96 से 111 तक प्रकाश केदारनाथ से जमुनाबाई तक		
9		9	113 से 129 तक लछीराम मोहन से सुनील गौरीशंकर तक		
10		10	130 से 139 तक प्रताप रामकिशन से बसु देवकरण तक		
11		11	140 से 149 तक गिरिजा हुकुमचंद से प्रहलाद रामेश्वर तक		
12		12	150 से 169 तक माखन देवकरण से रमेश जलाल तक		
13		13	172 से 193 तक रामबाई राजाराम से इंदू रामसुख तक		
14		14	194क से 284ग तक देवकी हीरालाल से सुशीला सवलसिंह तक		
15		15	284घ से 386ख तक विष्णु रामप्रसाद से बल्लू सालकू तक		

**सारणी**

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	मालेगांव	1	1 से 13 तक भैयालाल/भोलू से राधेलाल सूरत तक	अ. जा.	-
2		2	14 से 27 तक रन्नो मुंशी से चंदू गोटी तक	अ. ज. जा.	12
3		3	28 से 39 तक शिवप्रसाद से बालकराम भूता तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	40 से 56/1 तक कालूराम मौजी से श्यामलाल किशना तक	महिला अ. जा.	-
5		5	57 से 65 तक सोनू मुढ़डी से काडमू भोदे तक	महिला अ.ज.जा.	06
6		6	66 से 78 तक मनकी दस्सू से भैयालाल मंगू तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	79 से 95 तक मोलाबाई से राजाराम विसराम तक	महिला सामा.	-
8		8	96 से 109/1 तक बकस मंशा से कोवा ओझासिंह तक		
9		9	110 से 116 तक शंकर सुका से काडमी मंगलसा तक		
10		10	117 से 130 तक शिवदीन धुन्थु से नंदरामा झल्किया तक		
11		11	131 से 142 तक राधीबाई मनासिंह से धनीराम ओझासिंह तक		
12		12	143 से 183 तक धनीराम भादू से शांतिबाई साबूलाल तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
<b>सारणी</b>					
1	केली	1	1 से 13 तक रामकरण पूनू से ललिता सुखदेव तक	अ. जा.	-
2		2	14 से 22 तक कलीराम बाटू से सुखराम सुखलाल तक	अ. ज. जा.	11
3		3	23 से 35 तक जागेश्वर मंगल से गुल्लो विष्णु तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	36 से 47 तक रम्मा सुंदरलाल से सुंदर शोभाराम तक	महिला अ. जा.	-
5		5	48 से 61ख तक आत्माराम चंपालाल से नाथूराम अमरदास तक	महिला अ.ज.जा.	06
6		6	63/1 से 73 तक गोंदा झब्बू से सुमरत बुद्ध तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	74 से 83 तक टीकाराम पून्या से नारायण फत्तू तक	महिला सामा.	02
8		8	84 से 95 तक जुगराम भूरा से इंदर कली तक		
9		9	96 से 109 तक बाबू कली से तुलसीराम सालकराम तक		
10		10	1 से 9छ तक पंचम सुखराम से मुन्ना राजू तक		
<b>डेहरिया</b>					
11		11	10 से 20 तक आशाराम/सुखराम से शिकारी/नानू तक		
12		12	21 से 34 तक गुटांगसिंह नानू से बाला मनू तक		
13		13	35 से 46 तक कोदू मल्लू से कडमा भूरेलाल तक		
14		14	47 से 60 तक नंदराम/मानू से बालाराम/जालू तक		
15		15	61 से 74ख तक बिराम भूरेलाल से पापलीबाई रिंगा तक		
16		16	75 से 88 तक जीकूबाई चैतू से फूलचंद भूरा तक		
<b>सारणी</b>					
अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बोरपानी	1	1 से 14 तक कुंदन छोटेलाल से चंद्रकला प्रकाश तक	अ. जा.	-
2		2	15 से 30 तक परसराम गुंडा से इंद्रवती भैयालाल तक	अ. ज. जा.	17
3		3	31 से 44 तक पतिराम कोदू से राजेश धनीराम तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	45 से 61 तक पार्वती शिवरतन से रामकिशोर तक	महिला अ. जा.	-
5		5	62 से 79 तक बचनसिंह राजनसिंह से भागवती तक	महिला अ.ज.जा.	09
6		6	80 से 88 ख तक रामकरण मोहनलाल से कान्तोबाई तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	1 से 8 तक रामवती प्रकाश से रामपाल पतिराम तक	महिला सामा.	-
<b>जडकहू</b>					
8		8	9 से 18 तक कनू बुद्ध से संगीता आशाराम तक		
9		9	19 से 35 तक रेवाराम सुखलाल से प्रेमवती कैलाश तक		
10		10	36 से 45 तक चिमनलाल समलू से मनीराम तक		
11		11	1 से 8 तक आशाराम सोमा से सुनिता बाबूलाल तक		
<b>पोंसाढाना</b>					
12		12	9 से 19 तक विसराम ओमकार से झुनकी रामकरण तक		
13		13	20 से 28 तक रामकरण पनिया से सियाराम रामसू तक		
14		14	1 से 7 तक बवीता पिंजू से राधा बृजलाल तक		
<b>दीदमदा</b>					
15		15	8 से 18/3 तक भदू भूरा से शिवकली रामदास तक		
16		16	18/4 से 29 तक मन्दू दरोई से सुगन्ता अनोखी तक		
17		17	30 से अंत तक सुबन रामलाल से अंत तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बांसपानी	1	1 से 12 तक चिरोंजीलाल मोहनी से लालसिंह मंगल तक	अ. जा.	-
2		2	13 से 24 तक बाबूराम लालसिंह से श्यामलाल गंगाराम तक	अ. ज. जा.	13
3		3	25 से 38 तक सुखदेव सीताराम से मनकू हीरा तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	39 से 48 तक बेट्या बाटू से सुंदरलाल साबूलाल तक	महिला अ. जा.	-
5		5	49 से 55 तक दाढू ओंकार से विष्णु मंगू तक	महिला अ.ज.जा.	07
6		6	56 से 70 तक मिंदो बाड़ से बिरजा भूता तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	71 से 79 तक बासू लालवा से मांगीलाल नंदराम तक	महिला सामा.	01
8		8	80 से 10 तक बाबूलाल मातिंग से फतु विश्राम तक		
<b>बोबदा</b>					
9		9	11 से 25 तक मोहनलाल ओंकार से बाबूलाल बाटू तक		
10		10	26 से 40 तक शोभाराम बुद्ध से मिसरू हीरालाल तक		
11		11	41 से 52 तक बुधिया सोना से रामजी कालू तक		
12		12	53 से 66/2 तक गंगू बिरजलाल से गुडडी किशन तक		
13		13	67 से 84 तक दाढू रामलाल से परसराम बालराम तक		
14		14	85 से 16 तक बुद्ध भोमका से हरीराम बबू तक		
<b>रूटबर्ग</b>					
15		15	17 से 26 तक सुबेदार जिंदा से सालकराम बुद्ध तक		

**सारणी**

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बड़शिरी	1	1 से 11/2 तक सुंदर रामकिशन से हिराय सोमा तक	अ. जा.	-
2		2	12 से 20 तक सुनिता सोनू से सीता रामप्रसाद तक	अ. ज. जा.	14
3		3	20 क से 31 तक मुना मंगल से सुबेदार बुद्ध तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	32 से 43 तक समाय कलीराम से रामलाल कलीराम तक	महिला अ. जा.	-
5		5	44 से 52 तक शोभाराम मोहनलाल से सीताराम भूरा तक	महिला अ.ज.जा.	07
6		6	52/2 से 56ग तक बालकराम मनीराम से आशाराम शिवलाल तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	57 से 67 तक श्यामलाल सुखराम से जासो हजरू तक	महिला सामा.	-
8		8	69 से 77 तक रतिराम सुखराम से चंपालाल चिंटा तक		
9		9	77/1 से 87क तक राधाबाई रामसिंह से बहादुर रतन तक		
10		10	88 से 96 तक सुखराम मोहन से रामलाल सीताराम तक		
11		11	96क से 187 तक रामकिशन रामजी से सुबेदार बाबू तक		
12		12	1 से 13 तक मिश्रीलाल मनी से रूपाय मनू तक		
<b>सिंगोडा</b>					
13		13	14 से 33 तक शंकर ओंकार से रामकिशन मंगल तक		
14		14	34 से 95 तक गुलाब मुग्या से सुबेदार रामकिशन तक		

ग्राम पंचायत  
परिशिष्ट-5(अ)

कार्यालय, कलेक्टर, (पंचायत) जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर, जिला हरदा मध्यप्रदेश, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में, जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:—

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुख्या के नाम सहित	प्रवर्ग (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	बंशीपुरा	1	1 से 14 तक अर्जुन सुकलू से मंशाराम रामलाल तक	अ. जा.	-	
2		2	15 से 27 तक परसराम रामलाल से पुनर्ई गोपाल तक	अ. ज. जा.	12	
3		3	28 से 45 तक दुलई रम्मू से सुगरती मांगीलाल तक	अ.पि. वर्ग	-	
4	इंद्रपुरा	4	1 से 15 तक कमलसिंह/कालूराम से मुंशी/छोटू तक	महिला अ. जा.	-	
5		5	16 से 27 तक रुखिया विसन से मुंशी गंगाराम तक	महिला अ.ज.जा.	6	
6		6	28 से 38 तक दादू गंगाराम से कालई रम्मू तक	महिला अ.पि.व.	-	
7		7	39 से 47 तक जासो बिरजा से हीरा पून्या तक	महिला सामा.	-	
8		8	48 से 60 तक नाना कडमू से मुजई भैयालाल तक			
9	गांगराढ़ाना	9	1 से 8 तक कमलसिंह चैतू से लखन परसराम तक			
10		10	9 से 17 तक नानू शिवराम से बबू हीरू तक			
11		11	18 से 27 तक सुकराम हीरू से झुमकलाल सोमा तक			
12		12	28 से 38 तक शंकर सालकराम से मुंशी जोखीलाल तक			
1	लाखादेह	1	1 से 12 तक बद्री / छनू से समोता भद्रु तक	अ. जा.	-	
2		2	13 से 26 तक हरेसिंह / भूरू से चिमन / फुगना तक	अ. ज. जा.	10	
3		3	27 से 46 तक पतिराम / बिसना से चैनसिंह / दामा	अ.पि. वर्ग	-	
4		4	47 से 60 तक मांगीलाल / सालकराम से बंशी भूतू तक	महिला अ. जा.	-	
5	बापचा	5	1 से 10 तक सुनिता सूरजमल से बुराम सालिकराम तक	महिला अ.ज.जा.	5	
6		6	13 से 26 तक दामू / सोमा से किशनलाल कालू तक	महिला अ.पि.व.	-	
7		7	27 से 35 तक भूरी भाऊ से बाबू भाऊ तक	महिला सामा.	1	
8		8	36 से 68 तक बिरजा भाऊ से मोतीलाल भूरया तक			
9	चुरनी	9	1 से 10 तक शिवराम मोहनलाल से भैयालाल शोभाजी			
10		10	11 से 21 तक परसू मंगल से राजाराम गोंजा तक			
11		11	22 से 35 तक राधे / सुखराम से मोहनलाल / रोहना तक			
12		12	36 से 43 तक प्यारी बाबू से फत्तू रायसी तक			
1	कासरनी	1	1 से 15 तक संतोष गजराज से वंदना रूपसिंह तक	अ. जा.	3	
2		2	16 से 32 तक लीलाबाई हरिशंकर से अमराबाई रामकुमार तक	अ. ज. जा.	6	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	3	34 से 46 तक कमलसिंह बाबूलाल से संगीता मोहनलाल तक	अ.पि. वर्ग	-	
4	4	47 से 64 तक शोभाराम बुद्ध से सुनिता मुकेश तक	महिला अ. जा.	2	
5	5	65 से 81 तक भागरती नथू से भागवती अंतरसिंह तक	महिला अ.ज.जा.	3	
6	6	82 से 98 तक गबू शिवकरण से शिवशंकर रमेश तक	महिला अ.पि.व.	-	
7	7	99 से 114 तक निर्भय गंगाविशन से दीपक रामशंकर तक	महिला सामा.	2	
8	8	117 से 127 तक सोनाबाई उमराव से वंदना काशीमोहन तक			
9	9	128 से 138 तक गयाप्रसाद शिवकरण से गंगाबाई हीरामन तक			
10	10	सिंगनपुर 1 से 7 तक नंदलाल घासीराम से योगेश राजकुमार तक			
11	11	8 से 18 तक रामौतार रतन से संतोष प्रहलाद तक			
12	12	19 से 30 तक अर्जुनसिंह श्यामलाल से हरिशंकर रामदास			
13	13	31 से 42 तक प्रहलाद बिहारी से संगीता भागीरथ			
14	14	43 से 54 तक शांताबाई चंपालाल से तामसीबाई टोडरमल			
1	सौताडा 1	1 से 15ग तक निर्मला रमेशचंद लीलाधर सालकराम तक	अ. जा.	4	
2	2	16 से 40क तक समोता / मनोहर से देवीसिंह सालकराम	अ. ज. जा.	6	
3	3	40ख से 58ग तक धनसिंह सालकराम से नंदकिशोर मौजीलाल तक	अ.पि. वर्ग	-	
4	4	58घ से 78 तक रामनारायण मौजीलाल से राजाराम दगडू	महिला अ. जा.	2	
5	5	79 से 93 तक हरिराम दगडू से हरिकिशन श्रीराम तक	महिला अ.ज.जा.	3	
6	6	93क से 102क तक रामकिशन श्रीराम से मंगराई बुद्धलाल तक	महिला अ.पि.व.	-	
7	7	102ख से 110ख तक फगू किशन से दुलारी जोखीलाल	महिला सामा.	4	
8	8	110ग से 119 तक दुर्गप्रसाद रामाधार से बालाराम नाथूराम तक			
9	9	119क से 131 तक नंदकिशोर नाथूराम से नर्मदाप्रसाद बाबूलाल तक			
10	10	132 से 147क तक गंगाप्रसाद नथमल से गेंदू मंशु तक			
11	निमाचाकलॉ 11	02/1 से 12/1 तक प्रेमनारायण शिवनारायण से देवीसिंह गेंदूलाल तक			
12	12	12/2 से 27 तक जितेन्द्र गेंदालाल से अनारबाई बाबूलाल तक			
13	13	28 से 49 तक रुखमणी गोकुलदास से रामकृष्ण रामप्रसाद तक			
14	14	50/1 से 63ख तक नानकराम बाबूलाल से जागेश्वर बुद्ध तक			
15	15	63ग से 74/2 तक अनुपमा शिवलाल से मोहनलाल सुमेरसिंह			
16	16	75/1 से 87/1 तक भागवत बाबूलाल से समोता श्रीराम			
17	17	89 से 516 तक बालकदास रामरतन से इंद्रकुमार अर्जुनसिंह			
1	पोखरनी 1	1 से 22 तक उमेश/मांगीलाल से सुशीला श्रीराम तक	अ. जा.	4	
2	2	22क से 33 तक सालकराम रामचंद से बालकृष्ण रणछोड़ तक	अ. ज. जा.	3	
3	3	34 से 69 तक महेश नानाप्रसाद से प्रभुदयाल शिवदयाल तक	अ.पि. वर्ग	5	
4	4	70 से 100 तक शारदाबाई बद्रीप्रसाद से जुगलकिशोर सुखलाल तक	महिला अ. जा.	2	
5	5	101 से 134 तक रामदास रामेश्वर से देवकरण ओमकार तक	महिला अ.ज.जा.	2	
6	6	135 से 162 तक कमलाबाई मनोहर से गीताबाई नर्मदाप्रसाद तक	महिला अ.पि.व.	3	
7	7	163 से 183क तक रामधार चंद्रसिंह से जगन्दर सजनसिंह तक	महिला सामा.	3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	8	184 से 204 तक रामदास गुलाबदास से मांगीलाल सालकराम तक			
9	9	205 से 221 तक कलीबाई शिवराम से शिवनारायण जोखीलाल तक			
10	10	222 से 248 तक जयनारायण रामलाल से भागवती गोवर्धन तक			
11	11	249 से 278/7 तक रामलाल सीताराम से गिरधारी बुद्ध तक			
12	12	278/8 से 285 तक शोभाराम शिवलाल से महेश देवकरण तक			
13	13	286 से 304 तक बालकदास देवकरण से गेंदालाल रामगोपाल तक			
14	14	305 से 334 तक मांगीलाल रामेश्वर से सालकराम रामकिशन तक			
15	15	334क से 361 तक करताल रामकिशन से कोयलबाई श्यामलाल तक			
16	16	362 से 383 तक आत्माराम रणछोड़ से बालो पन्नालाल तक			
17	17	384 से 403 तक गरीबदास कुंजीलाल से शिवराम रामनारायण तक			
18	18	404 से 430 तक कृष्णबाई नर्मदाप्रसाद से शांतिबाई मनोहरलाल तक			
19	19	431 से 447 तक सीताबाई गेंदालाल से चंद्रमोहनदास तेजराम तक			
20	20	448 से 473 तक लीलाबाई तेजराम से रामबिलास बिहारी तक			
1	कुहीगाड़ी	1 से 20/2 तक सुमेरसिंह श्यामलाल से कमल शंकरलाल तक	अ. जा.	3	
2		21 से 34/1 तक करणसिंह रामकरण से भैयालाल भाऊ	अ. ज. जा.	-	
3		34/2 से 44 तक सुंदरलाल भाऊ से रामौतार गणपत	अ.पि. वर्ग	4	
4		45 से 56 तक हीरूबाई महताप से सावित्री दीपसिंह तक	महिला अ. जा.	2	
5		57 से 68/1 हुकुम शिवकरण से पूनाबाई झबरसिंह तक	महिला अ.ज.जा.	-	
6		68/2 से 83 तक शैतानसिंह बरजोर से रामकली फत्तू तक	महिला अ.पि.व.	2	
7		85 से 94 तक शिवप्रसाद फत्तू से हरनारायण मांगीलाल तक	महिला सामा.	3	
8		95 से 106 तक सुमित्रा रामगोपाल से प्रेमसिंह मोतीसिंह तक			
9		107 से 116 तक रामाधार सालिकराम से मोहननाथ प्यारानाथ तक			
10		117 से 124 तक गुलाबबाई शिवनाथ से अमरसिंह बलदार तक			
11		125 से 131 तक सबरसिंह रामौतार से सुकाबाई श्रीराम तक			
12		132 से 144 तक मांगीलाल चैनसिंह से जितेन्द्र भागीरथ तक एवं ग्वाड़ी 1 से अंत तक श्यामलाल प्रहलाद से अंत			
13	आरयाबेडी	1 से 17 तक रामकिशन गंगाराम से रामभरोष रामेश्वर तक			
14		19 से 36 तक रामभरोष कोठारी से राधाकिशन रघुनाथ			
1	रहटगाँव	1 से 61क तक पुष्पाबाई हरगोविन्द से नारायण रामाधार तक	अ. जा.	3	
2		62 से 97 तक रमेश राधेलाल से राधेलाल रामेश्वर तक	अ. ज. जा.	2	
3		99 से 149 तक कलाबाई केशव से सुरेश घनश्याम तक	अ.पि. वर्ग	5	
4		149क से 192 तक जमनाबाई तोताराम से नूरमोहम्मद सुल्तान तक	महिला अ. जा.	2	
5		192क से 243 तक बसीरनबी नबीबक्स से रजाकअली खैरातअली तक	महिला अ.ज.जा.	1	
6		244 से 268ख तक नर्मदा रामलाला से भगवानदास कवर तक	महिला अ.पि.व.	3	
7		268ग से 298क तक चैनसिंह नारायण से द्वारकाबाई रामगोपाल तक	महिला सामा.	4	
8		299 से 332क तक रामखिलौन रामप्रसाद से केवलराम बाबूलाल तक			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	रहटगांव	9	333 से 361 तक शरीफखां बाबूखां से रफीक मुंशी खां तक		
10		10	361क से 391छ तक शहीदअली नूरअली से भरत बट्टूलाल तक		
11		11	392 से 425 तक चंपालाल लक्ष्मीनारायण से सुशिलाबाई विश्राम तक		
12		12	425क से 461 तक पुरुषोत्तम शंकरलाल से नमदा भागीरथ तक		
13		13	462 से 491 तक प्रहलाद दौलतराम से हीरालाल शिवकरण तक		
14		14	492 से 526क तक शारदाबाई हरिशंकर से रामेश्वर कमल तक		
15		15	527 से 564 तक सावित्रीबाई धरमदास से नानूराम रामनारायण तक		
16		16	565 से 600 तक चंपालाल गोकुल से गोकुल सीताराम तक		
17		17	600क से 637ख तक अतुल ग्यारसराम से अशोक गोविन्द तक		
18		18	640क से 673 तक मुंशीशाह से चंपालाल भागीरथ तक		
19		19	675 से 615क तक रमेश बाबूलाल से संजय रामनाथ तक		
20		20	615ख से 942 तक लखन विष्णु से अंत तक		
1	नयागाँव	1	1 से 15/1 तक धनसिंह बालकराम से निर्भयसिंह सुमेरसिंह तक	अ. जा.	3
2		2	16/1 से 23ग तक शान्ताबाई प्यारेलाल से लोकेश शिवराज तक	अ. ज. जा.	-
3		3	24 से 40 तक नर्मदाप्रसाद बरजोर से सहोदराबाई सुहागसिंह तक	अ.पि. वर्ग	4
4		4	41 से 57घ तक नर्मदा परसराम से रमेश प्यारेलाल तक	महिला अ. जा.	2
5		5	58 से 67 तक राजेश मोहनसिंह से नाथूराम रामा तक	महिला अ.ज.जा.	-
6		6	67क से 80 तक सेवाराम उमाजी से सुदामा शंकरलाल तक	महिला अ.पि.व.	2
7		7	81/1 से 93 तक लक्ष्मण प्यारेलाल से हेमन्त बाबूलाल तक	महिला सामा.	4
8		8	94 से 104 तक धिसियाबाई फूलचंद से भागवती जगन्नाथ तक		
9		9	107 से 118 तक बाबूलाल रामदीन से रूपसिंह हरनाम तक		
10		10	119 से 136 तक महेश भीकाजी से अनोखीबाई नर्मदाप्रसाद		
11		11	138 से 153 तक अनोखी सुमरन से जगन्नाथ गुलजार तक		
12		12	154 से 165 तक देवीसिंह गेंदालाल से सोनाबाई गोकुलसिंह तक		
13		13	166/1 से 178 तक कमल सरदार से रामेश्वर दिलीप तक		
14		14	181 से 182ध तक बालकराम गंगाराम से जगदीश प्यारेलाल तक		
15		15	183 से 196 तक शारदा राधेश्याम से रामकिशन कहैया		
16		16	197 से 211 तक शंकरलाल जगराम से बृजबिहारी किशोरी.		
1	बोरी	1	1 से 14ग तक महेश/गेंदालाल से कमलसिंह मूंगा तक	अ. जा.	-
2		2	15 से 22 तक नानूलालमन से सीताराम रामाधार तक	अ. ज. जा.	12
3		3	23 से 31 तक रामदीन/बाबू से लक्ष्मण पटेल तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	32 से 41 तक नाथूराम भोया से ओझा मातिंग तक	महिला अ. जा.	-
5		5	42 से 50क तक सोमा हीरा से रामदास रामलाल तक	महिला अ.ज.जा.	6
6		6	51 से 62 तक झब्बू पून्या साबूलाल नाना तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	63 से 72 तक बालाराम कर्न्हई से भैयालाल ओंकार तक	महिला सामा.	2
8		8	73 से 86 तक विश्राम जिराती से रामप्रसाद लालसिंह तक		
9		9	87 से 203 तक लालमन ओंकार से चिक्कू संबल तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	बोरी	10 ढेगा	1 से 11 तक डोंडी / हरचंद से नानू भूता तक		
11		11	12 से 23 तक रामरतन मंशाराम से रामेश्वर मोहनलाल तक		
12		12	24 से 31 तक परसराम मोहनलाल से रम्मू भूरा तक		
13		13	32 से 41 तक धरमदास भूरा से सुकदेव चोबा तक		
14		14	42 से 49 तक महावीर पूनू से शोभाराम भूरिया तक		
15		15	50 से 61 तक बाबूलाल सुखराम से मूर्या संशाराम तक		
16		16	62 से 82 तक रामभाऊ रोहना से जियालाल लालवा तक.		
1	सिरकम्बा	1	1 से 17 तक मांगीलाल से गयाबाई करणसिंह तक	अ. जा.	4
2		2	18 से 34 तक भागीरथ जगन्नाथ से मनोहर सीताराम	अ. ज. जा.	3
3		3	35 से 54 तक बद्री कुंजीलाल से रामदीन मोना तक	अ.पि. वर्ग	4
4		4	55 से 68(ड) तक राधेश्याम लालमन से सुमन सुरेश तक	महिला अ. जा.	2
5		5	69 से 81 तक रामबाई आत्माराम से अमरा निर्भयदास तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	82 से 100 तक बद्रीप्रसाद/बंशीलाल से रामकृष्ण घनश्याम तक	महिला अ.पि.व.	2
7		7	101 से 120 तक चंद्रकांत मधुकरराव से राजकुमार कैलाश तक	महिला सामा.	2
8		8	122 से 141 तक रामचरण परसराम से छोटेलाल प्रेमनारायण तक		
9		9	142 से 164 तक नन्हा सुबेदार से गोविन्द जगन्नाथ तक		
10	खेडीखुशाल	10	164 से 180 तक विष्णुप्रसाद शिवनारायण से रामन्ती हरिदास तक/ 1 से 4 तक गिरधरदास नंदकिशोर मुन्नारतन तक.		
11	बहरागांव	11	1 से 25 तक रामचरण/चुनीलाल से रघुनाथ/जगन्नाथ तक		
12		12	27 से 54 तक कांतीबाई/रामनारायण से सावित्रीबाई नाना तक		
13		13	55 से 85 तक प्रह्लाद सुखलाल से नर्मदाप्रसाद मगनलाल तक		
14		14	86 से 111 तक संतोष लखनलाल से रघुनाथ कचरया तक		
15		15	114 से 134 तक बाबूलाल/कचरया से हुकुमचंद/रामलाल तक		
16		16	135 से 158 तक भीकूबाई/देवकरण से भावलिया हौआ.		
1	टेमरूबहार	1	1 से 10 तक प्रेमलाल चुनीलाल से सूरज नंदलाल तक	अ. जा.	-
2		2	11 से 21 तक सिकदार जोहरी से रामप्रसाद मंगल तक	अ. ज. जा.	17
3		3	21क से 78 तक गुलाब मंगल से अनिता शिवराम तक	अ.पि. वर्ग	-
4	मोगराढ़ाना	4	0 से 18 तक नंदकिशोर रामप्रसाद से छोटू अमरु तक	महिला अ. जा.	-
5		5	20 से 28 तक प्रेमलाल झीटू से रूपचंद दयाल तक	महिला अ.ज.जा.	9
6		6	29 से 40 तक मलटू दौलत से मंशाराम चेतन तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	41 से 441 तक मोहन चेतन से राधा यादव तक	महिला सामा.	1
8	गुलराढ़ाना	8	1 से 15 तक हरिराम खैयालाल से गंगू भूरे खां तक		
9		9	17 से 33 तक काशीराम आशाराम से पतिराम मोतीराम तक		
10		10	34 से 45 तक जगदीश देवाजी से भूरेलाल विश्राम तक		
11		11	46 से 61 तक सुंदरलाल रामलाल से छनू परसू तक		
12		12	62 से 127 तक गनू परसू से रामकिशन गंगाराम तक		
13	मरापाढ़ोल	13	1 से 11 तक रामजी छोटे से मांगीलाल मोटे तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	टेमरूबहार	14 मरापाढोल	12 से 20 तक पतिराम लक्ष्मण से राजू आशाराम तक		
15		15	21 से 30 तक प्यारेलाल श्यामलाल से इमरत भैयालाल तक		
16		16	31 से 38 तक छनू नंदराम से संतराम भूरेलाल तक		
17		17 चंदियापुरा	1 से 11 तक दादू भूरिया से मनिराम भैयालाल तक		
18		18	12 से 24 तक गेंदालाल हीरा से टीकाराम सुखराम तक		
19		19	25 से 38 तक कडमा भूरा से आशाराम चुन्नी तक		
20		20	39 से 60 तक लक्ष्मण नथू से रामवती रामबक्स तक.		
1	बाजनियॉ	1	1 से 21 तक राहुल बद्रीप्रसाद से गुलजार भाऊ तक	अ. जा.	3
2		2	22 से 38ख तक मांगीलाल रामप्रसाद से अमरसिंह प्रहलाद तक	अ. ज. जा.	3
3		3	39 से 49 तक गोरेलाल रामप्रसाद से मिसरबाई चंपालाल तक	अ.पि. वर्ग	5
4		4	49क से 69 तक घुड़यापुरी मन्नपुरी से रामकृष्ण दौलत तक	महिला अ. जा.	2
5		5	70 से 93 तक कैलाश बाबूलाल से मथराबाई रामभरोस तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	93क से 112 तक नंदकिशोर रामभरोस से महताप सिंह जगराम तक	महिला अ.पि.व.	3
7		7	113 से 132ख तक रामसिंह जयराम से शिवराम श्रीपाल तक	महिला सामा.	3
8		8	133 से 154 तक दिनेश संतोष से गुलाम मोहम्मद इस्लाम तक.		
9		9	155 से 175 तक धन्नालाल नर्मदाप्रसाद से सुमनबाई देवीसिंह तक.		
10		10	176 से 186च तक शिवराम रामप्रसाद से गेंदालाल नथू तक.		
11		11	186छ से 188ख तक गंगाराम गणेश से गोपीकिशन हजारीलाल तक.		
12		12	188ग से 205 तक गेनकुंअर प्रहलाद से रामनिवास मूलचंद तक.		
13		13	206 से 230 तक सागरबाई फुलसिंह से प्रभुदयाल सीताराम तक.		
14		14	231 से 244 तक मोहनसिंह शेरसिंह से दिनेश जागेश्वर तक.		
15		15	245 से अंत तक अजयसिंह गोकलसिंह से सुरेश चंपालाल तक.		
16	गाडरापुर	1	1 से 15 तक जगदीश धन्नालाल से धन्नालाल मोतीलाल तक		
17		17	16 से 29 तक गेंदाबाई गोरेलाल से विमलबाई रामसुबेर तक		
18		18	30 से 51क तक कृष्णबाई रामाधार से रमेश लक्ष्मीनारायण तक		
19		19	52 से 67/1 तक कमला रामचंद से नानकराम तुलसीराम तक		
20		20	68 से अंत तक धनकुंअरबाई कुंवरसिंह से राधेश्याम प्रेमनारायण तक.		
1	नौसर	1	1 से 12 तक हरभजन बट्टू से ग्यारसीलाल शंकर तक	अ. जा.	5
2		2	13 से 29 तक घासीराम धन्नालाल से नर्मदा बिहारी	अ. ज. जा.	1
3		3	30 से 50 तक सोहागसिंह घुड़या से जमनादास मेहताब तक	अ.पि. वर्ग	5
4		4	51 से 66 तक संतोष काल्या से जगदीश गुलाबसिंह	महिला अ. जा.	3
5		5	67 से 87 तक सुमन महताप से रामेश्वर बलराम तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	88 से 105 तक राजमति गरीबदास से दिनेश केवलराम तक	महिला अ.पि.व.	3
7		7	106 से 118/2 तक गायत्री रघुनाथ से गंगाचरण	महिला सामा.	3
8		8	119 से 135 तक राजकुमारी जागेश्वर से मूलचंद मनोहर तक		
9		9	136 से 155 तक रामरज अमरसिंह से गोविन्दराम बाबूलाल तक		
10		10	156 से 169 तक रेवा बृजलाल से सीताराम नानू तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	नौसर	11	170 से 184/1 तक गजराज कन्हैया से संजय शैतानसिंह तक		
12		12	185 से 196 तक रामराज गजराजसिंह से शंकरलाल		
13		13	197 से 206 तक लीला रामदयाल से मोहनलाल टीकाराम तक		
14		14	207 से 219/1 तक सुंदर कमलसिंह से कृष्णा कोपीकिशन		
15		15	220 से 236 तक महेश रामेश्वर से विनोद रामाधार		
16		16	237 से 243 तक सीताबाई रामदीन से जानकी दयाराम तक		
17		17	244 से 250/3 तक जयनारायण रामभरोस शंकरलाल भाऊलाल		
18		18	251 से 258ख तक गुलाबबाई रामचंद्र से हुकुम जालमसिंह तक		
19		19	259 से 271 तक ख्यालीराम बुद्ध से सबदरशाह छीतर शाह तक		
20		20	272 से अंत तक खेमा टीकाराम से गेंदालाल नन्थू		
1	छीपानेर	1	1 से 12 तक भागवती रामाधार से भागवत छनू तक	अ. जा.	3
2		2	13 से 21 तक विमला मनोहर से मायाबाई बाबूलाल तक	अ. ज. जा.	4
3		3	22 से 35/2 तक सुरेशराव मंगेशराव से रमेशचंद बाबूलाल तक	अ.पि. वर्ग	5
4		4	36 से 52 तक बाबूलाल बामनराव से शिप्रा / सूरजसिंह तक	महिला अ. जा.	2
5		5	53 से 67 तक रामाधार गिरधारी से नहेलाल निर्भयदास तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	68 से 78 तक लीलाबाई हीरालाल से कृष्णाबाई शैतानसिंह तक	महिला अ.पि.व.	3
7		7	79 से 91 तक नर्मदा आशाराम से सागरबाई सुंदरलाल तक	महिला सामा.	3
8		8	92 से 106ख तक रामकुआर छतरसिंह से खोता बाबूलाल तक		
9		9	107 से 121 तक राजेश छोटेलाल से गजराज किशनलाल तक		
10		10	122 से 138 तक मांगीलाल राजाराम से रेवा पृथ्वीसिंह तक		
11		11	139 से 146/2 तक भारतसिंह घनशयाम से महेश शंकरलाल तक		
12		12	146/3 से 161 तक लक्ष्मण शंकरलाल से संतोष पून्या तक		
13		13	162 से 174 तक मधुकरराव गोविन्दराव से अनसुईयाबाई हरनाथ तक		
14		14	175 से 188/4 तक जगन्नाथ बिहारीलाल से अशोक बालकिशन तक		
15		15	188/5 से 199/2 तक बनवारी बाबूलाल से गजराज हीरालाल तक		
16		16	200 से 213 तक हरेराम हीरालाल से लखन बंशी तक		
17		17	214 से 223 तक देवीराम गुलाबसिंह से रेवाराम निर्भयसिंह तक		
18		18	223ख से 231 तक रामचंद्र राधेश्याम से नर्मदाप्रसाद मांगीलाल तक		
19	चिचोट	19	233 से 233ड 1 से अंत तक उत्तम हरेराम से अंत तक.		
1	गाडामोडखुर्द	1	1 से 11 तक पुनाबाई सिगदार से महेश राधेश्याम तक	अ. जा.	-
2		2	12 से 26 तक मनोहर लक्ष्मीनारायण से शिवनारायण रघुनाथ तक	अ. ज. जा.	4
3		3	27 से 38 तक जगदीश छतरसिंह से श्रीराम भागीरथ तक	अ.पि. वर्ग	3
4		4	39 से 49 तक द्वारकाप्रसाद रामप्रसाद से अशोक नाथराम तक	महिला अ. जा.	-
5		5	50 से 68 तक रामसिंह देवकरण से शारदाप्रसाद सालकराम तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	69 से 132 तक अशोक ललित से बलवंत देवकरण तक	महिला अ.पि.व.	2
7	काल्पी	1	1 से 13ख तक सुशीलाबाई शंकरलाल से राजेश सत्यनारायण तक	महिला सामा.	2
8		8	14 से 27 तक जागेश्वर रामकिशन से जगदीश रामदास तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	गाडामोडखुर्द	काल्पी	28 से 48 तक बद्रीप्रसाद चंपालाल से वीरेन्द्र श्रीकिशन तक		
10		10 निष्यार्गांव	1 से 13 तक इमरत रामनाथ से जगदीश कुंजीलाल तक		
11		11	14 से 29 तक रामनिवास जुगल से रामचरण गंगाविशन तक		
12		12	30 से 50 तक कांताप्रसाद मोहनसिंह से सुखदेव रामप्रसाद तक.		
1	फुलडी	1	1 से 22 तक कमल घासीराम से उमराव जगन तक	अ. जा.	4
2		2	23 से 39 तक हृदयराम सालिकराम से नर्मदा सीताराम तक	अ. ज. जा.	2
3		3	40 से 53 तक भागीरथ धनूलाल से रमेश जागेश्वर तक	अ.पि. वर्ग	5
4		4	54 से 75ख तक कमला जागेश्वर से अमरदास सरवन तक	महिला अ. जा.	2
5		5	76 से 91 तक हृदयराम परसराम से हरनारायण बाबूलाल तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	92/2 से 110 तक महंगीबाई रामलाल से राजाराम रामेश्वर तक	महिला अ.पि.व.	3
7		7	110ख से 125 तक सुरेश चेतराम से नानकराम सीताराम तक	महिला सामा.	4
8		8	127 से 142 तक रामनारायण रामरतन से शंकर बद्रीप्रसाद		
9		9	144 से 160 तक जयनारायण रामप्रसाद से सुलोचना रामकृष्णा तक		
10		10	161/1 से 169/1 तक द्वारकाप्रसाद कालूराम से महेश छोटेलाल तक		
11		11	170 से 180 तक बालकिशन गिरधारी से रामदास रामरतन		
12		12	181 से 196/1 तक ललताबाई रामाधार से प्रेमनारायण हरकिशन तक		
13		13	197 से 209 तक गोविन्द छोटेलाल से सुधीश बद्रीप्रसाद		
14		14	210 से 227 तक जयप्रकाश बिहारीलाल से कन्हैयालाल नर्मदाप्रसाद तक		
15		15	228 से 244 तक रामाधार शोभाराम से डालूराम सुखराम		
16	धनगांव	1	1 से 13 तक लखनलाल रामकरण से नर्मदा जागेश्वर तक		
17		17	14 से 27 तक लक्ष्मीनारायण गणेश से रामदीन केवलराम		
18		18	28 से 43 तक श्रीराम बाबूलाल से हेमराज हजारीलाल तक		
19		19	44 से 61 तक बंशीलाल सूरत से रामदीन रामप्रसाद तक		
20		20	63 से 105 तक रामदीन किल्या से प्रेमलाल सखीराम तक.		
1	पानतलाई	1	1 से 20 तक अमरदास / राधेश्याम से कृष्णाबाई मांगीलाल	अ. जा.	4
2		2	21 से 37 तक आंताबाई चंपालाल से गोविन्द प्रभुनारायण	अ. ज. जा.	-
3		3	38 से 57 तक कुंअरबाई पन्नालाल से निर्भयदास मांगीलाल	अ.पि. वर्ग	4
4		4	58 से 73 तक नाथूराम रामकरण से लखनलाल चंपालाल	महिला अ. जा.	2
5		5	74 से 88 तक रामभरोस रामदास से मनोहर बुद्धलाल तक	महिला अ.ज.जा.	-
6		6	89 से 102ख तक गंगाविशन घुड़या के कन्हैया सालकराम तक	महिला अ.पि.व.	2
7		7	103 से 111ख तक जमनाप्रसाद कुंजीलाल से मांगीलाल बिहारी तक	महिला सामा.	4
8		8	112 से 125 तक सोनाबाई बिहारीलाल से हुकुमचंद नारायण तक		
9		9	126 से 145 तक रविशंकर पन्नालाल से इमरती मोहनलाल तक		
10		10	146 से 150ख तक रंभा गोटूपुरी से कृष्णाबाई बृजलाल तक		
11		11	151 से 169 तक जशोदा मांगीलाल से शिव छोटेलाल तक		
12		12	170 से 186 तक दुलारी रामदास से रमेश पन्नालाल तक		
13		13	187 से 203 तक सत्यनारायण रमेश से मथराबाई मांगीलाल तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	पानतलाई	14	204 से 221 तक सोमवारगिर / सूरजगिर से रामकृष्ण शिवराम तक		
15		15	222 से 239 तक रामकुमार बाबूलाल से रामसिंह जागेश्वर		
16		16	240 से 279 तक मोहनलाल रामकिशन से जगदीश धासीराम तक.		
1	छिदगांवतमोली	1	1 से 15 तक शैतानसिंह हरिराम से दुलारी रामप्रसाद तक	अ. जा.	4
2		2	16 से 31 तक रामबाई शिवराम से बद्रीप्रसाद शिवकरण	अ. ज. जा.	2
3		3	32 से 50 तक दीपचंद हरिराम से रुखमणि पूनम तक	अ.पि. वर्ग	4
4		4	51 से 69 तक गंगादीन शिवकरण से बाबूलाल श्यामलाल	महिला अ. जा.	2
5		5	70 से 89 तक गरीबदास मोती से गेंदालाल रतन तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	90 से 100 तक सबलसिंह बहादर से शंकरलाल गुलजार	महिला अ.पि.व.	2
7		7	101 से 116 तक हजारीलाल बाघया से सूरजसिंह रामप्रसाद तक	महिला सामा.	2
8		8	117 से 132 तक हरिराम धुलीराम से रामप्रसाद छीतर		
9		9	133 से 145 तक सरस्वती रामलाल से रतन जंगू तक		
10		10	146 से 164 तक बुखारसिंह सखाराम से बुद्धराम मोती		
11		11	165 से 181 तक आनंदी नाथूराम से फूलसिंह परसराम		
12		12	182 से 199 तक शांता नर्मदाप्रसाद से कृष्णदेव धन्नालाल		
13		13	200 से 214 तक शांता मांगीलाल से रमेश रामलाल तक		
14		14	215 से 267 तक प्रदीप हरचंद से महेन्द्र किशोरसिंह.		
1	गोदागांवकला	1	1 से 13 तक रतनलाल गोकुल से नर्मदा पुनीलाल तक	अ. जा.	3
2		2	14 से 30 तक हरिचरण बुद्ध से रामाधार प्रह्लाद तक	अ. ज. जा.	5
3		3	30क से 41क तक शैतानसिंह गुलाब से विजय कुंजीलाल तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	41ख से 57 तक भीकाजी ताराचंद से महताप बलराम तक	महिला अ. जा.	2
5		5	58 से 72 तक अजब बलराम से श्रवण पंडू तक	महिला अ.ज.जा.	3
6		6	73 से 83 तक गौरा रब्बू से बृजलाल द्वारका तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	84 से 96 तक गायत्री केवलराम से मथुरा राजाराम तक	महिला सामा.	3
8		8	97 से 112 तक गेंदालाल ग्यारसीराम से दीपा जोखीलाल तक		
9		9	113 से 128 तक कैलाश सूरतसिंह से रामकृष्ण सुखदेव		
10		10	129 से 137क तक किशोरीलाल रामाधार से विष्णु अमरसिंह तक		
11		11	138क से 156 तक राधेलाल बाबू से राधेलाल फोजू तक		
12		12	157 से 169 तक किशोर कुंजीलाल से नहेलाल बालकिशन तक		
13		13	170 से 181ख तक श्यामू मोहनलाल से नारायण रब्बू तक		
14		14	182 से 195 तक पांची भभूतिया से भगतराम जगन्नाथ तक		
15		15	198 से 211 तक रामदयाल बाबूराम से रामभरोस बिहारी तक		
16		16	211क से 211ण तक कल्लू घिसिया से लखनलाल चंपालाल तक.		
1	कपासी	1	1 से 27 तक बलीराम भगवानदास से सजनबाई नवलसिंह तक	अ. जा.	2
2		2	28 से 49 तक हरिराम शोभाराम से रामाधार सीताराम तक	अ. ज. जा.	11
3		3	50 से 86 ते गेंदालाल रम्मू से मनोहर जागेश्वर तक	अ.पि. वर्ग	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	कपासी	4 उसकल्ली	1 से 11 तक भारतसिंह कोमलराम से भागवतसिंह देवीसिंह तक	महिला अ. जा.	1
5		5	12 से 34 तक कालूराम नन्हू से भूरेलाल शंकर तक	महिला अ.ज.जा.	6
6		6	35 से 56 तक जोगीलाल शंकर से रामकिशन बिस्पू तक	महिला अ.पि.ब.	-
7	7 बरुडघाट	7	1 से 13 तक गंगाविशन कन्हैया से रामप्रसाद विश्राम तक	महिला सामा.	1
8		8	14 से 29 तक जानकी कन्हैया से बायो सदू तक		
9		9	30 से 43 तक जिबो दर्शन से रामकली रामकरण तक		
10		10	44 से 58 तक हरिराम चुन्नी से भारत पन्नालाल तक		
11		11	59 से 220 तक गोविन्द पूनम से शम्मू केवलराम तक		
12	12 जिनवानी	12	1 से 13 तक रामप्रसाद बाबू से मुन्ना जगन तक		
13		13	14 से 27 तक बिंदिया ठेंगू से गणेश करतार तक		
14		14	28 से 855 तक समोता लालसिंह से दुर्गाप्रसाद महेशनारायण तक		
15	15 जोगीखेड़ा	15	1 से 17 तक रतिराम बुद्ध से गुलाब कालू तक		
16		16	18 से 83 तक साहूलाल रामलाल से मुन्नी दलसिंह तक.		
1	चारखेड़ा	1	1 से 24/3 तक रुखमणि निर्भयदास से लालीबाई तक	अ. जा.	5
2		2	25 से 50 तक कृष्णकुमार से मोनिका अशवनी तक	अ. ज. जा.	5
3		3	53 से 73 तक उमा सुखदेव से सतीष बंशी तक	अ.पि. वर्ग	5
4		4	74 से 97 तक मुकेश हृदयराम से संगीता मंशाराम तक	महिला अ. जा.	3
5		5	99 से 122 तक दिनेश से राधाबाई शेरसिंह तक	महिला अ.ज.जा.	3
6		6	123 से 142 तक सहीदशाह से ज्योति बृजलाल तक	महिला अ.पि.ब.	3
7		7	143 से 159 तक गफ्फार शाह से नरेन्द्र तक	महिला सामा.	1
8		8	160 से 175 चंद्रसिंह से रामवती राजेन्द्र तक		
9		9	179 से 207 तक बुद्ध पंचम से अंत तक		
10	10 मालौना	10	1 से 21क तक माधुरी से दुर्गाप्रसाद तक		
11		11	22 से 51 तक कन्हैयालाल से संतोष अखिलेश तक		
12		12	54 से 71/1 तक श्यामलाल से ज्योति गणेश तक		
13		13	72 से 88/5 तक रामजीवन से रीना सोनू तक		
14		14	88क से 99 तक ज्योति संतोष से अनिल गणेश तक		
15		15	100 से 115 तक रामकरण आशाराम से शांति तक		
16		16	116 से 136/1 तक हीरालाल से जितेन्द्र इंदल तक		
17		17	137 से 151/1 तक सुखलाल से शिखा उत्तम तक		
18		18	152 से 170/1 तक द्वारकाप्रसाद से अंगूरी अमेदसिंह तक		
19		19	172 से 185/2 तक शांताबाई गोकुल से बीना गयाप्रसाद तक		
20		20	185/3 से 201 तक रामनाथ से बालकृष्ण सालिकराम तक.		
1	छिदगांवमेल	1	1 से 6 तक तुलराम हाजी से जगदीश गजराज तक	अ. जा.	5
2		2	7 से 16 तक चट्टान भारत से दिलीप रघुनाथ	अ. ज. जा.	2
3		3	17 से 29 तक रामगोपाल सीताराम से हरिओम रामनारायण तक	अ.पि. वर्ग	5
4		4	30 से 39 तक मंगलसिंह गुलाब से लक्ष्मीनारायण महताप	महिला अ. जा.	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	छिदगांवमेल	5	40 से 51 तक देवीसिंह रामाधार से रामसिंह प्रहलाद	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	52 से 68 तक बद्रीप्रसाद धीरसिंह से कोदर रामभरोस तक	महिला अ.पि.ब.	3
7		7	69 से 82 तक अशोक वासुदेवराय से रामविलास हरेकृष्णा	महिला सामा.	3
8		8	83 से 96 तक शंकरसिंह महताप गोपाल अमरसिंह		
9		9	97 से 115 तक रमेश मांगीलाल से शान्तिलाल मोती		
10		10	116 से 128 तक गोविन्द कल्लू से राहुल बंशीलाल तक		
11		11	129 से 147 तक दीनदयाल गेंदालाल अशोक बाबूलाल तक		
12		12	148 से 160 तक जमना तुलसीराम से लखन मोहन		
13		13	161 से 171 तक शोभाराम पर्वत से राजू गणेश तक		
14		14	172 से 189 तक गोपाल श्यामलाल से मोहनसिंह बाबू तक		
15		15	190 से 201 तक कमल गिरधारी से माखन बाबूलाल		
16		16	202 से 212 तक आजराबी नथू से रामस्वरूप कुंजी		
17		17	213 से 229 तक हरि नथू से जयनारायण रामसिंह		
18		18	230 से 244 तक शिवनारायण गणपत से अंबेलाल रामाधार		
19		19	245 से 259 महताप घासीराम से रमेश बाबूलाल तक		
20		20	260 से 278 तक तापोश कालीपदो से सीताचरण शारदाप्रसाद.		
1	मनियाखेड़ी	1	1 से 12क तक रामदास बलराम से अरुणा बालकृष्ण तक	अ. जा.	6
2		2	13 से 43 तक पाची प्रेमनारायण से पुष्या शंकरलाल तक	अ. ज. जा.	3
3		3	44 से 59 तक जयनारायण बलराम से विनोद रामकृष्ण तक	अ.पि. वर्ग	5
4		4	59/1 से 85 तक सावित्री गजराज से हीरालाल मिट्टूलाल तक	महिला अ. जा.	3
5		5	86 से 104 तक पंचम श्यामलाल से मोनिका पवन तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	105 से 116क तक रमेशचंद्र गोकुल से संगीता दशरथ तक	महिला अ.पि.ब.	3
7		7	116ग से 126/1 अभय छगनलाल से मनीषा सुनील तक	महिला सामा.	2
8		8	127 से 139क तक बस्तीराम गुलाब से रमेश तेजराम तक		
9		9	140 से अंत तक रूपराम तुलसीराम से रेखाबाई पूनमचंद तक		
10	बहराखेड़ी	4	4 से 20 तक भागवती प्रहलाद से सुभाष रमेश तक		
11		11	21 से अंत तक सागर ओंकार से बंशीलाल गोकुल तक एवं बलियाखेड़ी 1 से 28ग गुलाब छगनलाल से रेवादेवलाल तक.		
12	लहाडपुर	1	1 से 8ग तक प्रदीप लक्ष्मीनारायण से सुनिता इमरतलाल तक		
13		13	9 से 27 तक रामसिंह परसराम से रविशंकर नरेश तक		
14		14	28 से अंत तक सोदार राधेश्याम से श्रद्धा वीरेन्द्र तक एवं पीपल्यामाफी 1 से 27 तक लक्ष्मीकुंजीलाल से रत्नमाला संजय तक.		
15	भायली	1	1 से 12 तक शांताबाई बाबूलाल से आशीष श्रीधर तक		
16		16	12क से 18ख तक नबीबाई बद्रीप्रसाद से उमेश महेश तक		
17		17	18ग से 26 तक पूनम प्रहलाद से सुभद्राबाई कमल तक		
18		18	28 से 38ग तक पूनमचंद टीकाराम से दीपक लीलाधर तक		
19		19	38घ से अंत तक शैलेन्द्र केवलराम से सतीष रमेश तक.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रातामाटी	1	1 से 18 तक विश्राम रंगू से सोनाय रामा तक	अ. जा.	-
2		2	19 से 30 तक बालाजी तुमला से छोटे सुखराम तक	अ. ज. जा.	09
3		3	31 से 44 तक गंगा बेहरा से कपूरा रिंगा तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	45ख से 60क तक काली गोंगो से अभयसिंह तक	महिला अ. जा.	-
5	बिटिया	5	01 से 11 तक शोभाजी सुखलाल से रामाजी भूता तक	महिला अ.ज.जा.	5
6		6	12 से 22 तक नाथूराम सेवल्या से बसंती आशाराम तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	23 से 39 तक रामलाल झांगरू से हरिराम छोटेलाल तक	महिला सामा.	-
8	जूनापानी	8	1 से 27 तक कल्लू पतिराम से सुदिया सखाराम तक		
9		9	27/1 से 35 तक बाजूलाल श्यामलाल से नापूबाई सरजन तक		
10		10	36/149/1 तक समती मंगू से रामबाई शिवराम तक		
1	गोंदागांवखुर्द	1	1 से 16ख तक गोविन्ददास से तुलसी हउआ तक	अ. जा.	3
2		2	17 से 34 तक सीताराम कल्लू से सुशीला मैकूलाल तक	अ. ज. जा.	-
3		3	35 से 53 तक जगदीश कन्हैया से संपतबाई रामाधार तक	अ.पि. वर्ग	4
4		4	54 से 67क तक रमेश बाबूलाल से दिनेश रंजीलाल तक	महिला अ. जा.	2
5		5	68 से 80ख तक मंगल हरिराम से भागीरथ मोती तक	महिला अ.ज.जा.	-
6		6	81 से 93/2क तक कन्हैया ब्रजलाल से खुशीलाल बाबूलाल तक	महिला अ.पि.व.	2
7		7	94 ले 106 तक काशीबाई चिन्या से राधेश्याम बाबूलाल तक	महिला सामा.	3
8		8	107 से 124 तक मनोहर गुलाबसिंह से चैनसिंह नाथू राम तक		
9		9	125/1 से 136 तक कृष्णाबाई अमरसिंह से शारदाबाई नर्मदा प्रसाद तक		
10		10	137 से 148 तक कलाबाई हीरालाल से बद्रीप्रसाद रामनारायण तक		
11		11	149 से 160 तक गुलाब रामकरण से गेंदालाल रतन तक		
12		12	161 से 171 तक केदार शिवनारायण से समोता पन्नालाल तक		
13	बिरजाखेडी	13	1 से 11 तक चैनसिंह लाल सिंह से पुनिया मुरिया तक		
		14	12 से 29 तक बाबू जगू से शिवशंकर भारती तक		
1	रायबोर	1	1 से 18 तक गंगाबाई हरिभजन से गंगाबाई चैन्या तक	अ. जा.	4
2		2	20 से 35 तक बल्लभदास सीताराम से भागवत रामलाल	अ. ज. जा.	2
3		3	36 से 56 तक राकेश बालाराम से राधेश्याम धन्नालाल	अ.पि. वर्ग	-
4		4	57 से 68 तक लखनलाल पन्नालाल से भगवान रामलाल तक	महिला अ. जा.	2
5		5	69 से 82 तक कृष्णाबाई बाबूलाल से रामनाथ बाबूलाल तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	84 से 100 तक कमला जुगल से महेश मोहन तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	101 से 125 तक सुमन कचरू से बुल्लोबाई श्रीराम तक	महिला सामा.	3
8		8	126 से 136 तक इमरत बाबू से जगदीश बाबूलाल तक		
9		9	137 से 147 तक द्रोपती नारायण से कमल डोमा तक		
10		10	148 से 169 तक संतोष इमरत से जगदीश प्रहलाद तक		
11		11	170 से 183 तक छीतर रामलाल से सूरजसिंह कालूराम तक		
1	कायरी	1	1 से 20 तक कैलाश जुहारी से रामभाउ कारू तक	अ. जा.	-
2		2	20क से 41 तक किशोर कारू से भागीरथ फागू तक	अ. ज. जा.	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	कायरी	3	42 से 58 तक जोहरी फागू से रामचरण सावंत तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	59 से 74 तक रामाधार सावंत से कमल पतिराम तक	महिला अ. जा.	-
5	डोमरा	5	01 से 12 तक अर्जुन हरिशंकर से नर्मदा घासीराम तक	महिला अ.ज.जा.	3
6		6	13 से 20क तक सुखराम गुंदू से गोलू पन्नालाल तक	महिला अ.पि.व.	-
7	महुखाल	7	1 से 17 तक सुखिया मंगलू से कालू चैतू तक	महिला सामा.	2
8		8	18 से 34 तक फगनू दसनू से इमरत अमरसिंह तक		
9		9	35 से 45 तक रंजी गंगू से नंदा गोविन्द तक		
10		10	46 से 59 तक किशन चेतन से गजराज रामाधार तक		
1	पीपल्याकला	1	1 से 19क तक संतोष बट्टलाल से रमेश सुंदरलाल तक	अ. जा.	4
2		2	20 से 30 तक कुसुम ब्रद्रीप्रसाद से रामबक्स देवचंद्र तक	अ. ज. जा.	-
3		3	31 से 43 तक मना रामदास से जगन्नाथ मिट्टू तक	अ.पि. वर्ग	3
4		4	44 से 57/1 तक अमरा सुखराम से गीता दगदू तक	महिला अ. जा.	2
5		5	58 से 65 तक पुनिया रामाधार से सिद्धू नारायण तक	महिला अ.ज.जा.	-
6		6	66 से 82 तक जियालाल राधेलाल से नर्मदा रामचरण तक	महिला अ.पि.व.	2
7		7	83 से 92 तक पन्नालाल मांगीलाल से रामसिंह सुखलाल तक	महिला सामा.	2
8		8	93 से 107 तक सुखलाल रामप्रसाद से लखन जगन्या तक		
9		9	108 से 124 तक जखिया श्यामलाल से मांगीलाल शंकर		
10		10	125 से 136 तक रामदास ओमकार से नानूराम बुद्धू तक		
11		11	136क से 158/1 तक उर्मिला रामसिंह से रामदास गोरेलाल तक		
1	बोथी	1	1 से 10ख तक रामचरण हीरा से ओझालाल सोमा तक	अ. जा.	-
2		2	11 से 20 तक मीठू कालू से बायलू कालू तक	अ. ज. जा.	10
3		3	21 से 30 तक सुंदरलाल बाबूलाल से रामेश्वर चुन्ना तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	31 से 39 तक रामदीन मोहनलाल से संभू लोटन तक	महिला अ. जा.	-
5		5	42 से 49 तक तेजराम रामकरण से झुनई रतिराम तक	महिला अ.ज.जा.	5
6		6	51 से 123 तक सूरज रामप्रसाद से बिसन कालू तक	महिला अ.पि.व.	-
7	आम्बा	7	02 से 10 तक प्यारीबाई कलीराम से हरि सुखराम तक	महिला सामा.	1
8		8	11 से 18 तक बालाराम सुखराम से प्रभुदायल हरिराम तक		
9		9	19 से 32 तक भैयालाल राधेलाल से बलराम रामसिंह तक		
10	मन्नासा	10	01 से 16क तक हेमराज इमरत से जोखीलाल नंदराम तक		
11		11	17 से 31 तक रामप्रसाद मनू से रामदास सुखराम एवं खारी 20 से 32 तक झागू श्रीकिशन से नानू बट्टू तक.		
1	डोलरिया	1	1 से 12 तक भगवतसिंह बुखारसिंह से कैलाश हीरालाल तक	अ. जा.	2
2		2	13 से 32 तक शिप्राबाई प्रहलाद से आशीष दिनेश तक	अ. ज. जा.	4
3		3	33 से 46 तक प्रताप धनसिंह से श्रवण सुखदेव तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	47 से 59 तक शांताबाई शिवकरण से मनोहर दयाराम तक	महिला अ. जा.	1
5		5	60 से 68 तक मांगीलाल भागीरथ से इमरत विष्णु तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	70 से 84 तक नन्हीबाई चंपालाल से रघुनाथ भागीरथ तक	महिला अ.पि.व.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	डोलरिया	7	85 से 101 तक गंगाविशन दयाराम से रामबकस कनू तक	महिला सामा.	3
8		8	102 से 124 तक विष्णु गुँडा से राजेश भैयालाल तक		
9		9	125 से 147 तक किशोरी गंगाराम से रामबिलास मिश्रीलाल तक		
10	10 द्विरीखेड़ा	1	1 से 15 तक शिवराम घुड़या से संजय मनूलाल तक		
11		11	16 से 35 तक रामदास रमेश्वर से गोपाल देवकरण तक		
12		12	36 से 54 तक घनश्याम शिवलाल से राजेश लखनलाल तक.		
1	सोहागपुर	1	1 से 19 तक केशर रामदास से सुनिता इमरत तक	अ. जा.	2
2		2	20 से 32क तक सुखदेव रामदास से अशोक रामदास तक	अ. ज. जा.	1
3		3	33 से 41 तक रामदास कुंजीलाल से सुनिता गोकुल तक	अ.पि. वर्ग	3
4		4	42 से 60 तक कमला रामाधार से कांतीबाई रामदीन तक	महिला अ. जा.	1
5		5	61 से 87 तक कमलकिशोर गोविन्द से भाग्यत्री सुभाष तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	88 से 100 तक सती गेंदलाल से रानू सुनिल तक	महिला अ.पि.व.	2
7		7	101 से 114 तक रुखमणि मनोहर से आनंद जयनारायण तक	महिला सामा.	2
8		8	115 से 127 तक धापूबाई रामनारायण से गीता संतोष तक		
9		9	128 से 139 तक रमेश चेद्र रामभाऊ से आनंद ओमप्रकाश तक		
10		10	140/1 से 159क तक ठाकुरलाल गेंदलाल से राजेश पन्नालाल तक		
11		11	159ख से 192 तक राधेश्याम देवराम से अशोक कुमार सुंदरलाल तक		
1	सन्नास्या	1	1 से 13 तक रामभरोस बोंदर से गुलाबसिंह नर्मदा तक	अ. जा.	3
2		2	14/1 से 23/3 तक जशोदा हरनाथ से मांगीलाल स्वरूपसिंह तक	अ. ज. जा.	2
3		3	24 से 39 तक रुखमणि रामनारायण से कमल किशनलाल तक	अ.पि. वर्ग	3
4		4	40 से 50क तक लक्ष्मी हरिराम से जगन्नाथ रामनाथ तक	महिला अ. जा.	2
5		5	51 से 59 तक संतोष शंकरलाल से सुशिला करणसिंह तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	60 से 78क तक जुगलकिशोर कमल से रामेश्वर रघुनाथ तक	महिला अ.पि.व.	2
7		7	79 से 91 तक मांगीलाल रामकरण से कन्हैयागिर हीरागिर तक	महिला सामा.	1
8		8	92 से 101/1 तक गंगूगिर हीरागिर से रामप्रसाद सिकदार तक		
9		9	102 से 111 तक भारतसिंह घासीराम से हुकुमचंद जगन्नाथ तक		
10		10	112 से 126 तक लक्ष्मीनारायण रघुनाथ से रमेश दिलीपसिंह तक		
11		11	129 से 139घ तक लक्ष्मीनारायण नत्थु से सज्जनसिंह मंगल तक		
12		12	139ड से 151 ख तक जगदीश मांगीलाल से भैयालाल सुखलाल तक		
1	भादूगांव	1	1 से 18ग तक डालचंद बाबूलाल से हेमलता रामकृष्ण तक	अ. जा.	2
2		2	22 से 32 तक रामकरण फत्तू से दिनेश मांगीलाल तक	अ. ज. जा.	7
3		3	33 से 45/3 तक बेणी छोटेलाल से प्रताप भोया तक	अ.पि. वर्ग	5
4		4	46 से 55/4 तक धनीराम भावसिंह से नरेन्द्र श्रीकिशन तक	महिला अ. जा.	1
5		5	56 से 68/2 तक शिवशंकर जगराम से त्रिवरण राधेश्याम तक	महिला अ.ज.जा.	4
6		6	68/3 से 85 तक प्रकाश राधेश्याम से सुमेर किशोरी तक	महिला अ.पि.व.	3
7		7	85/1 से 107 तक अनोखी किशोरी से शिवकुमार पन्ना तक	महिला सामा.	2
8		8	108 से 125 तक कमलबाई फागू से राकेश गौरीशंकर तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	भादूगांव	9	126 से 137 तक जुगल शिवलाल से सत्यनारायण ताराचंद		
10		10	139/1 से 148/3 तक प्रेमनारायण बालकृष्ण से दिलीप हरप्रसाद तक		
11		11	149 से 167 तक शांताबाई मदन से केशव निर्भय तक		
12		12	167क से 182 तक रमेश रामबिलास से शंकर कोमल तक		
13		13	183 से 197 तक शंकरलाल शिवकरण से छुट्टन किशोरी		
14		14	198 से 207 तक मांगीलाल मंगल से ऊषा किशन तक		
15		15	208 से 224/2 तक रतन कुंजी से इमरत कहैया तक		
16		16	226 से 239 तक हुकुम लक्ष्मण से सत्यनारायण रामरतन तक		
17		17	240 से 254 तक शिवलाल रामरतन से शांताबाई नानू तक		
18	अंधेरीखेड़ा	1 से 9ख तक फूलचंद विश्राम से बसंत शंकरलाल तक			
	टोला				
19		19	11 से 26 तक राजकुमार रिंगा से महेश शिवप्रसाद तक		
20		20	27 से 35ख तक कुंजी छनू से नंदराम कहैया तक		
1	आलमपुर	1	1 से 16 तक सावित्री लखन से मनीराम बाबूलाल तक	अ. जा.	3
2		2	17 से 33 तक कहैया सालिकराम से मांगीलाल राधेलाल तक	अ. ज. जा.	3
3		3	35 से 54 तक हरिप्रसाद बाबूलाल से चंपालाल रामलाल तक	अ.पि. वर्ग	4
4		4	55 से 68 तक मांगीलाल घासीराम से सुंदरलाल चुनीलाल तक	महिला अ. जा.	2
5		5	69 से 78च तक सुंदरलाल लक्ष्मण से नारायण पतिराम तक	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	79 से 86छ तक विष्णु पतिराम से पुरुषोत्तम नंदकिशोर तक	महिला अ.पि.व.	2
7		7	87 से 96 तक रामकृष्ण गेंदालाल से शांति बाबूलाल तक	महिला सामा.	2
8		8	97क से 115 तक ओमप्रकाश श्रीकिशन से उर्मिला राधाकिशन तक		
9		9	118 से 133क तक विष्णुदास रामचरणलाल से भैयालाल मूलचंद तक		
10		10	139 से 153 तक हरेराम कांतप्रसाद से लखन सैडया तक		
11		11	154 से 174/1 तक जयनारायण दौलतराम से कहैयालाल रामप्रसाद तक		
12		12	175 से 187क तक मनोज छुटकन से केशव चुनीलाल तक		
13		13	188 से 207 तक बाजूलाल रामप्रसाद से अजुदयाबाई आशराम तक		
14		14	208 से 224 तक हीरालाल मांगीलाल से अखिलेश छोटेलाल		
15		15	226 से 240क तक राधेश्याम कुंजीलाल से संतोश जगदीश		
1	कायदा	1	1 से 15 तक संजू मनू से राजकुमारी मुना तक	अ. जा.	-
2		2	15क से 26 तक छनू बुद्ध से प्रहलाद पन्नालाल तक	अ. ज. जा.	14
3		3	26क से 33 तक मुन्नी रंगलाल से रामवती चिरोंजी तक	अ.पि. वर्ग	-
4		4	34 से 40 तक फागू सुखलाल से तारावती भवलू तक	महिला अ. जा.	-
5		5	41 से 48 तक भूता कोल्या से तारावती प्रेम तक	महिला अ.ज.जा.	7
6		6	50 से 60 तक दादू भगेनिया से जीजी चंपालाल तक	महिला अ.पि.व.	-
7		7	61 से 69 तक हीरामन मनांग से मनोज सुखनंदन तक	महिला सामा.	-
8	कुमरूम	1	1 से 20 तक शोभाराम श्यामलाल से रामबाई लालसिंह तक		
9		9	21 से 40 तक रामसिंह नंदराम से रामसिंह परसराम तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	कायदा	10 कुमरूम	41 से 56 तक पुरणा राजाराम से पिंटु नानू तक		
11		11	57 से 77 तक रतिराम बुद्ध से जगदीश कालूराम तक		
12		12	78 से 88 तक गुन्ठू फूला से सुमरती आशाराम तक		
13		13	89 से 103 तक मोतीराम विसराम से शारदा मंगल तक		
14		14	104 से 115 तक राधेलाल कली से शंकर विसन तक		
1	लछौरा	1	1 ले 17 तक राधिका शंकर से गुलाबसिंह फूलचंद तक	अ. जा.	3
2		2	18 से 32 तक रामप्रसाद चेतराम से जगन्नाथ रामप्रसाद तक	अ. ज. जा.	-
3		3	33 से 48 तक लक्ष्मण विश्वाम से रन्बाई नानूराम तक	अ.पि. वर्ग	3
4		4	49 से 60 तक टीकम नानूराम से रमेश रामगोपाल तक	महिला अ. जा.	2
5		5	61 से 79 तक रामचन्द्र मयाराम से गुलाब घासीराम तक	महिला अ.ज.जा.	-
6		6	80 से 96 तक नंदलाल वीरम से सुन्दरलाल बाबूलाल तक	महिला अ.पि.व.	2
7		7	97 से 108 तक शिवनारायण हीरलाल से रामभरोस शिवकरण तक	महिला सामा.	2
8	शमशाबाद	1	1 से 16 तक लीमाजी छीतर से हरिराम भागीरथ तक		
9		9	17 से 31 तक हरिप्रसाद भागीरथ से सालकराम भगन तक		
10		10	32 से 46 तक भगवानदास बिहारी से लखन भागीरथ तक		
11		11	47 से 61 तक रामभरोस भुजराम से गहनाबाई रामगोपाल तक		
12		12	62 से 81 तक निर्भयसिंह रामसिंह से सुमेर हरनाथ तक		
1	गोदडी	1	1 से 18 तक सुमेरसिंह रामदीन से बंशीलाल इमरत तक	अ. जा.	2
2		2	19 से 30 तक गौरी बाबूलाल से हरिशंकर रामचरण	अ. ज. जा.	1
3		3	31 से 43क मुल्लूसिंह करणसिंह से गेंदालाल रामकरण तक	अ.पि. वर्ग	5
4		4	44 से 55 तक सोमसिंह जगदीश से सागर राधेश्याम तक	महिला अ. जा.	1
5		5	56 से 72 तक घुड़या तुलसीराम से रामकृष्ण रामेश्वर तक	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	73 से 88 तक सुशीलाबाई सुंदरलाल से सुद्या अशोक तक	महिला अ.पि.व.	3
7		7	89 से 102 तक हरिप्रसाद रामाधार से जगदीश बद्रीप्रसाद तक	महिला सामा.	4
8		8	103 से 114 तक लखन रामप्रसाद से सीताराम हजारी तक		
9		9	114क से 134 तक लतीफशाह रोशनशाह से हरिदास रामाधार		
10		10	135 से अंत तक गीता मंगल से रामनारायण हरिराम तक		
11	काथड़ी	11	1 से 21 तक रामबक्स गेंदालाल से शंकरसिंह भारतसिंह तक		
12		12	22 से 36 तक मल्ला गेंदालाल से अकलसिंह बिहारी तक		
13		13	37 से 47 तक रमेश पन्नालाल से लीला शैतानसिंह तक		
14		14	48 से 66 तक आत्माराम बापूसिंह से मोहनसिंह किशोरसिंह		
15		15	67 से 89 तक गंगाराम सीताराम से मासिंह जगदीश सिंह तक		
16		16	90 से 106 तक भागीरथी दरियाव से जगदीश बहादुरसिंह तक		
17		17	107 से 120 तक लक्ष्मीनारायण भगवानसिंह से प्रहलाद चंपालाल		
18		18	121 से अंत तक शंकरसिंह शिवचरण से अर्जुन नथूसिंह तक		

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर